



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30082024-256791
CG-DL-E-30082024-256791

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3374]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 30, 2024/भाद्र 8, 1946

No. 3374]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 30, 2024/BHADRA 8, 1946

रेल मंत्रालय

[उत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2024

का.आ. 3703(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 3904(अ), तारीख 04 सितम्बर 2023 द्वारा जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 04 सितम्बर 2023 में प्रकाशित अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, हरियाणा राज्य के नैंहूँ जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, हरियाणा आर्बिटल रेल कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने प्रयोजन के लिए घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात्, “हिंदुस्तान टाइम्स” तारीख 12 सितम्बर 2023 “दैनिक जगरण” तारीख 12 सितम्बर 2023 में प्रकाशित किया गया था;

और 06 आक्षेप प्राप्त हुए थे और उन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया तथा सभी आक्षणों का नियमानुसार निस्तारण किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को सौप दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के जिला नुह में विशेष रेल परियोजना "हरियाणा आर्बिटल रेल कारिडोर पलवल से सोनीपत वाया सोहना, मानेसर, खरखौदा" नई ब्रांड गेज दोहरी रेल लाइन कि० मी० **12.900** से कि०मी० **37.000** तक के लिए अर्जन की जानी वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का सक्षिप्त विवरण।

| जिले का नाम : | | | | | नूह |
|------------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------------------|---|
| तहसील / उप-तहसील / तालुका का नाम : | | | | | ईण्डरी |
| ग्राम का नाम : | | | | | भिरावटी |
| क्रम संख्या | सर्वेश्रण संख्या मुस्तिल नम्बर / किला नम्बर. | भूमि की प्रकृति | भूमि की प्रकार | भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टर) | भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नामे |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 1//15/2 min | नहरी | निजी | 0.0253 | भजनलाल पुत्र दुल्ली पुत्र इन्दर 1/2 भाग सजीव कुमार पुत्र मदन लाल पुत्र धर्म दास 1/8 भाग तरुण कुमार 3/16 भाग व हरीश कुमार 1/16 भाग पुत्रान श्रीमती गायत्री विधवा बीर सिह पुत्र दुल्ली 1/8 भाग वासीदेह। |
| 2 | 1//16 min | नहरी | निजी | 0.0101 | |
| 3 | 1//18 min | नहरी | निजी | 0.0556 | हरिसिंह पुत्र जयपाल सिह पुत्र रामचन्द 60/961 भाग, प्रमोद पुत्र राजपाल 211/961 भाग वासीदेह, औ.एम.आर.एस.एम. अचिवर डेवलपर प्रां० ली० अन्यकुछ 38/ 961 भाग वासीदेह, |
| 4 | 1//19 min | नहरी | निजी | 0.0202 | विजय, पपू पुत्रान वेदराम पुत्र मुनीराम हर दो समभाग 140/961 भाग, प्रवीन, प्रणव पुत्रान कल्लन पुत्र वेदराम हर दो समभाग 18/961 भाग राम सागर पुत्र राम जतन प्रसाद सिंह 1/961 भाग वासी देह, श्रीमती ओमबती विधवा राजपाल पुत्र रनबीर सिंह 70/961 भाग, सतीश, अकलेश, पवन कुमार पुत्रान व श्रीमती सरवेश, मुन्द्रा, बबीता पुत्रीया व श्रीमती जंयती विधवा जयपाल सिह पुत्र कुडसिंह हर सात समभाग 80/961 भाग ब्रह्मजीत सिह पुत्र गोरासिंह पुत्र बाल सिह 80/961 भाग, श्रीमती बिज्जो, श्रीमती सुरेश श्रीमती रकेश पुत्रीया वेदराम पुत्र मुनीराम हर तीन समभाग 158/961 भाग वासी कादरपुर, सोहना श्रीमती बालादेवी पत्नी बिल्लाराम पुत्र हंसराज 40/961 भाग वासी, नयागांव भौन्डसी तह. वासी सोहना जिला गुडगांव, श्रीमती मधुबाला पत्नी रोहताश सिह पुत्र उदयबीर 65/961 भाग वासीदेह |
| 5 | 1//22 min | नहरी | निजी | 0.0025 | |
| 6 | 1//23 min | नहरी | निजी | 0.0051 | |
| 7 | 2//11/2 min | नहरी | निजी | 0.0607 | यशदेव भारतराज पुत्र यग्य शर्मा |
| 8 | 23//23 min | नहरी | निजी | 0.0025 | ओमप्रकाश, महेन्द्र सिंह पुत्रान मंगतराम पुत्र शीरा हर दो समभाग 1/3 भाग वासी बल्लभगढ़, श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी महावीर सिह पुत्र 1/4 भाग वासदेह, श्रीमती सुरेश देवी पत्नी गोविन्द सिह पुत्र 1/4 भाग वासी रायसीना तह.सोहना श्रीमती कुसुमलता विधवा व राखी पुत्री कृष्णकुमार पुत्र मंगतुराम हर दो समभाग 1/6 भाग वासीदेह |
| जोड | | | | 0.1820 | |
| जिले का नाम : | | | | | नूह |
| तहसील / उप-तहसील / तालुका का नाम : | | | | | ईण्डरी |
| ग्राम का नाम : | | | | | उदाका |
| क्रम संख्या | सर्वेश्रण संख्या मुस्तिल नम्बर / किला नम्बर. | भूमि की प्रकृति | भूमि की प्रकार | भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टर) | भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नामे |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 26//24 min | नहरी | निजी | 0.0025 | हनीफ, अखतर हुसैन, जावेद, मुबारिक हुसैन पुत्रान दीन, मोहम्मद पुत्र नजीर अहमद हर चार समभाग 1/4 भाग ईसाक, नसरुदीन, उमरदीन पुत्रान नजीर अहमद पुत्र चाहत खां हर तीन समभाग 3/4 भाग वासीदेह |
| 2 | 36//3 min | नहरी | निजी | 0.0025 | |
| 3 | 36//12/1 min | नहरी | निजी | 0.0076 | चतर सिंह पुत्र खचेडू पुत्र शिवचरण वासीदेह |
| 4 | 38//4 min | नहरी | निजी | 0.0202 | नसरुदीन, रमजान, नबाब, महमूद पुत्रान अब्दुल रहमान पुत्र मखमूल हर चार समभाग 1/4 भाग इसमाईल, आजमखों पुत्रान मखमूल पुत्र मोजू हर दो समभाग 1/2 भाग, फजरुदीन, उमर मौहम्मद, हारून, आमीन, मुबीन पुत्रान सुलेमान पुत्र मखमूल हर पॉच समभाग 1/4 भाग वासीदेह |
| 5 | 38//5/1 min | नहरी | निजी | 0.1695 | |
| 6 | 38//6 min | नहरी | निजी | 0.3793 | शामलात पत्ती मेवान हसब रसद कबजा पिसर पुत्र वासी |
| 7 | 38//12/1 min | नहरी | निजी | 0.0051 | वसीम, नसीम पुत्रान इसराइल पुत्र हमजु हर दो समभाग 1/6 भाग जुम्मा, शरीफ, शमसु, बिल्लु पुत्रान हमजु पुत्र इमामखा हर चार समभाग 2/3 भाग वकील पुत्र मजीद पुत्र हमजु 1/12 भाग रहियान, अफसार पुत्रान हनीफ पुत्र मजीद हर दो समभाग 1/12 भाग वासीदेह |
| 8 | 38//20 min | नहरी | निजी | 0.0076 | |
| 9 | 38//21 min | चाही | निजी | 0.0076 | उमेश यादव, प्रवेश यादव पुत्रान बलबीर सिंह पुत्र मलखन हर दो समभाग 1/3 भाग वासी वजीराबाद, दिनेश, योगेश, राकेश पुत्रान जगदीश यादव पुत्र मलखान हर तीन समभाग 1/3 भाग वासी वजीराबाद, मनोज कुमार पुत्र मलखान पुत्र रामजस 1/3 भाग वासी वजीराबाद |
| जोड | | | | 0.6019 | |
| जिले का नाम : | | | | | नूह |
| तहसील / उप-तहसील / तालुका का नाम : | | | | | ईण्डरी |
| ग्राम का नाम : | | | | | ईण्डरी |
| क्रम संख्या | सर्वेश्रण संख्या मुस्तिल नम्बर / किला नम्बर. | भूमि की प्रकृति | भूमि की प्रकार | भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टर) | भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नामे |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 7//6/1 min | नहरी | निजी | 0.0025 | श्रीमती मन्जु कुमार पत्नी सुधीर कुमार पुत्र बसन्त सिह वासी दिल्ली । |
| 2 | 7//14/3 min | नहरी | निजी | 0.0025 | श्रीमती मन्जु कुमार पत्नी सुधीर कुमार पुत्र बसन्त सिह वासी दिल्ली । |
| 3 | 7//15 min | मगदा | निजी | 0.0025 | अशोक नागिया पुत्र रामसवरुप नागिया पुत्र हीरानन्द नागिया वासी दिल्ली । |
| 4 | 7//17 min | नहरी | निजी | 0.0025 | विकास चौधरी पुत्र सुमेर सिंह पुत्र रायपुरी सोहना 1/2 भाग वासी, लुकमान पुत्र समसूद्धीन पुत्र सुभान खां 1/9 भाग, सौकीन, रिजवान पुत्रान समसूद्धीन पुत्र सुभान खां हर दो समभाग 2/9 भाग, अशोक कुमार पुत्र बंगाली प्रसाद 1/6 भाग वासीदेह। |
| 5 | 79//25 min | नहरी | निजी | 0.0479 | प्रभाती पुत्र रतीराम पुत्र भीमसिंह वासीदेह। |
| 6 | 80//21/2 min | नहरी | निजी | 0.0784 | प्रभाती पुत्र रतीराम पुत्र भीमसिंह वासीदेह। |
| 7 | 102//1 min | मगदा | निजी | 0.0126 | प्रभाती पुत्र रतीराम पुत्र भीमसिंह वासीदेह। |
| 8 | 103//5/1 min | नहरी | निजी | 0.0911 | प्रभाती पुत्र रतीराम पुत्र भीमसिंह वासीदेह। |

| | | | | | |
|----|---------------|--------|------|--------|---|
| 9 | 103//5/2 min | नहरी | निजी | 0.0911 | श्रीमती मधुबाला पत्नी महीपाल कौशिक पुत्र दलीप सिंह बिला रहन 1/3 भाग श्रीमती गुजरी पत्नी ताहिर मोहम्मद पुत्र अब्दुल बिला रहन 1/12 भाग श्रीमती मन्जुबाला पत्नी सुरेश कुमार पुत्र रामफल बिला रहन 1/6 भाग वासी श्रीमती सुदेश कुमारी पत्नी गोविन्द सिंह पुत्र रामचन्द बिला रहन 1/12 भाग श्रीमती संतोष पत्नी धन सिंह पुत्र नथूराम रहन हिस्सा 35/491 भाग सतबीर पुत्र श्रीचन्द्र पुत्र देवीराम रहन हिस्सा 128/1473 भाग श्रीमती मायाशर्मा विधवा व हेमन्त शर्मा, पंकज शर्मा पुत्रान जोगिन्द्र शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा हर तीन समभाग रहन हिस्सा 256/1473 भाग वासीदेह करतार, लालचन्द, धर्मसिंह, महेशचन्द्र पुत्रान व मेना हरचन्दी पुत्रीयान श्रीमती सुखपाली पुत्री लेखराम रहन हिस्सा 2/1473 भाग देवीसिंह पुत्र यादराम पुत्र गरीबा मुरतहन 1/3 भाग |
| 10 | 103//6 min | नहरी | निजी | 0.0936 | |
| 11 | 103//7/1 min | मगदा | निजी | 0.0101 | श्रीमती मधुबाला पत्नी महीपाल कौशिक पुत्र दलीप सिंह बिला रहन 1/3 भाग श्रीमती गुजरी पत्नी ताहिर मोहम्मद पुत्र अब्दुल बिला रहन 1/12 भाग श्रीमती मन्जुबाला पत्नी सुरेश कुमारी पत्नी गोविन्द सिंह पुत्र रामचन्द बिला रहन 1/12 भाग श्रीमती संतोष पत्नी धन सिंह पुत्र नथूराम रहन हिस्सा 35/491 भाग सतबीर पुत्र श्रीचन्द्र पुत्र देवीराम रहन हिस्सा 128/1473 भाग श्रीमती मायाशर्मा विधवा व हेमन्त शर्मा, पंकज शर्मा पुत्रान जोगिन्द्र शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा हर तीन समभाग रहन हिस्सा 256/1473 भाग वासीदेह करतार, लालचन्द, धर्मसिंह, महेशचन्द्र पुत्रान व मेना हरचन्दी पुत्रीयान श्रीमती सुखपाली पुत्री लेखराम रहन हिस्सा 2/1473 भाग देवीसिंह पुत्र यादराम पुत्र गरीबा मुरतहन 1/3 भाग |
| 12 | 103//7/2 min | नहरी | निजी | 0.0304 | कर्णसिंह ,चरणसिंह ,अमरसिंह, रामबीर ,धर्मबीर पुत्रान दयाराम उर्फ राजेन्द्र पुत्र भरतसिंह हर पांच समभाग वासीदेह। |
| 13 | 103//14/2 min | नहरी | निजी | 0.1442 | श्रीमती अशरफी पत्नी अब्दुल गफूर पुत्र अब्दुल रहीम 5/16 भाग वासीदेह, समयदीन, जमशेद पुत्रान अब्दुल गफूर पुत्र अब्दुल रहीम हर दो समभाग 1/8 भाग वासी रेवासन, तुलसी पुत्र श्रीमती जमनी पुत्री भूपन 1/4 भाग, सईदा पत्नी समयदीन पुत्र अब्दुल गफूर 85/592 भाग, श्रीमती उषा पत्नी भारत भूषण 31/777 भाग, श्रीमती संजीदा पुत्री समसुदीन पुत्र सुभान खां 241/3108 भाग, श्रीमती गरिमा मेन्दीरता पत्नी यंश मेन्दीता पुत्र रामप्रसाद 40/777 भाग, वासीदेह। |
| 14 | 103//17/2 min | नहरी | निजी | 0.0658 | |
| 15 | 103//18 min | मगदा | निजी | 0.0885 | |
| 16 | 103//22 min | नहरी | निजी | 0.0126 | कर्णसिंह ,चरणसिंह ,अमरसिंह, रामबीर ,धर्मबीर पुत्रान दयाराम उर्फ राजेन्द्र पुत्र भरतसिंह हर पांच समभाग वासीदेह। |
| 17 | 103//23/1 min | नहरी | निजी | 0.1290 | |
| 18 | 103//23/2 min | नहरी | निजी | 0.0051 | श्रीमती अशरफी पत्नी अब्दुल गफूर पुत्र अब्दुल रहीम 5/16 भाग वासीदेह, समयदीन, जमशेद पुत्रान अब्दुल गफूर पुत्र अब्दुल रहीम हर दो समभाग 1/8 भाग वासी रेवासन, तुलसी पुत्र श्रीमती जमनी पुत्री भूपन 1/4 भाग, सईदा पत्नी समयदीन पुत्र अब्दुल गफूर 1/16 भाग, श्रीमती राजबाला पत्नी सुरेश कुमार 3/37 भाग, श्रीमती उषा पत्नी भारत भूषण 31/777 भाग, श्रीमती संजीदा पुत्री समसुदीन पुत्र सुभान खां 241/3108 भाग, श्रीमती गरिमा मेन्दीरता पत्नी यंश मेन्दीता पुत्र रामप्रसाद 40/777 भाग, वासीदेह। |
| 19 | 105//15 min | नहरी | निजी | 0.1568 | |
| 20 | 105//16 min | चिकनोट | निजी | 0.0481 | किशन सहाय पुत्र ग्यासी पुत्र धर्मसिंह वासीदेह। |
| 21 | 106//1 min | नहरी | निजी | 0.0025 | मुकेश कुमार , औमप्रकाश 1/10 भाग, श्रीमती जसवन्ती विधवा व श्रीमती सरोज बाला , श्रीमती सुरेश बाला, श्रीमती सुनीता पुत्रीयां ईश्वर सिंह पुत्र जागेराम हर चार समभाग 7/400 भाग, राहूल, सहरावत, यसु पुत्रान व श्रीमति पुजा पुत्री व श्रीमती कमला देवी विधवा सतीश कुमार पुत्र ईश्वर सिंह समभाग 7/1600 हर चार समभाग दीपक, रोहित पुत्रान व निशि पुत्री व श्रीमति कृष्णा देवी विधवा राजेन्द्र सिंह पुत्र जागेराम हर चार समभाग 7/320 भाग, सुरेन्द्र ,तरुण पुत्रान आजाद सिंह हर दो समभाग 7/320 भाग, राजेन्द्र पुत्र ताराचन्द पुत्र जीतराम 1/30 भाग, सुनील ,अनिल पुत्रान राजबीर पुत्र ताराचन्द हर दो समभाग 17/600 भाग, सततीर पुत्र व श्रीमती राजकला, श्रीमती राजरानी ,श्रीमती सन्तोष पुत्रीयान करतार सिंह पुत्र जीतराम हर चार समभाग 1/15 भाग, हरबीर पुत्र व श्रीमती बाला विधवा राजपाल सिंह पुत्र करतार सिंह हर दो समभाग 1/7 भाग, नन्दन पुत्र भोजी पुत्र काले 1/4 भाग, महाबीर सिंह ,महेश चन्द्र पुत्रान डालसिंह पुत्र जीतराम हर दो समभाग 1/15 भाग, प्रदीप कुमार पुत्र महेन्द्र पुत्र डालसिंह 1/30 भाग, सजय पुत्र व श्रीमती सवीता विधवा व श्रीमती पूनम ,अनिता ,श्रीमती सुनीता पुत्रीयां धर्मवीर सिंह पुत्र तारा चन्द हर पांच 1/30 भाग, राजीव कुमार पुत्र व श्रीमती मीना विधवा व श्रीमती नीतू,श्रीमती सरीता, श्रीमती अनिता पुत्रीयां रविन्द्र सिंह पुत्र जागेराम हर पांच समभाग 7/320 भाग, सतीश कुमार पुत्र व श्रीमती सुरेश कुमारी, श्रीमती सुशीला रानी ,श्रीमती सरोजबाला पुत्रीयां शान्ति पुत्र जागेराम हर चार समभाग 1/80 भाग, श्रीमति सुमन ,गीता पुत्रीयान व श्रीमति कृष्णा विधवा राजबीर पुत्र ताराचन्द हर तीन समभाग 1/200 भाग, अजय कुमार , सुमित , सहरावत , अमित पुत्रान व श्रीमति सुरेश कुमारी विधवा प्रताप सिंह पुत्र करतार सिंह हर पांच समभाग 1/60 भाग, विजय सहरावत पुत्र व कमलेश देवी ,सन्तोष देवी पुत्रीयां राजबीर सिंह पुत्र रत्न सिंह हर चार समभाग 1/12 भाग वासी। सर्वजीत पुत्र व अजीत कौर ,कमलजीत कौर पुत्रीयां जसवन्त सिंह पुत्र रत्न सिंह हर चार समभाग 1/12 भाग चन्दन सिंह ,पदम सिंह ,बदनसिंह पुत्रान व श्रीमती सरस्वती देवी उर्फ जीतकौर ,सुशीलादेवी पुत्रीयां व श्रीमती राजदेवी विधवा रणबीर सिंह हर छ: समभाग 1/12 भाग, वासीयान देह दिल्ली । |
| 22 | 106//2/1 min | नहरी | निजी | 0.0302 | कर्णसिंह, चरणसिंह, अमरसिंह, रामबीर, धर्मबीर पुत्रान दयाराम उर्फ राजेन्द्र पुत्र भरतसिंह हर पांच समभाग वासीदेह। |
| 23 | 106//2/2 min | नहरी | निजी | 0.1391 | रत्नीराम पुत्र उदय सिंह पुत्र टुण्डा रहन हिस्सा 192/9216 भाग, विनेश ,सीमा, रीना ,बीना पुत्रीयां व विकम सिंह योगेश पुत्रान व श्रीमती दयावती विधवा हुकमसिंह पुत्र उदयसिंह हर सात समभाग रहन हिस्सा 1/48 भाग, हेमन्त पुत्र व मधु, उषा पुत्रियां रोहताश पुत्र छाजू 79/168 भाग, मूरतहनान रामधन, श्रीचन्द्र रामचन्द्र, सोहन लाल पुत्रान भगवान सहाय पुत्र बदलु हर चार समभाग 35/512 भाग, उदयराम पुत्र दीपा पुत्र नाथा 1/64 भाग, चन्दु पुत्र बदल पुत्र जोसी 11/1152 भाग आराजी मतरुका गैर अलाट शुदा 875/1536 भाग, ओमवीर, कृष्ण कुमार पुत्रान भगवान सहाय पुत्र चन्दु लाल हर दो समभाग 11/1152 भाग अभयपाल, बन्धी लाल, रामजीत पुत्रान मोहन लाल पुत्र चन्दूलाल हर तीन समभाग 11/576 भाग प्रमान्द, धर्मबीर, किशन सिंह पुत्रान रामरिछपाल पुत्र रामचन्द्र पुत्र कर्ण सिंह 11/1152 भाग संजीव कुमार,राजीव कुमार पुत्रान राजपाल सिंह पुत्र तेजसिंह हर दो समभाग 41/2304 भाग श्रीमती सुन्ताती पत्नी अखतर हुसैन पुत्र मंगल 11/2304 भाग, विरेन्द्र पुत्र बाबुराम पुत्र उदयसिंह 1/96 भाग अकबर पुत्र मंगल पुत्र असरू 11/2304 भाग श्रीमती बिमला देवी पत्नी जगदीश सिंह 11/2304 भाग, श्रीमती पूजा पत्नी उमेष चौधरी पुत्र सतबीर 919/552960 भाग, श्रीमती बवीता पत्नी सतबीर सिंह पुत्र रामजीलाल 11/1152 भाग, नरेन्द्र पुत्र बाबूराम पुत्र उदय सिंह 1/21600 भाग प्रथमसिंह,बलजीत सिंह पुत्रान व श्रीमती रचना देवी पुत्री व श्रीमती शकुन्तला विधवा उधम सिंह पुत्र हर चार समभाग 41/2304 भाग वासीदेह, जगदीश पुत्र तेजसिंह पुत्र जलसिंह 919/552960 भाग, वासीदेह वासी नाथूपर तह0 व जिला गुडगांव, श्रीमती बीरवती पत्नी श्यामसिंह पुत्र कन्हीराम 3/1066 भाग, श्रीमती रुक्सीदा पत्नी जुबैर पुत्र सोदान 3/1066 भाग, सरजीत पुत्र रोशनी पुत्री तेजसिंह पुत्र जलसिंह हर दो समभाग 6433/276480 भाग, प्रथम सिंह, बलजीत सिंह पुत्रान व श्रीमती रचना देवी पुत्री व श्रीमती शकुन्तला विधवा उधमसिंह हर चार समभाग 919/552960 भाग, संजीव कुमार, राजीव कुमार पुत्रान राजपाल सिंह पुत्र तेज सिंह हर दो समभाग 919/552960 भाग, औमप्रकाश पुत्र भगवान सहाय पुत्र चन्दूलाल 979/331776 भाग, श्रीमती रामश्री पत्नी औमप्रकाश पुत्र भगवान सहाय 605/331776 भाग वासीदेह, प्रिन्स ,राजेश,आशोक पुत्रान श्रीमती परसन्दी पुत्री तेजस |

| | | | | | |
|----|--------------|-------------------|------|--------|--|
| | | | | | सौदान 3/640 भाग, श्रीमती सुमन पत्नी आदेश कुमार पुत्र रामजीलाल 682387/49121280 भाग। |
| 24 | 106//3 min | चिकनोट | निजी | 0.0051 | कर्णसिंह, चरणसिंह, अमरसिंह, रामबीर, धर्मबीर पुत्रान दयाराम उर्फ राजेन्द्र पुत्र भरतसिंह हर पांच समभाग वासीदेह। |
| 25 | 106//4/1 min | चिकनोट | निजी | 0.0126 | |
| 26 | 106//9/1 min | नहरी | निजी | 0.0253 | रतीराम पुत्र उदय सिंह पुत्र टुण्डा रहन हिस्सा 192/9216 भाग, विनेश ,सीमा, रीना ,बीना पुत्रीयां व विकम सिंह योगेश पुत्रान व श्रीमती दयावती विधवा हुकमसिंह पुत्र उदयसिंह हर सात समभाग रहन हिस्सा 1/48 भाग, हेमता पुत्र व मधु, उषा पुत्रियां रोहताश पुत्र छाजू हर तीन समभाग 3/7 भाग पंकज पुत्र रोहताश पुत्र छाजू 79/168 भाग, मूरतहनान रामधन , श्रीचन्द रामचन्द्र, सोहन लाल पुत्रान भगवान सहाय पुत्र बदलु हर चार समभाग 35/512 भाग, उदयराम पुत्र दीपा पुत्र नाथा 1/64 भाग, चन्दु पुत्र बदले पुत्र जोसी 11/1152 भाग, आराजी मतरुका गैर अलाट शुदा 875/1536 भाग, ओमवीर, कृष्ण कुमार पुत्रान भगवान सहाय पुत्र चन्दु लाल हर दो समभाग 11/1152 भाग, अभयपाल, बन्धी लाल, रामजीत पुत्रान मोहन लाल पुत्र चन्दूलाल हर तीन समभाग 11/576 भाग, प्रमान्द , धर्मबीर, किशन सिंह पुत्रान रामरिघापाल पुत्र रामचन्द्र 11/1152 भाग, संजीव कुमार, राजीव कुमार पुत्रान राजपाल सिंह पुत्र तेजसिंह हर दो समभाग 41/2304 भाग, श्रीमती सुन्ती पत्नी अखतर हुसैन पुत्र मंगल 11/2304 भाग, विरेन्द्र पुत्र बाबूराम पुत्र उदयसिंह 1/96 भाग , अकबर पुत्र मंगल पुत्र असरू 11/2304 भाग, श्रीमती बिमला देवी पत्नी जगदीश सिंह 11/2304 भाग, श्रीमती पूजा पत्नी उमेष चौधरी पुत्र सतबीर 919/552960 भाग, श्रीमती बीवीता पत्नी सतबीर सिंह पुत्र रामजीलाल 11/1152 भाग, नरेन्द्र पुत्र बाबूराम पुत्र उदय सिंह 1/21600 भाग, प्रथमसिंह ,बलजीत सिंह पुत्रान व श्रीमती रचना देवी पुत्री व श्रीमती शकुन्तला विधवा उधम सिंह पुत्र हर चार समभाग 41/2304 भाग वासीदेह, जगदीश पुत्र तेजसिंह पुत्र जलसिंह 919/552960 भाग, वासीदेह , वासी नाथूपुर तह0 व जिला गुडगावा, श्रीमती बीरवती पत्नी श्यामसिंह पुत्र कन्हीराम 3/1066 भाग, श्रीमती रुक्सीदा पत्नी जुबैर पुत्र सोदान 3/1066 भाग, सरजीत पुत्र रोशनी पुत्री तेजसिंह पुत्र जलसिंह हर दो समभाग 6433/276480 भाग, प्रथम सिंह, बलजीत सिंह पुत्रान व श्रीमती रचना देवी पुत्री व श्रीमती शकुन्तला विधवा उधमसिंह हर चार समभाग 919/552960 भाग, संजीव कुमार, राजीव कुमार पुत्रान राजपाल सिंह पुत्र तेज सिंह हर दो समभाग 919/552960 भाग, औमप्रकाश पुत्र भगवान सहाय पुत्र चन्दूलाल 979/331776 भाग, श्रीमती रामश्री पत्नी औमप्रकाश पुत्र भगवान सहाय 605/331776 भाग वासीदेह, प्रिन्स ,राजेश,आशोक पुत्रान श्रीमती परसन्दी पुत्री तेजसिंह हर तीन समभाग 40399/552960 भाग, श्रीमती बीरबती पत्नी श्याम सिंह पुत्र कन्हीराम 3/640 भाग, राहुल, बिजेन्द्र पुत्रान व श्रीमती बाला देवी विधवा रणजीत सिंह पुत्र भगवान सहाय हर तीन समभाग 11/3072 भाग, श्रीमती बालादेवी विधवा रणजीत सिंह पुत्र भगवान सहाय 11/9216 भाग, वासीदेह श्रीमती रुक्सीदा पत्नी जुबैर पुत्र सोदान 3/640 भाग, श्रीमती सुमन पत्नी आदेश कुमार पुत्र रामजीलाल 682387/49121280 भाग। |
| 27 | 106//10 min | नहरी | निजी | 0.1697 | मुकेश कुमार , औमप्रकाश 1/10 भाग, श्रीमती जसवन्ती विधवा व श्रीमती सरोज बाला , श्रीमती सुरेश बाला, श्रीमती सुनीता पुत्रीयां ईश्वर सिंह पुत्र जागेराम हर चार समभाग 7/400 भाग, राहुल, सहरावत, यसु पुत्रान व श्रीमति पुजा पुत्री व श्रीमती कमला देवी विधवा सतीश कुमार पुत्र ईश्वर सिंह समभाग 7/1600 हर चार समभाग दीपक ,रोहित पुत्रान व निशी पुत्री व श्रीमति कृष्ण देवी विधवा राजेन्द्र सिंह पुत्र जागेराम हर चार समभाग 7/320 भाग, सुरेन्द्र ,तरुण पुत्रान आजाद सिंह हर दो समभाग 7/320 भाग, राजेन्द्र पुत्र ताराचन्द पुत्र जीतराम 1/30 भाग, सुनील ,अनिल पुत्रान राजबीर पुत्र ताराचन्द हर दो समभाग 17/600 भाग, सतबीर पुत्र व श्रीमती राजकला, श्रीमती राजरानी,श्रीमती सन्तोष पुत्रीयान करतार सिंह पुत्र जीतराम हर चार समभाग 1/15 भाग, हरबीर पुत्र व श्रीमती बाला विधवा राजपाल सिंह पुत्र करतार सिंह हर दो समभाग 1/7 भाग, नन्दन पुत्र भोजी पुत्र काले 1/4 भाग, महाबीर सिंह ,महेश चन्द पुत्रान डालसिंह पुत्र जीतराम हर दो समभाग 1/15 भाग, प्रदीप कुमार पुत्र महेन्द्र पुत्र डालसिंह 1/30 भाग, संजय पुत्र व श्रीमती सवीता विधवा व श्रीमती पूनम,अनिता,श्रीमती सुनीता पुत्रीयां धर्मवीर सिंह पुत्र तारा चन्द हर पांच 1/30 भाग, राजीव कुमार पुत्र व श्रीमती मीना विधवा व श्रीमती नीतू,श्रीमती सरीता, श्रीमती अनिता पुत्रीयां रविन्द्र सिंह पुत्र जागेराम हर पांच समभाग 7/320 भाग, सतीश कुमार पुत्र व श्रीमती सुदेंश कुमारी, श्रीमती सुशीला रानी ,श्रीमती सरोजबाला पुत्रीयां शान्ति पुत्र जागेराम हर चार समभाग 1/80 भाग, श्रीमति सुमन ,गीता पुत्रीयान व श्रीमति कृष्ण विधवा राजबीर पुत्र ताराचन्द हर तीन समभाग 1/200 भाग, अजय कुमार , सुमित , सहरावत , अमित पुत्रान व श्रीमति सुरेश कुमारी विधवा प्रताप सिंह पुत्र करतार सिंह हर पांच समभाग 1/60 भाग, विजय सहरावत पुत्र व कमलेश देवी ,सन्तोष देवी पुत्रीयां राजबीर सिंह पुत्र रतन सिंह हर चार समभाग 1/12 भाग वासी। सर्वजीत पुत्र व अजीत कौर ,कमलजीत कौर पुत्रीयां जसवन्त सिंह पुत्र रतन सिंह हर चार समभाग 1/12 भाग चन्दन सिंह ,पदम सिंह ,बदनसिंह पुत्रान व श्रीमती सरस्वती देवी उर्फ जीतकौर ,सुसीलादेवी पुत्रीयां व श्रीमती राजदेवी विधवा रणबीर सिंह हर छ: समभाग 1/12 भाग, वासीयान देवी दिल्ली । |
| 28 | 106//11 min | नहरी | निजी | 0.0632 | पोहपसिंह, गाजीराम पुत्रान किशन सहाय पुत्र ग्यासी हर दो समभाग 2/3 भाग अशोक कुमार, रवि कुमार पुत्रान राजेन्द्र सिंह पुत्र किशन सहाय हर दो समभाग 1/3 भाग वासीदेह। |
| 29 | 956 min | गैर मुमकिन रास्ता | निजी | 0.0151 | पंचायत देह। |

जोड़

1.5781

जिले का नाम :

नूह

तहसील / उप-तहसील / तालुका का नाम :

ईण्डरी

ग्राम का नाम :

खानपुर

| क्रम संख्या | सर्वेश्रण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर. | भूमि की प्रकृति | भूमि की प्रकार | भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टर) | भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नामे |
|-------------|---|-----------------|----------------|----------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 11//7/1 min | नहरी | निजी | 0.0202 | यामीन पुत्र इकबाल हुसैन पुत्र कबीर अहमद वासीदेह। |
| 2 | 11//7/2 min | नहरी | निजी | 0.0076 | यामीन पुत्र इकबाल हुसैन पुत्र कबीर अहमद वासीदेह। |
| 3 | 11//23/2 min | नहरी | निजी | 0.0025 | पंचायत देह। |
| 4 | 13//3/1 min | निरमोट | निजी | 0.0101 | पंचायत देह। |
| 5 | 13//13 min | निरमोट | निजी | 0.0025 | जावेद अहमद पुत्र कबीर अहमद पुत्र याकूब खां उर्फ खूबी वासी। |
| 6 | 23//5/2 | भूड | निजी | 0.0076 | युसूफ ,जमील पुत्रान उमराव पुत्र महताब हर दो समभाग 1/9 भाग, खूबी, जुम्मा, इसमाईल, आजाद, हनीफ पुत्रान महताब पुत्र सरूपा हर पांच समभाग 5/9 भाग, साहून, आरिफ, परवेज, आशिक पुत्रान खुर्शीद पुत्र महताब हर चार समभाग 1/9 भाग वासीदेह, ताहिर मौहम्मद , |

| | | | | | अख्तर हुसैन, सदीक अहमद पुत्रान रहमान खाँ पुत्र महताब खाँ हर तीन समभाग 1/9 भाग वासी, बड़लाकी, वहीद अहमद, युनूस खान, मुबारिक पुत्रान अहमद इकबाल पुत्र महताब हर तीन समभाग 1/9 भाग वासीदेह। |
|------------------------------------|--|-------------------|----------------|----------------------------|---|
| 7 | 27//18 min | मगदा | निजी | 0.0051 | पंचायत देह। |
| 8 | 27//24 min | मगदा | निजी | 0.0025 | पंचायत देह। |
| 9 | 30//3 min | मगदा | निजी | 0.0126 | श्रीमती असगरी पत्नी उमराव पुत्र महताब खाँ 1/9 भाग, श्रीमती सरयम पत्नी खुबी पुत्र महताब खाँ 1/9 भाग, श्रीमती मरयम पत्नी अहमद इकबाल पुत्र महताब खाँ 1/9 भाग, श्रीमती मैमूना पत्नी इसमाईल पुत्र महताब खाँ 1/9 भाग, श्रीमती हमीदी पत्नी जुम्मा पुत्र महताब खाँ 1/9 भाग, श्रीमती मजीदन पत्नी खुर्शीद पुत्र महताब खाँ 1/9 भाग, श्रीमती अकबरी पत्नी आजाद पुत्र महताब खाँ 1/9 भाग वासीदेह, ताहिर मोहम्मद, अख्तर हुसैन सदवीक अहमद पुत्रान रहमान खाँ पुत्र महताब खाँ हर तीन समभाग 1/9 भाग वासी बड़लाकी, हनीफ पुत्र महताब पुत्र सरूपा 1/9 भाग वासीदेह। |
| 10 | 30//4 min | चाही | निजी | 0.0304 | पंचायत देह। |
| 11 | 40 min | गै० मु० रास्ता | निजी | 0.0177 | पंचायत देह। |
| जोड़ | | | | 0.1188 | |
| जिले का नाम : | | | | | नूह |
| तहसील / उप-तहसील / तालुका का नाम : | | | | | ईण्डरी |
| ग्राम का नाम : | | | | | रेवासन |
| क्रम संख्या | सर्वेश्रण संख्या मुस्तिल नम्बर / किला नम्बर. | भूमि की प्रकृति | भूमि की प्रकार | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर) | भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नामे |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 10//14 min | नहरी | निजी | 0.0025 | संजय मलिक पुत्र मदनलाल मलिक पुत्र निहाल चन्द 1/3 भाग मुनीष मलिक H.U.F बजरीया कर्ता मुनीष मलिक दत्तक पुत्र बहादुर चन्द मलिक पुत्र निहाल चन्द 1/3 भाग श्रीमती साक्षी मलिक पत्नी रोहित कुमार मलिक पुत्र इकबाल सिंह मलिक 1/6 भाग श्रीमती तेजेन्द्र मलिक पत्नी मोहित कुमार मलिक पुत्र इकबाल सिंह मलिक 1/6 भाग वासीदेह |
| 2 | 10//16 min | नहरी | निजी | 0.0379 | |
| 3 | 10//17/1 min | नहरी | निजी | 0.0101 | |
| 4 | 10//17/2 min | नहरी | निजी | 0.1593 | |
| 5 | 10//18/1 | डहरी | निजी | 0.0076 | सैन्ट्रल गैर्वमैन्ट पुत्र हकदार शामलात संजय मलिक पुत्र मदनलाल मलिक पुत्र निहाल चन्द 1/3 भाग वासीदेह मदनलाल मलिक पुत्र निहाल चन्द मलिक पुत्र मूलचन्द 1/3 भाग वासी नूहें श्रीमति साक्षी मलिक पत्नी व रोहित कुमार मलिक पुत्र इकबाल सिंह मलिक पुत्र हर दो समभाग 1/6 भाग वासीदेह श्रीमति तेजेन्द्र मलिक पत्नी मोहित कुमार मलिक पुत्र इकबाल सिंह मलिक 1/6 भाग वासी नूहें |
| 6 | 10//18/2/1 | नहरी | निजी | 0.0051 | श्रीमती सुनीता मलिक पत्नी नानक राय मलिक पुत्र रामचन्द्र 1/2 भाग समसुदीन पुत्र सुभान खाँ पुत्र 29/210 भाग रामप्रदास पुत्र गोविन्द राम पुत्र जीवन दास 38/105 भाग वासीदेह |
| 7 | 10//18/2/2 | गैर मुमकिन रास्ता | निजी | 0.0126 | प्रहलाद भगत, जयभगवान, कैलाशनाथ, चन्दप्रकाश पुत्रान रामकिशन पुत्र जीवनदास हर चार समभाग 4/5 भाग श्रीमती मनोरमा विधवा व सुधासू पुत्र व श्रीमती रोहिणी, निफी पुत्रियां सुन्दरश्याम पुत्र रामकिशन हर चार समभाग 1/5 भाग वासीदेह |
| 8 | 10//22/2 min | नहरी | निजी | 0.0404 | जयभगवान पुत्र रामकिशन पुत्र जीवनदास वासीदेह |
| 9 | 10//23/1 | नहरी | निजी | 0.2099 | जलेबखा पुत्र अब्दुल रहीम पुत्र हमीदा वासीदेह। |
| 10 | 10//23/2 min | डहरी | निजी | 0.0556 | फजरु पुत्र सरूपा 5/133 भाग, इदरीश पुत्र सरूपा 22/101745 भाग हनीफ, हारून पुत्रान सरूपा हर दो समभाग 2/7 भाग, श्रीमति रहीसन पत्नी अहमद खाँ पुत्र उमर खाँ 4301/221445 भाग, सबाना पत्नी हामिद पुत्र रज्जाक 4301/221445 भाग, रासिदा पत्नी फैज मौ० पुत्र 4301/221445 भाग, अब्दुलरहीम पुत्र आस मौ० पुत्र हसमल 7/855 भाग, श्रीमती जायदा पत्नी शमसुदीन पुत्र सुभान खा 16/119 भाग, सोहराब पुत्र सरूपा 79/3885 भाग, समीना पत्नी अकबर पुत्र सरूपा 68/555 भाग, लुकमान, शौकीन, रिजवान पुत्रान समशुदीन पुत्र सुभान खा हर तीन समभाग 23/95 भाग, अखलीम पुत्र समशुदीन पुत्र सरूपा 1/14 भाग, अखलाक पुत्र समशुदीन पुत्र सरूपा 149/7770 भाग वासीदेह। |
| 11 | 10//24 min | नहरी | निजी | 0.0379 | फजरु, हनीफ, हारून पुत्रान सरूपा हर तीन समभाग 3/7 भाग अब्दुल रहीम पुत्र आस मौ० पुत्र हसमल 1/7 भाग, सोहराब पुत्र सरूपा 79/3885 भाग, श्रीमति समीना पत्नी अकबर पुत्र सरूपा 86/555 भाग, अखलाक पुत्र समसुदीन पुत्र सरूपा 149/7770 भाग, अखलीम पुत्र समसुदीन पुत्र सरूपा 1/14 भाग, श्रीमति रहीसन पत्नी अहमद खाँ पुत्र उमर खाँ 758/11655 भाग, सबाना पत्नी हामीद पुत्र रज्जाक 758/11655 भाग, राशिदा पुत्री फैज मौ० पुत्र नुर मौ० 758/11655 भाग वासीदेह। |
| 12 | 14//14/2 min | गैर मुमकिन | एचएसआईआईडीसी | 0.0076 | हरियाणा राज्य औदयोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड वासीदेह |
| 13 | 15//16/2/1 min | नहरी | निजी | 0.0051 | श्रीमती फराह खान पत्नी फिरोज खान पुत्र अजमेरी खान वासीदेह |
| 14 | 15//16/2/2 min | गैर मुमकिन | एचएसआईआईडीसी | 0.0025 | हरियाणा राज्य औदयोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड वासीदेह |
| 15 | 15//18/2 min | गैर मुमकिन | एचएसआईआईडीसी | 0.0025 | हरियाणा राज्य औदयोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड वासीदेह |
| 16 | 15//19/1 min | गैर मुमकिन | एचएसआईआईडीसी | 0.0051 | हरियाणा राज्य औदयोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड वासीदेह |
| 17 | 15//22/1 min | गैर मुमकिन | एचएसआईआईडीसी | 0.0329 | हरियाणा राज्य औदयोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड वासीदेह |
| 18 | 15//24 min | गैर मुमकिन | एचएसआईआईडीसी | 0.0101 | हरियाणा राज्य औदयोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड वासीदेह |
| 19 | 15//25/1 min | गैर मुमकिन | एचएसआईआईडीसी | 0.0051 | हरियाणा राज्य औदयोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड वासीदेह |
| 20 | 16//12 min | डहरी | निजी | 0.0051 | प्रेमराज शर्मा पुत्र श्रीचन्द शर्मा पुत्र रामसिंह वासी इ 2235 पालम वासी विहार गुडगावा |
| 21 | 16//21/1/2 min | गैर मुमकिन | एचएसआईआईडीसी | 0.0025 | हरियाणा राज्य औदयोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड वासीदेह |
| 22 | 17//1 min | नहरी | निजी | 0.1442 | इसलाम, युनूस, युसूफ पुत्रान फजरु पुत्र आजम हर तीन समभाग 1/2 भाग प्रेमराज शर्मा पुत्र श्रीचन्द शर्मा पुत्र पंडित रायसिंह 1/3 भाग वासी इ 2235 पालम विहार वासी गुडगावा श्रीमती आमीनी पत्नी शेर मोहम्मद पुत्र खूबी 1/6 भाग वासीदेह। |
| 23 | 17//2 min | नहरी | निजी | 0.2023 | रफीक, जाकिर पुत्रान खूबी पुत्र आजम हर दो समभाग 1/3 भाग इसलाम, युनूस, युसूफ पुत्रान फजरु पुत्र आजम हर तीन समभाग 1/2 भाग श्रीमती आमीनी पत्नी शेर मोहम्मद पुत्र खूबी 1/6 भाग वासीदेह। |
| 24 | 17//3 min | नहरी | निजी | 0.0152 | हनीफ पुत्र सरूपा 1/7 भाग फजरु पुत्र सरूपा 5/133 भाग लुकमान, शौकीन, रिजवान पुत्रान समशुदीन पुत्र सुभान खा हर तीन समभाग 23/95 भाग इदरीश पुत्र सरूपा 22/101745 भाग |

| | | | | | |
|----|---------------|----------------|------|--------|--|
| | | | | | अब्दुलरहीम पुत्र आस मौ० पुत्र हसमल 7/855 भाग श्रीमती जायदा पत्नी शमसुदीन पुत्र सुभान खा 16/119 भाग हारून पुत्र सरूपा 160/3913 भाग समीना पत्नी अकबर पुत्र सरूपा 57/559 भाग सोहराब पुत्र सरूपा 79/3885 भाग समीना पत्नी अकबर पुत्र सरूपा 68/555 भाग रहीसन पत्नी अहमदखा पुत्र उमर मौ० 4301/221445 भाग सबाना पत्नी हामिद पुत्र रज्जाक 4301/221445 भाग रासिदा पुत्री फैज मौ० 4301/221445 भाग अखलीम पुत्र समशुदीन पुत्र सरूपा हर दो समभाग 1/14 भाग, अखलाक पुत्र समशुदीन 149/7770 भाग वासी देह। |
| 25 | 17//5 min | नहरी | निजी | 0.0835 | फजरु पुत्र सरूपा 25/567 भाग, हनीफ, हारून पुत्रान सरूपा हर दो समभाग 2/7 भाग अब्दुल रहीम पुत्र आस मौ० पुत्र हसमल 1/119 भाग श्रीमती रेशमी पत्नी शेर मोहम्मद पुत्र रसूल खाँ 1/7 भाग श्रीमती जायदा पत्नी शमसुदीन पुत्र सुभान खाँ 16/119 भाग, अखलाक पुत्र समशुदीन पुत्र सरूपा 13/5670 भाग अखलीम पुत्र सरूपा 1/14 भाग, रहसीन पत्नी अहमदखान पुत्र उमर मौ० 223/8505 भाग, सबाना पत्नी हामीद पुत्र रज्जक 223/8505 भाग, राशिदा पुत्री फैज मौ० पुत्र नुर मौ० 223/8505 भाग, लुकमान शौकीन, रिजवान पुत्रान शमसुदीन पुत्र सुभान खा हर तीन समभाग 94/405 भाग वासीदेह। |
| 26 | 17//6/1 min | निरमोट | निजी | 0.0607 | श्रीमती अरसीना पत्नी लुकमान पुत्र शमसुदीन |
| 27 | 17//6/1/2 min | निरमोट | निजी | 0.0304 | सरैफराज, सराफत, सफात, साकिर पुत्रान अकबर पुत्र युसुफ हर पांच समभाग वासीदेह |
| 28 | 17//7/1 min | नहरी | निजी | 0.0657 | जावेद पुत्र समशुदीन पुत्र सुभानखा वासीदेह |
| 29 | 17//7/2 | नहरी | निजी | 0.0911 | हसन पुत्र जुम्मा पुत्र 1/6 भाग प्रेमराज शर्मा पुत्र श्रीचन्द शर्मा पुत्र पंडित रायसिंह 2/3 भाग मोहित मालिक पुत्र नानक मलिक 4/67 भाग श्रीमती रासीदा पुत्री फैज मौ० हाल पत्नी जकरिया पुत्र 19/804 भाग वासी सोहना श्रीमती नजमा पत्नी हाजिम पंत्र अमीन 49/804 भाग श्रीमती फरीदा पत्नी समी खान पुत्र उसमान 3/134 भाग वासीदेह |
| 30 | 17//10 min | नहरी | निजी | 0.0632 | इस्लाम, युनूस पुत्रान फजरु पुत्र आजम हर दो समभाग 1/3 भाग युसुफ पुत्र फजरु पुत्र आजम 1/15 भाग सजंय मक्कड पुत्र रमकिशन मक्कड 1/10 भाग प्रेमराज शर्मा पुत्र श्रीचन्द शर्मा पुत्र पंडित रायसिंह 1/3 भाग वासी ई 2235 पालम विहार वासी गुडगावा श्रीमती आमीनी पत्नी शेर मोहम्मद पुत्र खूबी 1/6 भाग वासीदेह। |
| 31 | 17//14 min | नहरी | निजी | 0.0582 | हसन पुत्र जुम्मा पुत्र 1/6 भाग प्रेमराज शर्मा पुत्र श्रीचन्द शर्मा पुत्र पंडित रायसिंह 2/3 भाग मोहित मालिक पुत्र नानक मलिक 4/67 भाग श्रीमती रासीदा पुत्री फैज मौ० हाल पत्नी जकरिया पुत्र 19/804 भाग वासी सोहना श्रीमती नजमा पत्नी हाजिम पंत्र अमीन 49/804 भाग श्रीमती फरीदा पत्नी समी खान पुत्र उसमान 3/134 भाग वासीदेह |
| 32 | 18//1 min | डहरी | निजी | 0.0734 | फजरु, हनीफ, हारून पुत्रान सरूपा हर तीन समभाग 3/7 भाग अब्दुल रहीम पुत्र आस मौ० पुत्र हसमल 1/7 भाग, सोहराब पुत्र सारूपा 79/3885 भाग, श्रीमती समीना पत्नी अकबर पुत्र सरूपा 86/555 भाग, अखलाक पुत्र समशुदीन पुत्र सरूपा 149/7770 भाग, अखलीम पुत्र समशुदीन पुत्र सरूपा 1/14 भाग, श्रीमति रहीसन पत्नी अहमद खाँ पुत्र उमर खाँ 758/11655 भाग, सबाना पत्नी हामीद पुत्र रज्जक 758/11655 भाग, राशिदा पुत्री फैज मौ० पुत्र नुर मौ० 758/11655 भाग वासीदेह। |
| 33 | 299/1 min | गै० मु० रास्ता | निजी | 0.0126 | पंचायत देह। |
| | | जोड़ | | 1.5579 | |

जिले का नाम :

नूह

तहसील / उप-तहसील / तालुका का नाम :

ईण्डरी

ग्राम का नाम :

खेडी कंकर

| क्रम संख्या | सर्वेत्रण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर. | भूमि की प्रकृति | भूमि की प्रकार | भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टर) | भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नामे |
|-------------|---|--------------------|----------------|----------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 34//16 min | भूड़ | एचएसआईआईडीसी | 0.0025 | हरियाणा राज्य औदयोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड वासीदेह |
| 2 | 34//17/1 min | भूड़ | एचएसआईआईडीसी | 0.0025 | हरियाणा राज्य औदयोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड वासीदेह |
| 3 | 34//24/1/1 min | नहरी | एचएसआईआईडीसी | 0.0051 | हरियाणा राज्य औदयोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड वासीदेह |
| 4 | 34//24/2/1 min | भूड़ | एचएसआईआईडीसी | 0.0051 | हरियाणा राज्य औदयोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड वासीदेह |
| 5 | 34//25/1/1 min | भूड़ | एचएसआईआईडीसी | 0.0076 | हरियाणा राज्य औदयोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड वासीदेह |
| 6 | 39//1 min | भूड़ | एचएसआईआईडीसी | 0.0025 | हरियाणा राज्य औदयोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड वासीदेह |
| 7 | 39//13 min | नहरी | एचएसआईआईडीसी | 0.0051 | हरियाणा राज्य औदयोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड वासीदेह |
| 8 | 39//16/2 min | भूड़ | एचएसआईआईडीसी | 0.0101 | हरियाणा राज्य औदयोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड वासीदेह |
| 9 | 44//12 min | नहरी | एचएसआईआईडीसी | 0.0177 | हरियाणा राज्य औदयोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड वासीदेह |
| 10 | 45//9/2 min | भूड़ | एचएसआईआईडीसी | 0.0051 | हरियाणा राज्य औदयोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड वासीदेह |
| 11 | 45//10/2 min | भूड़ | एचएसआईआईडीसी | 0.3870 | हरियाणा राज्य औदयोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड वासीदेह |
| 12 | 45//14/2/1 | भूड़ | एचएसआईआईडीसी | 0.0025 | हरियाणा राज्य औदयोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड वासीदेह |
| 13 | 45//14/2/2 | भूड़ | एचएसआईआईडीसी | 0.0025 | हरियाणा राज्य औदयोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड वासीदेह |
| 14 | 46//2/1/2 min | निरमोट | एचएसआईआईडीसी | 0.0253 | हरियाणा राज्य औदयोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड वासीदेह |
| 15 | 46//2/2/2 min | मगदा | एचएसआईआईडीसी | 0.0076 | हरियाणा राज्य औदयोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड वासीदेह |
| 16 | 46//3 min | मगदा | एचएसआईआईडीसी | 0.0455 | हरियाणा राज्य औदयोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड वासीदेह |
| 17 | 46//6/1 min | मगदा | एचएसआईआईडीसी | 0.0455 | हरियाणा राज्य औदयोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड वासीदेह |
| 18 | 46//8/1/2 | मगदा | एचएसआईआईडीसी | 0.0177 | हरियाणा राज्य औदयोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड वासीदेह |
| 19 | 73 min | गै० मु० किन नाला | एचएसआईआईडीसी | 0.0025 | हरियाणा राज्य औदयोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड वासीदेह |
| 20 | 83/2 min | गै० मु० किन रास्ता | एचएसआईआईडीसी | 0.0455 | हरियाणा राज्य औदयोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड वासीदेह |
| 21 | 84/2 min | गै० मु० किन रास्ता | एचएसआईआईडीसी | 0.0076 | हरियाणा राज्य औदयोगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड वासीदेह |
| | | जोड़ | | 0.6525 | |

| जिले का नाम : | | | | | नैह |
|--------------------------------|---|-----------------|----------------|------------------------------|--|
| तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : | | | | | तावडू |
| ग्राम का नाम : | | | | | धुलावट |
| क्रम संख्या | सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर. | भूमि की प्रकृति | भूमि की प्रकार | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 6//21 min | चाही | निजी | 0.1090 | अयुयब, फते मौहम्मद, अली मौहम्मद, महबूब पुत्रान ईसब पुत्र महताब हर चार समभाग 4/5 भाग, जमशेद, मुस्तफा पुत्रान इलियास पुत्र ईसब हर दो समभाग 1/5 भाग वासीदेह। |
| 2 | 7//21 min | चाही | निजी | 0.1433 | सुबेदीन ,आजाद हुसैन पुत्रान जफरुदीन पुत्र बगदू हर दो समभाग वासीदेह। |
| 3 | 7//22/1 min | चाही | निजी | 0.0256 | |
| 4 | 7//22/2 min | चाही | निजी | 0.1206 | |
| 5 | 7//23 min | चाही | निजी | 0.0482 | |
| 6 | 7//24 min | चाही | निजी | 0.0584 | |
| 7 | 7//25 min | चाही | निजी | 0.0735 | अयुयब, फते मौहम्मद, अली मौहम्मद, महबूब पुत्रान ईसब पुत्र महताब हर चार समभाग 4/5 भाग, जमशेद, मुस्तफा पुत्रान इलियास पुत्र ईसब हर दो समभाग 1/5 भाग वासीदेह। |
| 8 | 8//17 min | चाही | निजी | 0.0076 | छज्जू लहरु पुत्रान कबीर पुत्र हर दो समभाग वासीदेह हिस्सेदारान |
| 9 | 8//18 min | मगदा | निजी | 0.0025 | अजमत, इसलाम पुत्रान भागमल पुत्र हर दो समभाग 1/2 भाग असरु, जमशेद पुत्रान ईसब पुत्र भागमल हर दो समभाग 1/4 भाग वली मौहम्मद, मुबीन, उन्नस, जब्बार पुत्रान बशीर पुत्र भागमल हर चार समभाग 1/4 भाग वासीदेह |
| 10 | 8//19 min | चाही | निजी | 0.0436 | इदरीश , रहमत ,रजाक पुत्रान नौरंग हर तीन समभाग 1/3 भाग, दाउद ,असगर पुत्रान उजागर पुत्र नूर खां हर दो समभाग 2/9 भाग, उसमान, जान मौहम्मद ,जहीर ,सिराजूद्दीन पुत्रान सुरजन पुत्र नूर खां हर चार समभाग 1/3 भाग, मुस्ताक पुत्र रसीद पुत्र उजागर 1/9 भाग वासीदेह। |
| 11 | 8//20 min | चाही | निजी | 0.0425 | सहाबुदीन पुत्र दीन मौहम्मदद पुत्र राजमल 1/3 भाग, ममन, अंती मौहम्मदद पुत्रान राजमल पुत्र वजीर खां हर दो समभाग 2/3 भाग वासीदेह। |
| 12 | 8//23 min | चाही | निजी | 0.0126 | पंचायत देह |
| 13 | 8//24/1 min | मगदा | निजी | 0.0076 | पंचायत देह |
| 14 | 8//24/2min | चाही | निजी | 0.0229 | पंचायत देह |
| 15 | 8//24/3 min | चाही | निजी | 0.0430 | पंचायत देह |
| 16 | 8//24/4 min | चाही | निजी | 0.0152 | पंचायत देह |
| 17 | 8//24/5 min | चाही | निजी | 0.0202 | पंचायत देह |
| 18 | 8//25/1min | चाही | निजी | 0.0463 | पंचायत देह |
| 19 | 8//25/2min | चाही | निजी | 0.0528 | सुबेदीन ,आजाद हुसैन पुत्रान जफरुदीन पुत्र बगदू हर दो समभाग वासीदेह। |
| 20 | 9//12 min | चाही | निजी | 0.0025 | पंचायत देह |
| 21 | 10//2 min | चाही | निजी | 0.0076 | श्रीमती उषा पल्ली रविन्द्र पुत्र राजेन्द्र वासी दिल्ली |
| 22 | 58 min | गै० मु० नाला | निजी | 0.0101 | पंचायत देह |
| 23 | 479 min | गै० मु० रास्ता | निजी | 0.0126 | मकबूजा शारे आम |
| जोड़ | | | | 0.9282 | |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--------|
| जिले का नाम : | | | | | नैह |
| तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : | | | | | तावडू |
| ग्राम का नाम : | | | | | मेंडला |

| क्रम संख्या | सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर. | भूमि की प्रकृति | भूमि की प्रकार | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम |
|-------------|---|-----------------|----------------|------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 23//22/1 min | चाही | निजी | 0.0505 | इब्राहीम पुत्र रसूला पुत्र रुडा वासीदेह |
| 2 | 23//22/2 min | चाही | निजी | 0.0101 | इब्राहीम पुत्र रसूला पुत्र रुडा वासीदेह |
| 3 | 23//22/3 min | चाही | निजी | 0.1290 | इब्राहीम पुत्र रसूला पुत्र रुडा वासीदेह |
| 4 | 23//23 min | चाही | निजी | 0.1846 | सहाबदीन, नबाबदीन, जेकम पुत्रान कमरु पुत्र खॉ जबरखॉ हर तीन समभाग 1/2 भाग इब्राहीम पुत्र रसूला पुत्र रुडा 1/2 भाग वासीदेह |
| 5 | 23//24 min | चाही | निजी | 0.1568 | |
| जोड़ | | | | 0.5310 | |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|---------|
| जिले का नाम : | | | | | नैह |
| तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : | | | | | तावडू |
| ग्राम का नाम : | | | | | बिधुवास |

| क्रम संख्या | सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर. | भूमि की प्रकृति | भूमि की प्रकार | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम |
|-------------|---|-----------------|----------------|------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 24//11 min | चाही | निजी | 0.0025 | श्रीमति सरोज गुप्ता पल्ली राकेश कुमार गुप्ता पुत्र हरीशंकर गुप्ता 1/5 भाग वासी बी०-४३४ मीरा बाग नई दिल्ली उपेन्द्र सिंह पुत्र विजय तरवा पुत्र परमश्वर 6/25 भाग वासी सेन्ट रत्नीकन कालेज नई दिल्ली संजय जैन पुत्र अमरनाथ जैन 1/25 भाग वासी सिविल लाईन जयपुर राजस्थान श्रीमति अरिता गुप्ता पल्ली रोकेश गुप्ता पुत्र विधासायर गुप्ता राकेश गुप्ता पुत्र विधासायर गुप्ता 3/25 भाग रोकेश गुप्ता पुत्र विधासायर गुप्ता पुत्र प्यारेलाल 3/25 भाग |

| | | | | | |
|----|-------------|--------------------|------|--------|--|
| | | | | | वासीदेह। संजय जैन पुत्र अमरनाथ 7/25 भाग वासी 46बी० केशवपथ सूरजनगर वासी सिविल लाईन जयपुर। |
| 2 | 24//18 min | चाही | निजी | 0.0025 | हरिशंकर पुत्र योगध्यान 1/4 भाग श्रीमती शुद्धा पत्नी व नलिन पुत्र हरिशंकर पुत्र योगध्यान हर दो समभाग 1/2 भाग, श्रीमती गीता पत्नी नलिन पुत्र हरिशंकर 1/4 वासी पृथ्वी रोड नई दिल्ली । |
| 3 | 24//19 min | गैर मु० फार्म हाउस | निजी | 0.0025 | श्रीमती इन्द्राआनंद पत्नी कर्णआनंद 1/2 भाग वासी ई, 282 ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली, श्रीमति उपन्द्रसिंह पत्नी विजयत खां पुत्र प्रमेश्वरनाथ 1/2 भाग वासी नई दिल्ली |
| 4 | 24//20 min | चाही | निजी | 0.0101 | श्रीमति सरोज गुप्ता पत्नी राकेश कुमार गुप्ता पुत्र हरीशंकर गुप्ता 1/5 भाग वासी बी०-434 मीरा बाग नई दिल्ली उपेन्द्र सिंह पुत्र विजय तरवा पुत्र परमश्वर 6/25 भाग वासी सेंट रत्नफन कालेज नई दिल्ली संजय जैन पुत्र अमरनाथ जैन 1/25 भाग वासी सिविल लाईन जयपुर राजस्थान श्रीमति अरिता गुप्ता पत्नी रोकेश गुप्ता पुत्र विधासायर गुप्ता राकेश गुप्ता पुत्र विधासागर गुप्ता 3/25 भाग रोकेश गुप्ता पुत्र विधासागर गुप्ता पुत्र प्यारेलाल 3/25 भाग वासीदेह। संजय जैन पुत्र अमरनाथ 7/25 भाग वासी 46बी० केशवपथ सूरजनगर वासी सिविल लाईन जयपुर। |
| 5 | 25//1 min | चाही | निजी | 0.0051 | चतर सिंह, मनफुल, हरिचन्द्र पुत्रान रामजीवन पुत्र छाजु हर तीन समभाग 3/4 भाग, तेजसिंह पुत्र जगमाल पुत्र रामजीवन 1/4 भाग वासीयान पढ़ैनी |
| 6 | 25//8/2 min | चाही | निजी | 0.0051 | आदित्या आर्य पुत्र वेदज्ञ आर्य 1/2 भाग वासी टी० 23/5 डी०एल०एफ० गुडगावा, श्रीमती रीटा चौधरी पत्नी आदित्या आर्य पुत्र वेदज्ञ आर्य 1/2 भाग वासी गुडगावां टी० 23/5 डी०एल०एफ० गुडगावां। |
| 7 | 25//9/2 min | चाही | निजी | 0.0025 | चतर सिंह, मनफुल, हरिचन्द्र पुत्रान रामजीवन पुत्र छाजु हर तीन समभाग 3/4 भाग, तेजसिंह पुत्र जगमाल पुत्र रामजीवन 1/4 भाग वासीयान पढ़ैनी |
| 8 | 25//10 min | मगदा | निजी | 0.0076 | |
| 9 | 25//13 min | चाही | निजी | 0.0051 | आदित्या आर्य पुत्र वेदज्ञ आर्य 1/2 भाग वासी टी० 23/5 डी०एल०एफ० गुडगावा, श्रीमती रीटा चौधरी पत्नी आदित्या आर्य पुत्र वेदज्ञ आर्य 1/2 भाग वासी गुडगावां टी० 23/5 डी०एल०एफ० गुडगावां। |
| 10 | 26//5/1 min | चाही | निजी | 0.0051 | जलसिंह पुत्र रामजीलाल पुत्र चेतराम 1/3 भाग वासी पढ़ैनी सतबीर पुत्र गणपत पुत्र रामजीलाल 1/15 भाग बुद्धराम, कर्णसिंह पुत्रान श्रीचन्द्र पुत्र रामजीलाल हर दो समभाग 1/3 भाग, राजपाल, रामबीर, ध्यानन्द, सजंय पुत्रान गणपत पुत्र रामजीलाल हर चार समभाग 4/15 भाग वासीयान पढ़ैनी। |
| 11 | 26//6/2 min | मगदा | निजी | 0.0025 | |
| 12 | 34 min | गैर मु० नाला | निजी | 0.0051 | पंचायत देह |
| 13 | 37 min/1 | गैर मु० नाला | निजी | 0.0505 | पंचायत देह |
| | | जोड़ | | 0.1062 | |

जिले का नाम :

नूह

तहसील / उप-तहसील / तालुका का नाम :

तावड़ू

ग्राम का नाम :

पढ़ैनी

| क्रम संख्या | सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर. | भूमि की प्रकृति | भूमि की प्रकार | भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टर) | भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम |
|-------------|---|-----------------|----------------|----------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 24//17/1 | चाही | निजी | 0.0025 | रसूल खां गफुर याकूब पुत्रान नसीब खां पुत्र बद्दा हर तीन समभाग 3/4 भाग जमशेद साहबुदीन दाउद इमरान पुत्रान अययूब पुत्र नसीब खा हर चार समभाग 1/4 भाग वासीदेह |
| 2 | 33//2/1 min | चाही | निजी | 0.1695 | कैलाश, राजकुमार, तेजसिंह पुत्रान व मीनू यादव पुत्री व औमवती विधवा लालसिंह पुत्र गोपीचन्द्र हर पांच समभाग 1/16 भाग, रामनाथ, रणसिंह, रामऔवतार पुत्रान गोपीचन्द्र पुत्र सादीराम हर तीन समभाग 3/16 भाग, मुन्शीराम, विरेन्द्र सिंह पुत्रान रघबीर सिंह पुत्र सादीराम हर दो समभाग 1/6 भाग संदीप यादव पुत्र जगदीश पुत्र रघबीर सिंह 1/12 भाग उत्तम पुत्र रामकुमार मोहर सिंह 1/12 भाग सुनील कुमार, औमबीर यादव पुत्रान ताराचन्द्र पुत्र मोहरसिंह हर दो समभाग 1/12 भाग, प्रदीप यादव, रविन्द्र पुत्रान सतबीर पुत्र मोहरसिंह हर दो समभाग 1/12 भाग निहाल सिंह, महेन्द्र सिंह, रामजस, राजेन्द्र सिंह पुत्रान मीर सिंह पुत्र शादीराम हर चार समभाग 1/5 भाग विक्रम सिंह, नरेश पुत्रान शेरसिंह पुत्र मीरसिंह हर दो समभाग 1/20 भाग वासीदेह। |
| 3 | 33//2/2 min | चाही | निजी | 0.0051 | मुन्शी खां, अब्दुल रज्जाक, तैययब पुत्रान यासीन पुत्र मुनीर खां हर तीन समभाग 1/4 भाग, परमीना विधवा ताहिर पुत्र यासीन 1/12 भाग, इसराईल पुत्र हयात खां पुत्र चन्द्र खां 1/3 भाग, उमर मौहम्मद पुत्र चन्द्र खां, मुनीर खां 1/3 भाग वासीदेह। |
| 4 | 33//3/2 min | चाही | निजी | 0.1240 | |
| 5 | 33//8 min | चाही | निजी | 0.3744 | |
| 6 | 33//9/1 min | चाही | निजी | 0.0556 | कैलाश, राजकुमार, तेजसिंह पुत्रान व मीनू यादव पुत्री व औमवती विधवा लालसिंह पुत्र गोपीचन्द्र हर पांच समभाग 1/16 भाग, रामनाथ, रणसिंह, रामऔवतार पुत्रान गोपीचन्द्र पुत्र सादीराम हर तीन समभाग 3/16 भाग, मुन्शीराम, विरेन्द्र सिंह पुत्रान रघबीर सिंह पुत्र सादीराम हर दो समभाग 1/6 भाग संदीप यादव पुत्र जगदीश पुत्र रघबीर सिंह 1/12 भाग उत्तम पुत्र रामकुमार मोहर सिंह 1/12 भाग सुनील कुमार, औमबीर यादव पुत्रान ताराचन्द्र पुत्र मोहरसिंह हर दो समभाग 1/12 भाग, प्रदीप यादव, रविन्द्र पुत्रान सतबीर पुत्र मोहरसिंह हर दो समभाग 1/12 भाग निहाल सिंह, महेन्द्र सिंह, रामजस, राजेन्द्र सिंह पुत्रान मीर सिंह पुत्र शादीराम हर चार समभाग 1/5 भाग विक्रम सिंह, नरेश पुत्रान शेरसिंह पुत्र मीरसिंह हर दो समभाग 1/20 भाग वासीदेह। |
| 7 | 33//14 min | चाही | निजी | 0.0025 | गजराज, धर्मबीर पुत्रान शिबलाल उर्फ शिल्लू पुत्र उमराव हर दो समभाग 1/2 भाग महाबीर, कर्मबीर, राजबीर पुत्रान इन्द्रराज पुत्र गोरधन हर तीन समभाग 1/2 भाग वासीदेह। |
| 8 | 33//17/2/2 min | चाही | निजी | 0.0051 | गजराज, धर्मबीर पुत्रान शिबलाल उर्फ शिल्लू पुत्र उमराव हर दो समभाग 1/2 भाग महाबीर, कर्मबीर, राजबीर पुत्रान इन्द्रराज पुत्र गोरधन हर तीन समभाग 1/2 भाग वासीदेह। |
| 9 | 33//24/1/2 | चाही | निजी | 0.0228 | मौहम्मद ईदरीश, न्याज मोहम्मद, मकसूद, साहिद पुत्रान सुलेमान पुत्र मामला हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह |
| 10 | 33//24/2/2 | चाही | निजी | 0.0076 | हीरालाल पुत्र लक्ष्मन पुत्र भीवा 1/5 भाग सुल्तान, नन्दराम पुत्रान पूरन पुत्र लक्ष्मन हर दो समभाग 1/5 भाग जीतराम पुत्र श्रीचन्द्र पुत्र लक्ष्मन 1/5 भाग बलराम, परमाल पुत्रान अमरसिंह पुत्र लक्ष्मन हर दो समभाग 6/35 भाग श्रीमती गिन्दोडी विधवा अमर सिंह पुत्र लक्ष्मन 1/35 भाग सतपाल, नरेन्द्र सिंह पुत्रान रतन लाल पुत्र प्रेमचन्द हर दो समभाग 1/5 भाग वासीदेह |
| 11 | 38//5/2 min | चाही | निजी | 0.0025 | ईश्वर सिंह, सुबेसिंह, रामसिंह पुत्रान प्रभूदयाल पुत्र दिलसुख हर तीन समभाग वासीदेह। |
| 12 | 38//6/1/2 min | चाही | निजी | 0.0025 | श्रीमती कमलादेवी पुत्री मंगलराम पुत्र जियाराम वासीदेह। |
| 13 | 39//1 min | चाही | निजी | 0.0051 | ईश्वर सिंह, सुबेसिंह, रामसिंह पुत्रान प्रभूदयाल पुत्र दिलसुख हर तीन समभाग वासीदेह। |

| | | | | | |
|-------------|--------------------|----------------|------|---------------|---|
| 14 | 39//9/2 min | चाही | निजी | 0.0051 | हरिकिशन , रामबिलाश , रामप्रसाद पुत्रान रामचन्द्र पुत्र कन्हैया हर तीन समभाग 1/2 भाग श्रीकृष्ण पुत्र व सुमन पुत्री व श्रीमती विद्या देवी विधवा रामजीवन पुत्र कन्हैया हर तीन समभाग 3/8 भाग श्रीमती चम्पादेवी विधवा व संजय पुत्र व मामता पुत्री रामनिवास पुत्र रामजीवन हर तीन समभाग 1/8 भाग वासीदेह। |
| 15 | 39//10/2/2 min | चाही | निजी | 0.0177 | हरिकिशन , रामबिलाश , रामप्रसाद पुत्रान रामचन्द्र पुत्र कन्हैया हर तीन समभाग 1/2 भाग श्रीकृष्ण पुत्र व सुमन पुत्री व श्रीमती विद्या देवी विधवा रामजीवन पुत्र कन्हैया हर तीन समभाग 3/8 भाग श्रीमती चम्पादेवी विधवा व संजय पुत्र व मामता पुत्री रामनिवास पुत्र रामजीवन हर तीन समभाग 1/8 भाग वासीदेह। |
| 16 | 39//12/1/2 min | चाही | निजी | 0.0304 | सतबीर, लालचन्द, प्रदीप कुमार पुत्रान प्यारेलाल पुत्र रामजीलाल हर तीन समभाग वासीदेह। |
| 17 | 39//12/2/2 min | चाही | निजी | 0.0304 | सत्यनारायण, राजबीर पुत्रान सुल्तान पुत्र कन्हैया हर दो समभाग 1/2 भाग विशम्बर पुत्र कन्हैया पुत्र उदयराम 1/2 भाग वासी देह। |
| 18 | 39//13 min | चाही | निजी | 0.0076 | जीतराम पुत्र फकीरा वासी मकानं नं० 206 मंगलापुरी मेहरौली नई दिल्ली । |
| 19 | 39//14/1 min | चाही | निजी | 0.0025 | सत्यनारायण, राजबीर पुत्रान सुल्तान पुत्र कन्हैया हर दो समभाग 1/2 भाग विशम्बर पुत्र कन्हैया पुत्र उदयराम 1/2 भाग वासी देह। |
| 20 | 39//16/1/2/2/2 min | चाही | निजी | 0.0025 | जीतराम पुत्र फकीरा वासी मकानं नं० 206 मंगलापुरी मेहरौली नई दिल्ली । |
| 21 | 39//25/2 min | चाही | निजी | 0.0152 | सत्यनारायण, राजबीर पुत्रान सुल्तान पुत्र कन्हैया हर दो समभाग 1/2 भाग विशम्बर पुत्र कन्हैया पुत्र उदयराम 1/2 भाग वासी देह। |
| 22 | 39//27 min | गैर मु० आवास | निजी | 0.0025 | ताराचन्द पुत्र मोहरसिंह पुत्र शादीराम 1/2 भाग गजराज धरमवीर पुत्रान शिवलाल उर्फ शिष्ठु पुत्र उमराव हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह |
| 23 | 40//20/2/1 min | चाही | निजी | 0.0025 | औमप्रकाश , राजेन्द्र पुत्रान रामफल पुत्र उदमीराम हर दो समभाग वासीदेह। |
| 24 | 40//22 min | चाही | निजी | 0.0051 | श्रीमती फूला देवी विधवा सतबीर पुत्र श्रीचन्द 1/14 भाग औमप्रकाश, राममेहर, रोहताश पुत्र श्रीचन्द पुत्र छोटा हर तीन समभाग 3/5 भाग, मोहति पुत्र सतबीर पुत्र श्रीचन्द 9/70 भाग वासीदेह राजपाल , हरिसिंह सुनील पुत्रान व किस्तरौ विधवा निरंजन पुत्र श्रीचन्द हर चार समभाग 1/5 भाग। |
| 25 | 42//2 min | चाही | निजी | 0.0025 | कमरुदीन पुत्र मेव खां , रायमल 1/4 भाग नसरुदीन , अख्तर हुसैन , सहाबूदीन ,मौहम्मद युनुस ,मौहम्मद युसुफ पुत्रान सुलेमान पुत्र रायमल हर पांच समभाग 1/4 भाग हनीफ मौहम्मद , नूर मौहम्मद पुत्रान समन्ध खां पुत्र रहीम खां हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह । |
| 26 | 42//3 min | चाही | निजी | 0.0051 | जीतराम पुत्र फकीरा वासी मकानं नं० 206 मंगलापुरी मेहरौली नई दिल्ली । |
| 27 | 42//4 min | चाही | निजी | 0.0025 | ताराचन्द पुत्र मोहरसिंह पुत्र शादीराम 1/2 भाग गजराज धरमवीर पुत्रान शिवलाल उर्फ शिष्ठु पुत्र उमराव हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह |
| 28 | 53/2 min | गैर मुमकिन | निजी | 0.0101 | पंचायत देह |
| 29 | 60/2 min | गैर मु० रास्ता | निजी | 0.0051 | राज्य ओद्योगिक संरचना विकास निगम लिमिटेड पंचकुला पुत्र वासीदेह |
| 30 | 325/2 min | गैर मु० रास्ता | निजी | 0.0025 | पंचायत देह |
| जोड़ | | | | 0.9285 | |

जिले का नाम :

नूह

तहसील / उप-तहसील / तालुका का नाम :

तावड़ू

ग्राम का नाम :

गोगजाका

| क्रम संख्या | सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर. | भूमि की प्रकृति | भूमि की प्रकार | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर) | भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 3//8/1 | चाही | निजी | 0.0961 | सज्जन सिंह, धर्मसिंह पुत्रान रामरिछपाल पुत्र तेजभान हर दो समभाग वासी काटरपुरी |
| 2 | 3//9/1 | चाही | निजी | 0.0126 | |
| 3 | 3//13/1/2 | चाही | निजी | 0.0051 | हरियाणा राज्य औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड वासीदेह |
| 4 | 3//17/1 | चाही | निजी | 0.0025 | सुखवीर सिंह पुत्र शेरसिंह पुत्र रामजीलाल 1/4 भाग, महेन्द्र,सुमेन्द्र, जयकिशन पुत्रान मीरसिंह पुत्र नथू हर तीन समभाग 1/4 भाग, रामकुमार, कमल, हरीसिंह पुत्रान प्रकाश पुत्र मीरसिंह हर तीन समभाग 1/12 भाग, श्रीमती राजबाला विधवा हंसराज पुत्र मीरसिंह 1/12 भाग, रोहित पवार पुत्र बलजीत पवार 1/8 भाग, ऋषि पवार पुत्र अजीत सिंह 1/8 भाग नरेन्द्र, पुनीत व श्रीमति बिमला विधवा अतर सिंह पुत्र मीरसिंह हर तीन समभाग 1/12 भाग। |
| 5 | 4//20/1 min | चाही | निजी | 0.0051 | चतर सिंह, अतर सिंह, प्रतिक उर्फ धर्मेन्द्र पुत्रान भगवान सिंह पुत्र छाजूराम हर तीन समभाग वासीदेह। |
| 6 | 5//8/1 min | चाही | निजी | 0.0025 | प्रेम प्रकाश पुत्र शिवदयाल पुत्र भावानी दास 1/6 भाग सुरेन्द्र कुमार पुत्र औमप्रकाश पुत्र शिवदयाल 1/2 भाग गौरव बजाज पुत्र प्रेम प्रकाश पुत्र शिवदयाल 1/6 भाग, श्रीमती सुकन्तलारानी पत्नी प्रेमप्रकाश पुत्र शिवदयाल 1/6 भाग वासीदेह। |
| 7 | 5//9/1 min | चाही | निजी | 0.0051 | हरियाणा सरकार। |
| 8 | 5//16 | चाही | निजी | 0.0025 | प्रेम प्रकाश पुत्र शिवदयाल पुत्र भावानी दास 1/6 भाग सुरेन्द्र कुमार पुत्र औमप्रकाश पुत्र शिवदयाल 1/2 भाग गौरव बजाज पुत्र प्रेम प्रकाश पुत्र शिवदयाल 1/6 भाग, श्रीमती सुकन्तलारानी पत्नी प्रेमप्रकाश पुत्र शिवदयाल 1/6 भाग वासीदेह। |
| 9 | 60 min | गैर मुमकिन रास्ता | निजी | 0.0076 | पंचायत देह |
| जोड़ | | | | 0.1391 | |

जिले का नाम :

नूह

तहसील / उप-तहसील / तालुका का नाम :

तावड़ू

ग्राम का नाम :

कलियाका

| क्रम संख्या | सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर. | भूमि की प्रकृति | भूमि की प्रकार | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर) | भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम |
|-------------|---|-----------------|----------------|----------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 26//3 min | चाही | निजी | 0.0632 | रामकिशन ,हरीचन्द , करतारा पुत्रान श्रीराम पुत्र नथू हर तीन समभाग 41/252 भाग, चिरञ्जी, पवन, महेश पुत्रान व सीमा,कुन्ती,सपना,चिंकी पुत्रीयांन व श्रीमती लखमिरी विधवा प्रेमचन्द पुत्र नथू हर आठ समभाग 41/252 भाग, छाजूराम, सुभाषचन्द पुत्रान रामजीलाल पुत्र नथू 1/63 भाग, भरत सिंह पुत्र मांगराम पुत्र राजीलाल 1/126 भाग शामलाल ,रूपचन्द ,दीपचन्द पुत्रान नथू पुत्र बुद्धा हर तीन समभाग 123/252 भाग, हीरालाल ,पन्नेलाल, रणजीत, विजय पुत्रान कासीराम पुत्र नथू हर चार समभाग 41/252 भाग, वासीदेह। |
| 2 | 26//6 min | चाही | निजी | 0.0708 | सलमूद्दीन ,सहाबूद्दीन ,रसीद पुत्रान सदरा पुत्र अलीबक्श हर तीन समभाग 3/4 भाग, रजाक मौहम्मद,ईरफान खां,सकील खां,ईसमाईल ,इसलाउद्दीन ,मौहम्मद ईलयास पुत्रान शरीफ पुत्र सदरा हर पांच समभाग 1/4 भाग, वासीदेह। |
| जोड़ | | | | 0.1340 | |

| जिले का नाम : | | | | | नूह |
|------------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------------------|---|
| तहसील / उप-तहसील / तालुका का नाम : | | | | | तावदू |
| ग्राम का नाम : | | | | | गोयला |
| क्रम संख्या | सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर / किला नम्बर. | भूमि की प्रकृति | भूमि की प्रकार | भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टर) | भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 8//16/1 min | चाही | निजी | 0.0076 | रामसिंह पुत्र सादीराम 2/23 भाग, आशोक कुमार छंगामल पुत्र कन्हैया 21/23 भाग वासीदेह। |
| 2 | 9//12/1 min | चाही | निजी | 0.0051 | अशोक कुमार पुत्र छंगामल पुत्र कन्हैया वासी नई दिल्ली। |
| 3 | 9//19/1 min | चाही | निजी | 0.0025 | आदित्या गोयल पुत्र रमेश गोयल वासी दिल्ली ग्रेटर कैलाश। |
| 4 | 9//23/1 min | चाही | निजी | 0.0025 | राजपाल, विनयपाल, जयपाल, मोहरपाल पुत्रान रामजीलाल पुत्र भगवानसिंह हर चार समभाग वासी नन्दूकी। |
| 5 | 17//12 min | चाही | निजी | 0.0025 | हाकम, हाजर खाँ, जैकम पुत्रान रोजदार पुत्र होशयार हर तीन समभाग 3/8 भाग, श्रीमति औमबती पत्नी व अनिकेत पुत्र जीतराम पुत्र फकीरा हर दो समभाग 1/2 भाग, खुर्शीद, सफी, इकबाल, सरफुदीन, इमरान, अजरुदीन, इकरामुदीन पुत्रान कासम पुत्र रोजदार हर सात समभाग 1/8 भाग वासीदेह। |
| 6 | 17//19/2 min | चाही | निजी | 0.0556 | |
| 7 | 17//22/2/2 min | चाही | निजी | 0.0202 | रमजान पुत्र समपत पुत्र मामला 1/2 भाग, असरुदीन, उसमान, बशरुदीन, साहून पुत्रान अली मौहम्मद हर चार समभाग 1/2 भाग वासीदेह। |
| 8 | 17//24/1 min | चाही | निजी | 0.0025 | |
| 9 | 18//4/1 min | चाही | निजी | 0.0025 | शामलात देह राहिन अलाउदीन पुत्र नबाब पुत्र बुधसिंह 1/6 भाग, सरदार, जानमौहम्मद, नसरुदीन, समशूदीन पुत्रान बुधसिंह हर चार समभाग 2/3 भाग, आलम, इरफान, जमसेद पुत्रान मिजू पुत्र बुध सिंह हर तीन समभाग 1/6 भाग वासीदेह मुरतहनान |
| 10 | 18//15/2 min | चाही | निजी | 0.0051 | अजय कुमार पुत्र धर्मबीर पुत्र चन्द्रमल वासी शिकोहपुर मानेसर। |
| 11 | 23//4 min | चाही | निजी | 0.0025 | रमजान पुत्र समपत पुत्र मामला 1/2 भाग, असरुदीन, उसमान, बशरुदीन, साहून पुत्रान अली मौहम्मद हर चार समभाग 1/2 भाग वासीदेह। |
| 12 | 23//7/2 min | चाही | निजी | 0.0152 | |
| 13 | 24//10/2 min | चाही | निजी | 0.0025 | श्रीमति कविता पत्नी महेश पुत्र मवासीराम वासी धुनेला तह सोहना |
| 14 | 24//19 min | चाही | निजी | 0.0101 | वीना पुत्री करतार सिंह 1/6 भाग, जोगिन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह पुत्रान करतार सिंह पुत्र हरबक्ष हर दो समभाग 5/6 भाग वासीदेह। |
| 15 | 24//22/2 min | चाही | निजी | 0.0025 | |
| 16 | 24//23 min | चाही | निजी | 0.0076 | |
| 17 | 28//4/1 min | चाही | निजी | 0.0025 | अशोक कुमार पुत्र करतार सिंह पुत्र शीशपाल वासीदेह |
| 18 | 28//3/2/2 min | चाही | निजी | 0.0051 | जगमाल सिंह, महेन्द्रसिंह, ताराचन्द पुत्रान दुलीचन्द पुत्र खुबीराम हर तीन समभाग 3/4 भाग, अजय, सचिन पुत्रान व राजरानी विधवा हुकम सिंह पुत्र दुलीचन्द हर तीन समभाग 1/4 भाग वासीदेह। |
| 19 | 28//4/2/2 min | चाही | निजी | 0.0585 | आसू रती खाँ पुत्रान करीम खाँ पुत्र कडे खाँ हर दो समभाग वासीदेह। |
| 20 | 28//7/1/1/2 min | चाही | निजी | 0.0505 | जगमाल सिंह, महेन्द्रसिंह, ताराचन्द पुत्रान दुलीचन्द पुत्र खुबीराम हर तीन समभाग 3/4 भाग, अजय, सचिन पुत्रान व राजरानी विधवा हुकम सिंह पुत्र दुलीचन्द हर तीन समभाग 1/4 भाग वासीदेह। |
| 21 | 28//7/2/2 min | चाही | निजी | 0.0025 | आसू रती खाँ पुत्रान करीमबक्ष पुत्र कुडे खाँ हर दो समभाग वासीदेह। |
| 22 | 28//14/2/2/2 min | चाही | निजी | 0.0556 | आसू रती खाँ पुत्रान करीमबक्ष पुत्र कुडे खाँ हर दो समभाग वासीदेह। |
| 23 | 28//16/2/2 min | गै० मु० | निजी | 0.0430 | महेन्द्र सिंह, ताराचन्द, जगमाल पुत्रान दुलीचन्द पुत्र खुबीराम हर तीन समभाग 3/4 भाग, अजय, सचिन पुत्रान व राजरानी विधवा हुकमसिंह पुत्र दुलीचन्द हर तीन समभाग 1/4 भाग वासीदेह। |
| 24 | 38//1/2 min | चाही | निजी | 0.0025 | अमित, प्रशांत पुत्रान सतपाल पुत्र टेकचन्द हर दो समभाग वासी राजोकरी नई दिल्ली। |
| 25 | 38//2/1 min | चाही | निजी | 0.0101 | |
| 26 | 63 min | गै० मु० नाला | निजी | 0.0809 | ग्राम पंचायत |
| 27 | 64/2 min | गै० मु० नाला | निजी | 0.0076 | ग्राम पंचायत/हरियाणा सरकार |
| 28 | 69 min | गै० मु० रास्ता | निजी | 0.0025 | ग्राम पंचायत |
| 29 | 226 min | गै० मु० रास्ता | निजी | 0.0126 | ग्राम पंचायत |
| 30 | 233 min | गै० मु० रास्ता | निजी | 0.0177 | ग्राम पंचायत |
| जोड़ | | | | 0.4981 | |

| जिले का नाम : | | | | | नूह |
|------------------------------------|--|-----------------|----------------|----------------------------|---|
| तहसील / उप-तहसील / तालुका का नाम : | | | | | तावदू |
| ग्राम का नाम : | | | | | डींगरहेड़ी |
| क्रम संख्या | सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर / किला नम्बर. | भूमि की प्रकृति | भूमि की प्रकार | भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टर) | भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 15//18/1 | चाही | निजी | 0.0051 | हरीसिंह, सतपाल पुत्रान प्रताप सिंह पुत्र नोन्दा हर दो समभाग 2/5 भाग, व श्रीमती मिथलेश पत्नी विरेन्द्र सिंह पुत्र प्रताप सिंह 1/5 भाग, प्रवीन मलिक, रोहित पुत्रान व श्रीमती सोनम पुत्री व श्रीमती उपरादेवी विधवा ब्रह्मप्रकाश हर चार समभाग 1/5 भाग, राहुल मलिक, आवेश मलिक पुत्रान व श्रीमती उर्मिला विधवा महेन्द्र सिंह मलिक पुत्र प्रताप सिंह हर तीन समभाग 1/5 भाग वासीदेह। |
| 2 | 16//4/1/2 min | चाही | निजी | 0.0025 | सुशील कुमार ईश्वरसिंह पुत्रान मेहरचन्द पुत्र शयोचन्द हर दो समभाग वासीदेह |
| 3 | 16//6/1/2 | चाही | निजी | 0.0025 | लक्ष्मन सिंह, कृष्ण कुमार, प्रेमसिंह पुत्रान रामोतार उर्फ लिल्या पुत्र मामचन्द हर तीन समभाग वासीदेह। |

| 4 | 16/6/2/2 | चाही | निजी | 0.0556 | चेतराम, दुलीचन्द उर्फ हुकमचन्द, महेन्द्र, त्रिलोकचन्द पुत्रान मोतीराम पुत्र मंगलराम हर चार समभाग 4 / 5 भाग अंकित गौर पुत्र चन्द्रप्रकाश मोतीराम 1 / 5 भाग वासीदेह |
|--------------------------------|---|-----------------|----------------|----------------------------|--|
| 5 | 23/14/1 min | चाही | निजी | 0.0025 | रबिन्द्र कुमार पुत्र पहलाद सिंह पुत्र छाजूराम 1 / 2 भाग, वासी रामपुरा गुडगांव, नवीन प्रकाश, प्रवीन प्रकाश पुत्रान जनकराज पुत्र पहलसिंह हर दो समभाग 1 / 2 भाग वासीदेह। |
| जोड़ | | | | 0.0682 | |
| जिले का नाम : | | | | | नूह |
| तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : | | | | | तावड़ |
| ग्राम का नाम : | | | | | सबरस |
| क्रम संख्या | सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर. | भूमि की प्रकृति | भूमि की प्रकार | भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टर) | भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 9//21/2 min | चाही | निजी | 0.0025 | राजबीर सिंह पुत्र नफे सिंह पुत्र रामनाथ 1 / 3 भाग, वासीदेह, जगबीर सिंह, अमित शहरावत पुत्रान राजबीर सिंह पुत्र नफे सिंह हर दो समभाग 2 / 3 भाग, वसन्त कुज नई दिल्ली। |
| 2 | 10//9/1 min | चाही | निजी | 0.0025 | धर्मेन्द्र, प्रदीप पुत्रान राजसिंह पुत्र सहदेव हर दो समभाग 1 / 3 भाग, राजेन्द्र सिंह, सुभाषचन्द्र पुत्र महाबीर पुत्र रामसिंह हर दो समभाग 1 / 3 भाग, महेन्द्र, सुरेन्द्र, नरेन्द्र पुत्रान रणधीर सिंह पुत्र रामसिंह हर तीन समभाग 1 / 3 भाग, वासीदेह। |
| 3 | 10//12/1 min | चाही | निजी | 0.0051 | महेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह पुत्रान रघबीर सिंह पुत्र रामसिंह हर तीन समभाग 1 / 2 भाग वासीदेह सुभाषचन्द्र, राजेन्द्र पुत्रान महाबीर सिंह पुत्र रामसिंह हर दो समभाग 1 / 2 भाग वासी कलवाडी |
| 4 | 10//13/1/1 min | आबी | निजी | 0.1568 | धर्मेन्द्र, प्रदीप पुत्रान राजसिंह पुत्र सहदेव हर दो समभाग 1 / 3 भाग, राजेन्द्र सिंह, सुभाष पुत्रान महाबीर पुत्र रामसिंह हर दो समभाग 1 / 3 भाग महेन्द्र, सुरेन्द्र, नरेन्द्र कुमार पुत्रान रणधीर सिंह पुत्र रामसिंह हर तीन समभाग 1 / 3 भाग, वासीदेह। |
| 5 | 10//16 min | आबी | निजी | 0.0025 | मनोहर पुत्र गिरधारी पुत्र काशीराम वासी साठराना गुरुग्राम। |
| 6 | 10//25/2/1 min | आबी | निजी | 0.0025 | मनोहर पुत्र गिरधारी पुत्र काशीराम 1 / 2 भाग, सुलेखा पुत्र माले खां पुत्र फूल खां 1 / 4 भाग, आमीन, तैयएयब, इब्राहिम पुत्रान जुहरु पुत्र मालेखां हर तीन समभाग 1 / 4 भाग, वासीदेह। |
| 7 | 13//5/2 min | चाही | निजी | 0.0025 | हरीश, सुरेन्द्र पुत्रान व संजय सुमन पुत्रीयां व श्रीमती कृष्णा देवी विधवा भीमसिंह पुत्र भगवाना हर पांच समभाग वासीदेह। |
| 8 | 14//2/1/1 min | चाही | निजी | 0.0025 | देवीदयाल पुत्र व श्रीमती सुमित्रा, सरला, शारदा, सरोज पुत्रीयां व श्रीमती इन्द्रवती विधवा खजान सिंह पुत्र भगवाना हर छ: समभाग वासीदेह। |
| 9 | 14//14/2/1 min | चाही | निजी | 0.0025 | श्रीमती सविता पत्नी कर्मवीर पुत्र बदलूराम 1 / 2 भाग वासी रजकोरी दिल्ली कमल, कार्तिक, राहुल पुत्रान व श्रीमती अल्का पुत्री व सविता विधवा कर्मवीर पुत्र बदलू हर पांच समभाग 1 / 2 भाग वासीदेह |
| 10 | 14//14/3 min | चाही | निजी | 0.0076 | बलवान, प्रताप सिंह पुत्रान रतीराम पुत्र मुखराम हर दो समभाग 1 / 2 भाग, वेदप्रकाश, सतीश कुमार, प्रवीन कुमार पुत्रान कृष्ण कुमार पुत्र शिवदान सिंह हर तीन समभाग 1 / 4 भाग, वासी हसनपुर तावड़, धर्मेन्द्र, रविन्द्र कुमार, दीपक पुत्रान मांगेराम पुत्र बनवारीलाल हर तीन समभाग 1 / 4 भाग, वासीदेह। |
| 11 | 14//16/1 min | चाही | निजी | 0.0025 | |
| 12 | 15//20 min | चाही | निजी | 0.0025 | काले खां पुत्र मामला पुत्र रसूल खां वासीदेह। |
| 13 | 15//22 min | चाही | निजी | 0.0025 | जितेन्द्र, दिवांशु पुत्रान प्रतापचन्द्र पुत्र भोलाराम हर दो समभाग 1 / 2 भाग, वासी 448 शक्ति नगर गुडगांव तरुणशेठी पुत्र राज कुमार शेठी पुत्र भोलाराम 1 / 4 भाग, वासी 30 / 8 मॉडल टॉउन गुडगांव, साहिल शेठी पुत्र सतीस पुत्र भोलाराम 1 / 4 भाग, वासीदेह। |
| 14 | 21//22/1/1 min | चाही | निजी | 0.1568 | श्रीमती रामरती विधवा रामदास पुत्र नाहर सिंह 32 / 125 भाग मुकेश पुत्र महेन्द्र सिंह पुत्र रामकंवार 31 / 125 भाग राजेन्द्र कुमार पुत्र रामकंवार पुत्र कवर सिंह 37 / 125 भाग भगत सिंह पुत्र रामदास पुत्र नाहर सिंह 19 / 125 भाग श्रीमती रोशनी विधवा महेन्द्र सिंह पुत्र रामकंवार 6 / 125 भाग वासीदेह |
| 15 | 21//23/1/1 min | चाही | निजी | 0.0025 | |
| 16 | 21//23/2 min | चाही | निजी | 0.0126 | लालचन्द, नन्दलाल पुत्रान चन्द्रभान पुत्र लेखूराम हर दो समभाग वासीदेह। |
| 17 | 21//24 min | चाही | निजी | 0.0025 | श्रीमती मधुमिया पत्नी विमल कुमार पुत्र चिरान्जीलाल 1 / 2 भाग, श्रीमती पल्लवी मिश्रा पत्नी नरेन्द्र मिश्रा पुत्र विमल कुमार 1 / 2 भाग, वासीदेह। |
| 18 | 22//3/2 min | चाही | निजी | 0.0051 | धर्मेन्द्र, प्रदीप पुत्रान राजसिंह पुत्र सहदेव हर दो समभाग 1 / 3 भाग, राजेन्द्र सिंह, सुभाषचन्द्र पुत्र महाबीर पुत्र रामसिंह हर दो समभाग 1 / 3 भाग, महेन्द्र, सुरेन्द्र, नरेन्द्र पुत्रान रणधीर सिंह पुत्र रामसिंह हर तीन समभाग 1 / 3 भाग, वासीदेह। |
| 19 | 22//3/3 min | चाही | निजी | 0.0025 | आस मौहम्मद पुत्र छीतर पुत्र मंगली वासीदेह। |
| 20 | 22//7 min | चाही | निजी | 0.0025 | धर्मेन्द्र, प्रदीप पुत्रान राजसिंह पुत्र सहदेव हर दो समभाग 1 / 3 भाग, राजेन्द्र सिंह, सुभाषचन्द्र पुत्र महाबीर पुत्र रामसिंह हर दो समभाग 1 / 3 भाग, महेन्द्र, सुरेन्द्र, नरेन्द्र पुत्रान रणधीर सिंह पुत्र रामसिंह हर तीन समभाग 1 / 3 भाग, वासीदेह। |
| 21 | 22//15/2 min | चाही | निजी | 0.0051 | हसन मौहम्मद पुत्र कलवा 6 / 419 भाग, रमजान पुत्र दाउद 1 / 838 भाग, रस्तम पुत्र जोधाराम 2 / 419 भाग, रामकिशन पुत्र दलपत 1 / 838 भाग, सुर्जन, होशियार सिंह पुत्रान मिरचू हर दो समभाग 4 / 1257 भाग, श्रीमती रिसालो विधवा व औमवती भरपाई, बाला, कृष्ण, सुनीता, लक्ष्मी पुत्रीयां व औमप्रकाश, राजपाल पुत्रान प्यारेलाल पुत्र रामनारायण हर नौ समभाग 6 / 419 भाग, फजरु पुत्र चन्द्र 10 / 419 भाग, ईसाक पुत्र कलवा 3 / 838 भाग, नारायण पुत्र कोकाराम 1 / 838 भाग, सेवाराम पुत्र कोकाराम 1 / 838 भाग, अमरु, मतरु पुत्रान चन्द्र हर दो समभाग 1 / 838 भाग, सफेद खां पुत्र निवाज खां 1 / 838 भाग, मिडू, युसुफ पुत्रान कमलू हर दो समभाग 6 / 419 भाग, महेन्द्र, सुरेन्द्र पुत्रान रणधीर पुत्र रामसिंह हर दो समभाग 88 / 419 भाग, नारायण सिंह पुत्र रिछाल पुत्र रामराज 36 / 419 भाग, पंचायत देह 10 / 419 भाग, राजकीय प्राथिमिक पाठ्याला 23 / 419 भाग, मजीद पुत्र नवला 7 / 419 भाग, धर्मेन्द्र, प्रदीप पुत्रान राजसिंह पुत्र सहदेव हर दो समभाग 88 / 419 भाग, जगदीशलाल, कुन्दनलाल पुत्रान कर्मचन्द पुत्र लेखूराम हर दो समभाग 5 / 838 भाग, धनीराम, टेकचन्द, कृष्णलाल, सुभाषचन्द्र, हरिशचन्द्र पुत्रान व श्रीमती गणेशलता, कौशल्या पुत्रीयां व श्रीमती नन्दीबाई विधवा कोकाराम पुत्र लेखूराम हर आठ समभाग 11 / 419 भाग, श्रीमती देवीकीबाई विधवा व भागरानी, विनोद कुमार, कैलाश, शकुन्तला, रजनीकुमारी, ललीता पुत्रीयां व महाबीर लाल, इन्द्रजीत पुत्रान रामलाल पुत्र चन्द्रभान हर नौ समभाग 3 / 838 भाग, श्रीमती कोकाबाई, सुमित्रादेवी, पुष्पादेवी पुत्रीयां व हरभगवान, प्रेमसागर, मनोहर लाल, कुलदीप कुमार पुत्रान तालाराम पुत्र लेखूराम हर सात समभाग 8 / 419 भाग, राजेश पुत्र व रजनी, सविता, नीतू पुत्रीयां व श्रीमती सुखदेइ विधवा रामकिशन पुत्र अमर सिंह हर पांच समभाग 3 / 838 भाग, पुष्पकर पुत्र व श्रीमती शीला देवी |
| 22 | 22//17/1 | चाही | निजी | 0.0025 | |

| | | | | | |
|------|----------------|------------------|------|---------------|--|
| | | | | | पुत्री मीरा बाई पुत्री चन्द्रभान हर दो समभाग 4/1257 भाग, सरोज विधवा व टोनी पुत्र व पूजा पुत्री व नूनित पुत्र बीराबाई पुत्री चन्द्रभान हर चार समभाग 2/1257 भाग, दीपक कुमार, पवन कुमार, योगेश कुमार पुत्रान व श्रीमती नीतू पुत्री जसोदाबाई पुत्री चन्द्रभान हर चार समभाग 3/838 भाग, दर्शन कुमार, औमप्रकाश पुत्रान व श्रीमती भगवानी, लक्ष्मीदेवी, सुनिता देवी पुत्रीयां तोताबाई पुत्री चन्द्रभान हर पांच समभाग 3/838 भाग, धर्मपाल, चन्द्रपाल पुत्रान व श्रीमती विमला, प्रकाशी पुत्रीयां प्यारेलाल पुत्री बिहारी हर चार समभाग 2/419 भाग, हरदयाल, बसंत पुत्रान बिहारीराम हर दो समभाग 4/419 भाग, श्रीराम पुत्र रामनारायण 1/419 भाग, श्रीमती ईश्वरी देवी विधवा कर्मचन्द्र पुत्र लेखराम 5/838 भाग, सुमेर सिंह पुत्र व श्रीमती सकुन्तला, सरस्वाती पुत्रीयां भरत हर तीन समभाग 3/3352 भाग, सोनू पुत्र भतेरी 1/3352 भाग, लालचन्द, नन्दलाल पुत्रान चन्द्रभान हर दो समभाग 5/838 भाग, श्रीपाल पुत्र शोमनारायण पुत्र मिरचू 1/3352 भाग, विकाश पुत्र सतपाल पुत्र श्योनारायण 1/3352 भाग, अभिषेक पुत्र सुखबीर पुत्र श्योनारायण 1/3352 भाग, पंकज पुत्र अमरजीत पुत्र श्योनारायण 1/3352 भाग, सुभाष, राजेन्द्र पुत्रान महाबीर हर दो समभाग 88/419 भाग, श्रीमती रोशनी विधवा व हंशराज पुत्र व अनिता, सुनिया, रितीका, कवीता पुत्रीयां महाबीर पुत्र चुन्नीलाल हर छ: समभाग 1/6704 भाग, मोहित पुत्र सुनील पुत्र महाबीर 1/40224 भाग, श्रीमती सुरजो माता महाबीर पुत्र चुन्नीलाल 3/13408 भाग, श्रीमती कमला, रोशनी, रिसालो पुत्रीयां व शमशेर, सतीश, कृष्ण पुत्रान चुन्नीलाल पुत्र मिरचया हर छ: समभाग 1/838 भाग वासीदेह। |
| 23 | 25//4/3 min | चाही | निजी | 0.0025 | बशीर, अययुब, महबूब पुत्रान कमलू पुत्र दाउद हर तीन समभाग 3/4 भाग, मौहम्मद अजीज, रहीश अहमद पुत्रान फतेह मौहम्मद पुत्र कमलू हर दो समभाग 1/4 भाग वासीदेह। |
| 24 | 25//4/2 min | चाही | निजी | 0.0404 | प्रताप सिंह पुत्र छतर सिंह पुत्र खजान सिंह वासी झाडसा गुडगावां। |
| 25 | 25//6/1/1 min | चाही | निजी | 0.0025 | बशीर, अययुब, महबूब पुत्रान कमलू पुत्र दाउद हर तीन समभाग 3/4 भाग, मौहम्मद अजीज, रहीश अहमद पुत्रान फतेह मौहम्मद पुत्र कमलू हर दो समभाग 1/4 भाग वासीदेह। |
| 26 | 25//6/2/1 min | चाही | निजी | 0.0152 | |
| 27 | 26//9/1 min | चाही | निजी | 0.0025 | आस मौहम्मद पुत्र मौहम्मद खां पुत्र जागीरा 1/3 भाग, सराजूदीन, युसूफ खांन, ईसलाम, ईसराईल पुत्रान होशयार खां पुत्र फुसा हर चार समभाग 8/15 भाग, शाहरुख खान, शोयब मलिक पुत्रान मौहम्मद ईलयास पुत्र होशयार खां हर दो समभाग 2/15 भाग वासीदेह। |
| 28 | 26//9/2 min | चाही | निजी | 0.0025 | जयभगवान पुत्र प्रताप सिंह पुत्र चतर सिंह वासी झाडसा गुडगावा। |
| 29 | 26//11/1 min | चाही | निजी | 0.0076 | जगदीश लाल, कुन्दनलाल पुत्रान कर्मचन्द्र पुत्र लेखराम हर दो समभाग वासीदेह। |
| 30 | 26//12/1 min | चाही | निजी | 0.0051 | फजरू, अली मौहम्मद पुत्रान समेला पुत्र दाउद हर दो समभाग 2/3 भाग, बुद्ध पुत्र दाउद 1/3 भाग वासीदेह। |
| 31 | 26//13 min | चाही | निजी | 0.0177 | |
| 32 | 26//14 min | चाही | निजी | 0.0025 | रुकमुद्दीन, हाकमद्दीन, जाकिर हुसैन पुत्रान हसन मौहम्मद पुत्र महमूद हर तीन समभाग 3/8 भाग, मुज्जफर अली, मुस्ताक, ईरफान, आसिफ पुत्रान आमीन पुत्र हसन मौहम्मद हर चार समभाग 1/8 भाग, सराजूद्दीन, युसूफ खांन, ईसलाम, ईसराईल पुत्रान होशयार खां पुत्र फुसा हर चार समभाग 1/5 भाग, शाहरुख खान, शोयब मलिक पुत्रान मौहम्मद ईलयास पुत्र होशयार खां हर दो समभाग 1/20 भाग, वासीदेह, मौहम्मद गुलाम अजहर पत्र मौहम्मद युनुस 1/4 भाग, वासी गुरुग्राम। |
| 33 | 26//16 min | चाही | निजी | 0.0025 | |
| 34 | 26//17/1 min | चाही | निजी | 0.0126 | |
| 35 | 26//17/2/1 min | चाही | निजी | 0.0253 | मौहम्मद गुलाम अजहर पुत्र मौहम्मद युनुस वासी गुरुग्राम। |
| 36 | 26//17/3/1 mn | चाही | निजी | 0.0202 | अब्दुल रहमान पुत्र याकूब 1/21 भाग, उमर मौहम्मद पुत्र मजीद पुत्र नवला 1/6 भाग, श्रीमती रसीदन पत्नी अली मौहम्मद 11/14 भाग वासीदेह। |
| 37 | 26//18/1 min | चाही | निजी | 0.0101 | प्रताप सिंह पुत्र छतर सिंह पुत्र राजन सिंह वासी झाडसा गुडगावां। |
| 38 | 26//24/1 min | चाही | निजी | 0.0126 | मौहम्मद गुलाम अजहर पुत्र मौहम्मद युनुस वासीदेह। |
| 39 | 32/1 min | गै० मु० गडडा खाद | निजी | 0.0101 | पंचायत देह |
| 40 | 40 min | गै० मु० रास्ता | निजी | 0.0025 | पंचायत देह |
| 41 | 79 min | गै० मु० रास्ता | निजी | 0.0202 | पंचायत देह |
| 42 | 81 min | गै० मु० रास्ता | निजी | 0.0101 | पंचायत देह |
| 43 | 94 min | गै० मु० रास्ता | निजी | 0.0455 | पंचायत देह |
| जोड़ | | | | 0.6568 | |

जिले का नाम :

नैह

तहसील / उप-तहसील / तालुका का नाम :

तावडू

ग्राम का नाम :

कलवाड़ी

| क्रम संख्या | सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर | भूमि की प्रकृति | भूमि की प्रकार | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भू स्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम |
|-------------|--|-----------------|----------------|------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 9//22/2 | चाही | निजी | 0.0076 | सतबीर सिंह, रमेश चन्द्र पुत्रान मनोहर लाल हर दो समभाग 1/20 भाग बिस्म्बर, सुमेर, राजेन्द्र पुत्रान प्रभु हर तीन समभाग 1/12 भाग, जीतराम पुत्र सादी पुत्र जवाहरा 1/12 भाग, रोहताश पुत्र जसवन्त पुत्र सादी 1/12 भाग, रत्न सिंह, राजेन्द्र प्रसाद, सुरेन्द्र सिंह पुत्रान रामनारायण हर तीन समभाग 17/794 भाग, रामेश्वर पुत्र भूर्ल जवाहरा 6/397 भाग अनिल सिंह पुत्र रामनाथ 5/794 भाग, बलवान सिंह पुत्र हीरा लाल पुत्र दानी 1/32 भाग, जोगिन्द्र कुमार पुत्र समयसिंह पुत्र छोटे लाल 1/32 भाग, परवीन कुमार पुत्र रामरत्न पुत्र हीरा लाल 1/32 भाग राजेश कुमार, राकेश कुमार पुत्रान कमल सिंह पुत्र हीरा लाल हर दो समभाग 1/32 भाग, रविन्द्र, अनिल पुत्रान रामनाथ पुत्र भूर्ल हर दो समभाग 329/2382 भाग, अवेश 1645/28584 भाग पुत्र व श्रीमती सुमन देवी 329/28584 भाग विधवा लखपत पुत्र रामनाथ रामेश चन्द्र, सतबीर पुत्रान मनोहर पुत्र दानी हर दो समभाग 1/8 भाग, रोहताश, दिल्लू पुत्र टेकराम 1/10 भाग, सुनील कुमार, राजेश कुमार पुत्रान कृष्ण कुमार पुत्र दिल्लू हर दो समभाग 1/10 भाग वासीदेह। |
| 2 | 13//19/1 min | चाही | निजी | 0.0076 | राजपाल, तेजपाल, सतपाल, श्रीपाल पुत्रान श्यामू उर्फ श्यामलाल पुत्र श्रीचन्द्र हर चार समभाग 1/2 भाग राम कंवार शेर सिंह पुत्रान हरनारायण पुत्र नथू हर दो समभाग 1/4 भाग औमप्रकाश, धर्मपाल पुत्रान जयराम पुत्र श्रीकृष्ण हर दो समभाग 2/3 भाग योगेश, अनिल कुमार पुत्रान शिवकुमार पुत्र धर्मसिं |

| | | | | | |
|-----------------|--------------|------|------|---------------|--|
| | | | | | pुत्रान शेरसिंह पुत्र लेखराम हर तीन समभाग 29/72 भाग श्रीमती मेवा देवी पुत्री शेर सिंह पुत्र लेखराम 1/24 भाग धर्मपाल, सुरेन्द्र कुमार पुत्रान रामचन्द्र पुत्र राम सहाय हर दो समभाग 1/9 भाग छैलकरण पुत्र भूरु पुत्र इन्दर 1/18 भाग रामेश्वर पुत्र हरिसिंह पुत्र रुसी 1/18 भाग योगेश ,अनिल कुमार पुत्रान शिव कुमार पुत्र धर्मसिंह हर दो समभाग 1/54 भाग औमप्रकाश , धर्मपाल पुत्रान जसराम पुत्र शीशराम 1/27 भाग जवाहर सिंह , सतवीर सिंह , बीरवल पुत्रान अमरसिंह पुत्र भूरु हर तीन समभाग 3/64 भाग श्रीमती मुनीदेवी विधवा सतपाल पुत्र अमरसिंह 5/576 भाग वासीदेह। |
| 4 | 14//27/1 min | चाही | निजी | 0.0025 | सोनू पुत्री सतपाल पुत्र अमरसिंह 1/72 भाग छैलकरण पुत्र भूरु पुत्र इन्दर 1/4 भाग रामेश्वर पुत्र हरी सिंह पुत्र रुसी 3/20 भाग उमेश अवतार पुत्रान श्रीराम पुत्र हरिसिंह हर दो समभाग 1/10 भाग लालसिंह ,कृष्णा पुत्रान रामेश्वर पुत्र हरिसिंह हर दो समभाग 1/10 भाग श्रीमती सनतोष पत्नी राजेन्द्र पुत्र मीरसिंह 8/161 भाग श्रीराम पुत्र हरिसिंह पुत्र रुसी 243/3220 भाग श्रीमती अनु पत्नी कृष्ण कुमार पुत्र रामेश्वर 4/161 भाग जवाहरसिंह ,सतवीरसिंह , बीरवल पुत्रान अमरसिंह पुत्र भूरु हर तीन समभाग 3/16 भाग श्रीमती मन्नी विधवा सतपाल पुत्र अमरसिंह 7/144 भाग वासीदेह। |
| 5 | 23//1/2 min | आबी | निजी | 0.0076 | पंचायत देह |
| 6 | 24//5/1 min | आबी | निजी | 0.0051 | पंचायत देह |
| जोड़ | | | | 0.0633 | |
| कुल जोड़ | | | | 9.4096 | |

[फा. सं. 8-W/HRIDC/W.Spl/2019]

बृज भूषण सिंह तोमर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
[Northern Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2024

S.O. 3703(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways, number S.O. 3904(E), dated the 04th September 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 04th September 2023 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project, namely, Haryana Orbital Rail Corridor Project in the district Nuh, in the State of Haryana;

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, namely, "Hindustan Times" dated the 12th September 2023, and "Dainik Jagran" dated the 12th September 2023 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, 06 objections have been received and the same was considered and resolved as per rule by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority, and in the exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

| SCHEDULE | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|--|
| Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Haryana Orbital Rail Corridor Project from Palwal to Sonipat via, Manesar and Kharkhoda " New Double Rail Line on the stretch of land from K.M. 12.900 to K.M. 37.000 in the district of Nuh, in the State of Haryana. | | | | | |
| Name of District : | | | | | NUH |
| Name of Tehsil/Sub Tehsil/ Taluka : | | | | | INDRI |
| Name of the Village : | | | | | BHIRAWATI |
| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares | Name of the Land Owner/ Interested persons |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 1//15/2 min | Nahri | Private | 0.0253 | Bhajanlal S/o Dulli S/o Inder 1/2 share Sanjeev Kumar S/o Madan Lal S/o Dharam Das 1/8 share Tarun Kumar 3/16 share Harish Kumar 3/16 share S/o Smt. Gayatri Widow Bir Singh S/o Dulli 1/8 share Wasideh. |
| 2 | 1//16 min | Nahri | Private | 0.0101 | Hari Singh S/o Jaypal Singh S/o Ramchand 60/961 Share Pramod S/o Rajpal 211/961 Share Wasideh O.M.R.S.M. Achivar Developer Pvt. Ltd. Etc. 38/961 Share Vijay, Pappu S/o Vedram S/o Muniram Every Two Equal Share 140/961 Share Pravin, Pradav S/o Kallan S/o Vedram Every Two Equal Share 18/961 Share Ram Sagar S/o Ram Jatan Prasad Singh 1/961 Share Wasi Selhi Smt. Ombati Widdow Rajpal S/o Ranbeer Singh 70/961 Share Satish, Aklesh, Pavan Kumar and Smt. Sarvesh, Mundra, Babita D/o and Smt. Jayanti Widdow Jaypal Singh S/o Kude Singh Every Seven Equal Share 80/961 Share Brahamjeet Singh S/o Gorasingh S/o Bal Singh 80/961 Share Smt. Bijoo Smt. Suresh Smt. Rakesh D/o Vedram S/o Muniram Every Three Equal Share 158/961 Share Wasi Kadarpur Sohna Smt. Baladevi W/o Billaram S/o Hansraj 40/961 Share Wasi Naya Gaon Bhondsi Teh. Wasi Sohna District Gurgaon Smt. Madhubala W/o Rohrash Singh S/o Udaybeer 65/961 Share Wasideh |
| 3 | 1//18 min | Nahri | Private | 0.0556 | |
| 4 | 1//19 min | Nahri | Private | 0.0202 | |
| 5 | 1//22 min | Nahri | Private | 0.0025 | |
| 6 | 1//23 min | Nahri | Private | 0.0051 | |
| 7 | 2//11/2 min | Nahri | Private | 0.0607 | Yashdev Bharatraj S/o Yagya Sharma |
| 8 | 23//23 min | Nahri | Private | 0.0025 | Omprakash, Mahendra Singh, S/o Mangatram, S/o Sheera Two equal shares 1/3 share Wasi Ballabgarh, Smt. Santosh Devi W/o Mahavir Singh |

| | | | | | 1/4 share Wasideh Smt. Suresh Devi W/o Govind Singh S/o 1/4 share Wasi Raisina tehsil Sohna, Smt. Kusumlata Widow and Rakhi D/o Krishna Kumar S/o Mangaturam Two equal shares 1/6 share Wasideh. |
|--|--------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|--|
| TOTAL | | | 0.1820 | | |
| Name of District : | | | | | NUH |
| Name of Tehsil/Sub Tehsil/ Taluka : | | | | | INDRI |
| Name of the Village : | | | | | UDAKA |
| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares | Name of the Land Owner/ Interested persons |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 26//24 min | Nahri | Private | 0.0025 | Hanif, Akhtar Hussain, Javed, Mubarik Hussain S/o Deen Mohammad S/o Nazir Ahmad Four equal shares 1/4 share Ishaq, Nasrudin, Umardeen S/o Nazir Ahmad S/o Chahat Khan Three equal shares 3/4 share Wasideh |
| 2 | 36//3 min | Nahri | Private | 0.0025 | |
| 3 | 36//12/1 min | Nahri | Private | 0.0076 | Chatar Singh S/o Khachedu S/o Shivcharan Wasideh |
| 4 | 38//4 min | Nahri | Private | 0.0202 | Nasruddin, Ramzan, Nabab, Mahmud S/o Abdul Rahman S/o Makhmul Four equal shares 1/4 share Ismail, AzamKhan S/o Makhmul S/o Moju Two equal shares 1/2 share Fajrullah, Umar Muhammad, Haroon, Amin, Mubeen S/o Suleman S/o Makhmul Fiveequal shares 1 / 4 share Wasideh |
| 5 | 38//5/1 min | Nahri | Private | 0.1695 | |
| 6 | 38//6 min | Nahri | Private | 0.3793 | Shaamlat Patti Mevan Hadab Rasad Kabja Pisar S/o Wasi |
| 7 | 38//12/1 min | Nahri | Private | 0.0051 | Wasim, Naseem S/o Israel S/o Hamju Two equal shares 1/6 share, Jumma, Sharif, Shamsu Billu S/o Hamju S/o ImamKhan Four equal shares 2/3 share |
| 8 | 38//20 min | Nahri | Private | 0.0076 | Wakeel S/o Majeed S/o Hamju 1/12 share Rahiyan, Afsar S/o Hanif S/o Majeed Two equal shares 1/12 share Wasideh |
| 9 | 38//21 min | Chahi | Private | 0.0076 | Umesh Yadav, Pravesh Yadav S/o Balbir Singh S/o MalKhan Two equal shares 1/3 share wasi Wazirabad, Dinesh, Yogesh, Rakesh S/o Jagdish Yadav S/o MalKhan Three equal shares 1/3 share wasi Wazirabad, Manoj Kumar S/o MalKhan S/o Ramjas 1/3 share wasi Wajirabad |
| TOTAL | | | 0.6019 | | |
| Name of District : | | | | | NUH |
| Name of Tehsil/Sub Tehsil/ Taluka : | | | | | INDRI |
| Name of the Village : | | | | | INDRI |
| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares | Name of the Land Owner/ Interested persons |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 7//6/1 min | Nahri | Private | 0.0025 | Smt. Manju Kumar W/o Sudhir Kumar S/o Basant Singh wasi Delhi. |
| 2 | 7//14/3 min | Nahri | Private | 0.0025 | Smt. Manju Kumar W/o Sudhir Kumar S/o Basant Singh wasi Delhi. |
| 3 | 7//15 min | Magda | Private | 0.0025 | Ashok shareiya S/o Ramswaroop shareiya S/o Hiranand shareiya wasi Delhi . |
| 4 | 7//17 min | Nahri | Private | 0.0025 | Vikas Chaudhary S/o Sumer Singh S/o Raipuri Sohna 1/2 share wasi, Lukman S/o Samsudin S/o Subhan Khan 1/9 share, Shokin, Rijwan S/o Samsudin S/o Subhan Khan Two equal shares 2/9 share, Ashok Kumar S/o Bangali Prasad 1/6 share Wasideh. |
| 5 | 79//25 min | Nahri | Private | 0.0479 | Prabhati S/o Ratiram S/o Bhim Singh Wasideh. |
| 6 | 80//21/2 min | Nahri | Private | 0.0784 | Prabhati S/o Ratiram S/o Bhim Singh Wasideh. |
| 7 | 102//1 min | Magda | Private | 0.0126 | Prabhati S/o Ratiram S/o Bhim Singh Wasideh. |
| 8 | 103//5/1 min | Nahri | Private | 0.0911 | Prabhati S/o Ratiram S/o Bhim Singh Wasideh. |
| 9 | 103//5/2 min | Nahri | Private | 0.0911 | Smt. Madhubala W/o Mahipal Kaushik S/o Dalip Singh Bila Rahan 1/3 Share |
| 10 | 103//6 min | Nahri | Private | 0.0936 | Smt. Gujri W/o Tahir Mohammad S/o Abdul Bila Rahan 1/12 Share Smt. Manjubala W/o Suresh Kumar S/o Ramfal Bila Rahan 1/6 Share Wasi Smt. Sudesh Kumari W/o Govind Singh S/o Ramchand Bila Rahan 1/12 Share |
| 11 | 103//7/1 min | Magda | Private | 0.0101 | Smt. Santosh W/o Dhan Singh S/o Nathuram Rahan Hissa 35/491 Share Satbeer S/o Shreechand S/o Deviram Rahan Hissa 128/1473 Share Smt. Mayasharma Widdow and Hemant Sharma , Pankaj Sharma S/o Jogindra Sharma S/o Ramshroop Sharma Every Three Equal Share Rahan Hissa 256/1473 Share Wasideh Kartar, Lalchand, Dharm Singh, Maheshchand S/o and Mena, Harchandi D/o Smt. Sukhpali D/o Lekhram Rahan Hissa 2/1473 Share Devisingh S/o Yadram S/o Gariba Murathanan 1/3 Share |
| 12 | 103//7/2 min | Nahri | Private | 0.0304 | Karan Singh, Charan Singh, Amar Singh, Rambeer, Dharambeer S/o Dayaram urf Rajendra S/o Bharat Singh Five equal shares Wasideh. |
| 13 | 103//14/2 min | Nahri | Private | 0.1442 | Smt. Ashrafi W/o Abdul Ghafoor S/o Abdul Rahim 5/16 share Wasideh, Samaydeen, Jamshed S/o Abdul Gafoor S/o Abdul Rahim Two equal shares |
| 14 | 103//17/2 min | Nahri | Private | 0.0658 | 1/8 share wasi Rewasan, Tulsi S/o Smt. Jamni D/o Bhupan 1/4 share Saeeda W/o Samaydeen S/o Abdul Gafoor 85/592 share Smt. Usha W/o Bharat Bhushan 131/777 share, Smt. Sanjida D/o Samsudin S/o Subhan Khan 241/3108 share, Smt. Garima Mendiratta W/o Yash Mendiratta S/o Ramprasad 40/777 share Wasideh. |
| 15 | 103//18 min | Magda | Private | 0.0885 | |
| 16 | 103//22 min | Nahri | Private | 0.0126 | Karan Singh, Charan Singh, Amar Singh, Rambeer, Dharambeer S/o Dayaram urf Rajendra S/o Bharat Singh Five equal shares Wasideh. |
| 17 | 103//23/1 min | Nahri | Private | 0.1290 | |
| 18 | 103//23/2 min | Nahri | Private | 0.0051 | Smt. Ashrafi W/o Abdul Ghafoor S/o Abdul Rahim 5/16 share Wasideh, Samaydeen, Jamshed S/o Abdul Gafoor S/o Abdul Rahim Two equal shares 1/8 share wasi Rewasan, Tulsi S/o Smt. Jamni D/o Bhupan 1/4 share Saeeda W/o Samaydeen S/o Abdul Gafoor 1/ 16 share , Smt. Rajbala W/o Suresh Kumar 3/37 share Smt. Usha W/o Bharat Bhushan 13/777 share, Smt. Sanjida D/o Samsudin S/o Subhan Khan 241/3108 share, Smt. Garima Mendiratta W/o Yash Mendiratta S/o Ramprasad 40/777 share Wasideh. |

| | | | | | |
|----|--------------|----------|---------|--------|---|
| 19 | 105//15 min | Nahri | Private | 0.1568 | Kishan Sahay S/o Gyasi S/o Dhramsingh Wasideh |
| 20 | 105//16 min | Chiknote | Private | 0.0481 | |
| 21 | 106//1 min | Nahri | Private | 0.0025 | Mukesh Kumar, Omprakash 1/10 share, Smt. Jaswanti Widow and Smt. Saroj Bala, Smt. Suresh Bala, Smt. Sunita D/o Ishwar Singh S/o Jageram Every Five Equal shares 7/400 shareRahul,Sahravat yasu S/o and Smt. Pooja and Smt. Kamla Devi Widdow Satish Kumar S/o Ishwar Singh Equal Share 7/1600 Every Four Share Deepak, Rohit S/o and Nishi D/o and Krishna Devi Widow Rajendra Singh S/o Jageram Four equal shares 7/320 share, Surendra, Tarun S/o Azad Singh Two equal shares 7/320 share. Rajendra S/o Tarachandra S/o Jeetram 1/30Sunil,Anil S/o Rajbeer S/o Tarachandra Every Two equal shares 17 / 600 share,Satveer, S/o and Smt. Rajakla Smt. Rajrani Santosh D/o Kartar Singh S/o Jeetram Every Four Equal Share 1/15 ShareHarbeer S/o and Smt. Bala Widdow Rajpal Singh S/o Kartar Singh Every Two Equal Share 1/7 Share,Nandan S/o Bhoji S/o Kali 1/4 share,Mahabeer Singh, Mahesh Chand S/o DaalSingh S/o Jeetram Two equal shares 1/15 share, Pradeep Kumar S/o Mahendra S/o Dal Singh 1/30 share, Sanjay S/o Smt. Savitri Widow and Smt. Poona, Smt. Anita, Smt. Sunita D/o Dharmbeer Singh S/o Tara chand Every Fivee qual shares 1/30 share,Rajiv Kumar S/o and Smt. Meena Widow and Smt. Neetu, Smt. Sarita, Smt. Anita D/o Ravindra Singh S/o Jageram Every Five equal shares 7/320 share,Satish Kumar S/o and Smt. Sudesh Kumari Smt. Sushila Rani, Smt. Sarojwala D/o Shanti S/o Jagaram Every Four equal shares 1 / 80 share, Smt. Suman, Geeta D/o and Smt. Krishna Widdow Rajbeer S/o tarachand Every Three Equal Share 1/200 Share Ajay Kumar, Sunit, Sahravat, Amit S/o and Smt/ Suresh Kumari Widdow Pratap Singh S/o Kartar Singh Every Five Equal Share 1/60 Share,Vijay Sehrawat S/o and Kamlesh Devi, Santosh Devi D/o Rajveer Singh S/o Ratan Singh Four equal shares 1/12 share Wasi Sarvjeet S/o and Ajit kaur, Kamlesh kaur D/o Jasvant Singh S/o Ratan Singh Every Foue Equal Share 1/12 Share Chandan Singh, padam Singh, Badan Singh S/o and Smt. Sarasvati Devi Alis Jeetkaur, Susila Devi D/o and Smt. Raj Devi Widdow Ranbeer Singh Every Six Equal Share 1/12 Sharewasiyan Deh Delhi |
| 22 | 106//2/1 min | Nahri | Private | 0.0302 | Karan Singh, Charan Singh, Amar Singh, Rambeer, Dharambeer S/o Dayaram urf Rajendra S/o Bharat Singh Five equal shares Wasideh. |
| 23 | 106//2/2 min | Nahri | Private | 0.1391 | Ratiram S/o Uday Singh S/o Tunda Rahan share 192/9216 share Vinesh, Seema, Rani, Bina D/o and Vikram Singh, Yogesh S/o Smt. Dayavati Widow Hukam Singh S/o Uday Singh Every Seven equal shares Rahan share 1/48 share Hemant S/o and Madhu Usha D/o Rohtash S/o Chhaju Every Three equal shares 3/ 7 share Pankaj S/o Rohtash S/o Chhaju 79/168 share, Murthan, Ramdhan, Srichand, Ramchandar, Sohan Lal S/o Bhagwan Sahay S/o Badlu Every Four equal shares 35/512 share Udayram S/o Deepa S/o Natha 1/64 share, Chandu S/o Badle S/o Josi 11/1152 share, Araji Matruka Gair Allot Shuda 875/1536 share, Ombeer, Krishan Kumar, S/o Bhagwan Sahay S/o Chandu Lal Every Two equal shares 11/1152 share, Abhaypal, Banshi Lal, Ramjeet S/o Mohan Lal S/o Chandu Lal Every Three equal shares 11/576 share, Pramod, Dhrambeer, Kishan Singh S/o Ramrichpal S/o Ramchandra S/o Karan Singh 11/1152 share, Sanjeev Kumar, Rajiv Kumar S/o Rajpal Singh S/o Tej Singh Two equal shares 41 / 2304 share, Smt. Sunnati W/o Akhtar Hussain S/o Mangal 11/2304 share, Virendra S/o Baburam S/o Uday Singh 1/96 share, Akbar S/o Mangal S/o Asru 11/2304 share,Smt. Bimla Devi W/o Jagdish Singh 11/2304 Share Smt. pooja W/o Umesh Chaudhary S/o Satbeer 919/552960 Share Smt. Babita W/o Satbeer Singh S/o Ramjilal 11/1152 Share narendra S/o Baburam S/o Uday Singh 1/1600 Share PrathamSingh, Baljit Singh S/o and Smt. Rachna Devi D/o and Smt. Shakuntala Widow Udhamp Singh Four equal shares 41/2304 share Wasideh, Jagdish S/o Tej Singh S/o Jal Singh 919/552960 share, Wasideh Wasi nathupur Tehsil and District Gurgaon Smt. Beervati W/o Shyam Singh S/o Kanhiram 3/1066 share, Smt. Ruksida W/o Zubair S/o Sodan 3/1066 share Sarjit S/o Roshni D/o Tej Singh S/o Jal Singh Two equal shares 6433 / 276480 share Pratham Singh, Baljit Singh, S/o Smt. Rachna Devi D/o and Smt. Shakuntala Widow Udhamp Singh Four equal shares 919/552960 share, Sanjeev Kumar Rajeev Kumar S/o Rajpal Singh S/o Tej Singh Two equal shares 919/552960 share, Omprakash S/o Bhagwan Sahay S/o Chandul 979/331776 share, Smt. Ramshri W/o Omprakash S/o Bhagwan Sahay 605/331776 share Wasideh, Prince, Rajesh,Ashok S/o Smt. Parsandi D/o Tej Singh Three equal shares 40399/552960 share Smt. Beeravati W/o Shyam Singh S/o Kanhiram 3/640 share, Rahul, Bijendra S/o Smt. Bala Devi, Widow Ranjeet Singh S/o Bhagwan Sahay Three equal shares 11/3072 share, Smt. Bala devi Widow Ranjeet Singh S/o Bhagwan Sahay 11/9216 share Wasideh, Smt. Ruksida W/o Zubair S/o Saudan 3/640 share, Smt. Suman W/o Adesh Kumar S/o Ramjilal 682367/49121280 share. |
| 24 | 106//3 min | Chiknote | Private | 0.0051 | Karan Singh, Charan Singh, Amar Singh, Rambeer, Dharambeer S/o Dayaram urf Rajendra S/o Bharat Singh Fiveequal shares Wasideh. |
| 25 | 106//4/1 min | Chiknote | Private | 0.0126 | |
| 26 | 106//9/1 min | Nahri | Private | 0.0253 | Ratiram S/o Uday Singh S/o Tunda Rahan share 192/9216 share Vinesh, Seema, Rani, Bina D/o and Vikram Singh, Yogesh S/o Smt. Dayavati Widow HukamSingh S/o Uday SinghSeven equal shares Rahan share 1/48 share Hemant S/o and Madhu Usha D/o Rohtash S/o Chhaju Three equal shares 3/ 7 share Pankaj S/o Rohtash S/o Chhaju 79/168 share, Murthan, Ramdhan, Srichand, Ramchandar, Sohan Lal S/o Bhagwan Sahay S/o Badlu Four equal shares 35/512 share Udayram S/o Deepa S/o Natha 1/64 share, Chandu S/o Badle S/o Josi 11/1152 share, Araji Matruka Gair Allot Shuda 875/1536 share, Ombeer, Krishan Kumar, S/o Bhagwan Sahay S/o Chandu Lal Two equal shares 11/1152 share, Abhaypal, Banshi Lal, Ramjeet S/o Mohan Lal S/o Chandu Lal Three equal shares 11/576 share, Ramrichpal S/o Ramchandra S/o Karan Singh 11/1152 share, Sanjeev Kumar, Rajiv Kumar S/o Rajpal Singh S/o Tej Singh Two equal shares 41 / 2304 share , Smt. Sunnati W/o Akhtar Hussain S/o Mangal 11/2304 share, Virendra S/o Baburam S/o Uday Singh 1/96 share, Akbar S/o Mangal S/o Asru 11/2304 share, PrathamSingh, Baljit Singh S/o and Smt. Rachna Devi D/o and Smt. Shakuntala Widow Udhamp Singh Four equal shares 41/2304 share |

| | | | | | Wasideh, Jagdish S/o Tej Singh S/o Jal Singh 919/552960 share, Smt. Baveeta W/o Satbir Singh S/o Ramji lal 11/1152 share, Narendra S/o Baburam S/o Uday Singh 1/21600 share, Wasideh, Smt. Kamlesh Devi Yadav W/o Ramniwas Yadav S/o 281/5400 share Nathupur Teh and District Gурооn Smt. Beervati W/o Shyam Singh S/o Kanhiram 3/1066 share, Smt. Ruksida W/o Zuber S/o Sodan 3/1066 share Sarjit S/o Roshni D/o Tej Singh S/o Jal Singh Two equal shares 6433 / 276480 share Pratham Singh, Baljit Singh, S/o Smt. Rachna Devi D/o and Smt. Shakuntala Widow Udhamb Singh Four equal shares 919/552960 share, Sanjeev Kumar Rajeev Kumar S/o Rajpal Singh S/o Tej Singh Two equal shares 919/552960 share, Omprakash S/o Bhagwan Sahay S/o Chandulal 979/331776 share, Smt. Ramshri W/o Omprakash S/o Bhagwan Sahay 605/331776 share Wasideh, Prince, Rajesh, Ashok S/o Smt. Parsandi D/o Tej Singh Three equal shares 40399/552960 share Smt. Beeravati W/o Shyam Singh S/o Kanhiram 3/640 share, Rahul, Bijendra S/o Smt. Bala Devi, Widow Ranjeet Singh S/o Bhagwan Sahay Three equal shares 11/3072 share, Smt. Bala devi Widow Ranjeet Singh S/o Bhagwan Sahay 11/9216 share Wasideh, Smt. Ruksida W/o Zubair S/o Saudan 3/640 share, Smt. Suman W/o Adesh Kumar S/o Ramjilal 682367/49121280 share. |
|--|--------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|---|
| 27 | 106//10 min | Nahri | Private | 0.1697 | Mukesh Kumar, Omprakash 1/10 share, Smt. Jaswanti Widow and Smt. Saroj Bala, Smt. Suresh Bala, Smt. Sunita D/o Ishwar Singh S/o Jageram Every Five Equal shares 7/400 share Rahul, Saharvat yasu S/o and Smt. Pooja and Smt. Kamla Devi Widdow Satish Kumar S/o Ishwar Singh Equal Share 7/1600 Every Four Share Deepak, Rohit S/o and Nishi D/o and Krishna Devi Widow Rajendra Singh S/o Jageram Four equal shares 7/320 share, Surendra, Tarun S/o Azad Singh Two equal shares 7/320 share. Rajendra S/o Tarachandra S/o Jeetram 1/30 Sunil, Anil S/o Rajbeer S/o Tarachandra Every Two equal shares 17 / 600 share, Satveer, S/o and Smt. Rajakla Smt. Rajrani Santosh D/o Kartar Singh S/o Jeetram Every Four Equal Share 1/15 Share Harbeer S/o and Smt. Bala Widdow Rajpal Singh S/o Kartar Singh Every Two Equal Share 1/7 Share, Nandan S/o Bhoji S/o Kali 1/4 share, Mahabeer Singh, Mahesh Chand S/o Daal Singh S/o Jeetram Two equal shares 1/15 share, Pradeep Kumar S/o Mahendra S/o Dal Singh 1/30 share, Sanjay S/o Smt. Savitri Widow and Smt. Poona, Smt. Anita, Smt. Sunita D/o Dharmbeer Singh S/o Tara chand Every Fiveequal shares 1/30 share, Rajiv Kumar S/o and Smt. Meena Widow and Smt. Neetu, Smt. Sarita, Smt. Anita D/o Ravindra Singh S/o Jageram Every Five equal shares 7/320 share, Satish Kumar S/o and Smt. Sudesh Kumari Smt. Sushila Rani, Smt. Sarojwala D/o Shanti S/o Jagaram Every Four equal shares 1 / 80 share, Smt. Suman, Geeta D/o and Smt. Krishna Widdow Rajbeer S/o tarachand Every Three Equal Share 1/200 Share Ajay Kumar, Sumit, Saharvat, Amit S/o and Smt. Suresh Kumari Widdow Pratap Singh S/o Kartar Singh Every Five Equal Share 1/60 Share, Vijay Sehrawat S/o and Kamlesh Devi, Santosh Devi D/o Rajveer Singh S/o Ratan Singh Four equal shares 1/12 share Wasi Sarveet S/o and Ajit kaur, Kamlesh kaur D/o Jasvant Singh S/o Ratan Singh Every Foue Equal Share 1/12 Share Chandan Singh, padam Singh, Badan Singh S/o and Smt. Sarasvati Devi Alis Jeetkaur, Susila Devi D/o and Smt. Raj Devi Widdow Ranbeer Singh Every Six Equal Share 1/12 Sharewasiyan Deh Delhi |
| 28 | 106//11 min | Nahri | Private | 0.0632 | Pohap Singh, Gajiram S/o Kishan Sahay S/o Gyasi Two equal shares 2/3 share, Ashok Kumar, Ravi Kumar S/o Rajendra Singh S/o Kishan Sahay Two equal shares 1/3 share Wasideh. |
| 29 | 956 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0151 | Panchayat Deh. |
| TOTAL | | | | 1.5781 | |
| Name of District : | | | | | NUH |
| Name of Tehsil/Sub Tehsil/ Taluka : | | | | | INDRI |
| Name of the Village : | | | | | KHANPUR |
| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares | Name of the Land Owner/ Interested persons |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 11//7/1 min | Nahri | Private | 0.0202 | Yameen S/o Iqbal Hussain S/o Kabir Ahmad Wasideh. |
| 2 | 11//7/2 min | Nahri | Private | 0.0076 | Yameen S/o Iqbal Hussain S/o Kabir Ahmad Wasideh. |
| 3 | 11//23/2 min | Nahri | Private | 0.0025 | Panchayat Deh. |
| 4 | 13//3/1 min | Nirmote | Private | 0.0101 | Panchayat Deh. |
| 5 | 13//13 min | Nirmote | Private | 0.0025 | Javed Ahemd S/o kabeer Ahmad S/o Yakoob Khan Khoobi Wasi |
| 6 | 23//5/2 | Bhood | Private | 0.0076 | Yusuf, Jameel S/o Umrao S/o Mahtab Two equal shares 1/9 share , Khubi, Jamma, Ismail, Azad, Hanif S/o Mahtab S/o Sarupa Fiveequal shares 5/9 share , Sahooon, Arif, Parvez, Aashiq S/o Khurshid S/o Mahtab Four equal shares 1/9 share Wasideh, Tahir Mohammad , Akhtar Hussain, Saddik Ahmad S/o Rahman Khan S/o Mahtab Khan Three equal shares 1/9 share wasi, Badlaki, Wahid Ahmad, Yunus Khan, Mubarik S/o Ahmad Iqbal S/o Mahtab Three equal shares 1/9 share Wasideh. |
| 7 | 27//18 min | Magda | Private | 0.0051 | Panchayat Deh. |
| 8 | 27//24 min | Magda | Private | 0.0025 | Panchayat Deh. |
| 9 | 30//3 min | Magda | Private | 0.0126 | Smt. Asghari W/o Umrao S/o Mahtab Khan 1/9 share , Smt. Saryam W/o Khubi S/o Mahtab Khan 1 / 9 share , Smt. Maryam W/o Ahmad Iqbal S/o Mahtab Khan 1/9 share , Smt. Maimuna W/o Ismail S/o Mahtab Khan 1/9 share , Smt. Hamidi W/o Jumma S/o Mahtab Khan 1 / 9 share , Smt. Majidan W/o Khurshid S/o Mahtab Khan 1 / 9 share , Smt. Akbari W/o Azad S/o Mahtab Khan 1/9 share Wasideh Tahir Mohammad, Akhtar Hussain, Saddik Ahmad S/o Rahman Khan S/o Mahtab Khan Three equal shares 1/9 share Wasi Badelaki, Hanif S/o Mahtab S/o Sarupa 1/9 share Wasideh. |
| 10 | 30//4 min | Chahi | Private | 0.0304 | Panchayat Deh. |
| 11 | 40 min | Gair mumkin Rasta | Private | 0.0177 | Panchayat Deh. |
| TOTAL | | | | 0.1188 | |

| Name of District : | | | | | NUH |
|--|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|---|
| Name of Tehsil/Sub Tehsil/ Taluka : | | | | | INDRI |
| Name of the Village : | | | | | RESAWAN |
| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares | Name of the Land Owner/ Interested persons |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 10//14 min | Nahri | Private | 0.0025 | Sanjay Malik S/o Madanlal Malik S/o Nihal Chand 1/3 share Munish Malik H.U.F Bajriya karta Munish Malik Adopted son Bahadur Chand Malik S/o Nihal Chand 1/3 share Smt. Sakshi Malik W/o Rohit Kumar Malik S/o Iqbal Singh Malik 1/6 share Smt. Tejendra Malik W/o Mohit Kumar Malik S/o Iqbal Singh Malik 1/6 share Wasideh. |
| 2 | 10//16 min | Nahri | Private | 0.0379 | |
| 3 | 10//17/1 min | Nahri | Private | 0.0101 | |
| 4 | 10//17/2 min | Nahri | Private | 0.1593 | |
| 5 | 10//18/1 | Dahri | Private | 0.0076 | Provincial Government S/o Hakdar Shaamlat Sanjay Malik S/o Madanlal Malik S/o Nihal Chand 1/3 Share Wasideh Madanlal Malik Chand S/o Nihal Chand Malik S/o Moolchand 1/3 Share Wasi Nuh Smt. Sankshi Malik W/o and Rohit Kumar Malik S/o Ekbal Singh Malik S/o Every Two Equal Share 1/6 Share Wasideh Smt. Tejendra Malik W/o Mohit Kumar Malik S/o Ekbal Singh Malik 1/6 Share Wasi Nuh |
| 6 | 10//18/2/1 | Nahri | Private | 0.0051 | Smt. Sunita Malik W/o Nanak Ray Malik S/o Ramchandra 1/2 Share Samsudin S/o Shbhan Khan S/o 29/210 Share Ramprasad S/o Gobind Ram S/o Jeevan Sad 38/105 Share Wasideh |
| 7 | 10//18/2/2 | Gair mumkin Rasta | Private | 0.0126 | Prahlad Bhagat, Jaybhagvan, Kailashnath, Chandprakash S/o Ramkishan S/o Jeevandas Every Four Equal Share 4/5 Share Smt. Manorma Widdow and Sundhasu S/o and Smt. Rohini, Nifi D/o Sundarshyam S/o Ramkishan Every Four Equal Share 1/5 Share Wasideh |
| 8 | 10//22/2 min | Nahri | Private | 0.0404 | Jaybhagvan S/o Ramkishan S/o Jeevandas Wasideh |
| 9 | 10//23/1 | Nahri | Private | 0.2099 | Jalebkhan S/o Abdul Rahim S/o hamida Wasideh |
| 10 | 10//23/2 min | Dahri | Private | 0.0556 | Fazru 5/133 share, Idrish 22/101745 share and Hanif Haroon Two equal shares 2/7 share S/o Sarupa Smt. Rahisan W/o Ahmad Khan S/o Umar Khan 4/1995 share Sabana W/o Hamid S/o Razzak 4/1995 share Rashida D/o Faiz Mohammad S/o Noor Mohammad 4/1995 share Abdul Rahim S/o Aas Mohammad S/o Hasmal 7/855 share Smt. Zayda W/o Shamsuddin S/o Subhanakha 16/119 share Sohrab S/o Sarupa S/o 79/3885 share smt. Samina W/o Akbar S/o Sarupa 68/555 share Lukman, Shokin Rijwan S/o Shamsuddin Three equal shares 23/95 share Akhlak Akhleem S/o Shamsuddin S/o Sarupa 1/7 share. |
| 11 | 10//24 min | Nahri | Private | 0.0379 | Fajru, Hanif, Harun S/o Sarupa Every Three Equal Share 3/7 Share Abdul rahim S/o Aas Mo. S/o Hasmal 1/7 Share Sohrab S/o Sarupa 79/3885 Share Smt. Samina W/o Akbar S/o Sarupa 86/555 Share Akhalak S/o Samsuddin S/o Sarupa 149/7770 Share Akhalim S/o Samsuddin S/o Sarupa 1/14 Share Smt. Rahisan W/o Ahamed Khan S/o Umar Khan 758/11655 Share Sabana W/o Hamid S/o Rajjak 758/11655 Share Rashida D/o Faij Mo. S/o Nur Mo. 758/11655 Share Wasideh |
| 12 | 14//14/2 min | Gair mumkin | HSIIDC | 0.0076 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 13 | 15//16/2/1 min | Nahri | Private | 0.0051 | Smt. Farah Khan W/o Firoj Khan S/o Ajmeri Khan Wasideh |
| 14 | 15//16/2/2 min | Gair mumkin | HSIIDC | 0.0025 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 15 | 15//18/2 min | Gair mumkin | HSIIDC | 0.0025 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 16 | 15//19/1 min | Gair mumkin | HSIIDC | 0.0051 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 17 | 15//22/1 min | Gair mumkin | HSIIDC | 0.0329 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 18 | 15//24 min | Gair mumkin | HSIIDC | 0.0101 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 19 | 15//25/1 min | Gair mumkin | HSIIDC | 0.0051 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 20 | 16//12 min | Nahri | Private | 0.0051 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 21 | 16//21/1/2 min | Gair mumkin | HSIIDC | 0.0025 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 22 | 17//1 min | Nahri | Private | 0.1442 | Islam, Yunus, Yusuf S/o Fazru S/o Azam Three equal shares 1/2 share Premraj Sharma S/o Srichand Sharma S/o Pandit Rai Singh 1/3 share wasi E. 2235 Palam Vihar wasi Gurgoan, Smt. Aamini W/o Sher Mohammad S/o Khubi 1/6 share Wasideh. |
| 23 | 17//2 min | Nahri | Private | 0.2023 | Rafik, Zakir S/o Khubi S/o Azam Two equal shares 1/3 share Islam, Yunus, Yusuf S/o Fazru S/o Azam Three equal shares 1/2 share Smt. Aamini W/o Sher Mohammad S/o Khubi 1/6 share Wasideh. |
| 24 | 17//3 min | Nahri | Private | 0.0152 | Hanif S/o Sarupa 1/7 Share Fajru S/o Sarupa 5/133 Share Lukman, Shaukin, Rijvan S/o Samshuddin S/o Subhan Khan Every Three Equal Share 23/95 Share Idrish S/o Sarupa 22/101745 Share Abdulrahim S/o Aas Mo. S/o Hasmal 7/855 Share Smt. Jayda W/o Shamsuddin S/o Subhan Khan 16/119 Share Harun S/o Sarupa 160/3913 Share Samina W/o Akbar S/o Sarupa 57/559 Share Sohrab S/o Sarupa 79/3885 Share Samina W/o Akbar S/o Sarupa 68/555 Share Rahisan W/o Ahmadkhan S/o Umar Mo. 4301/221445 Share Sabana W/o Hamid S/o Rajjak 4301/221445 Share Rasida D/o Faij Mo. 4301/221445 Share Akhlim S/o Samshuddin S/o Sarupa Every Two Equal Share 1/14 Share Akhalak S/o Samshuddin 149/7770 Share Wasi Deh |
| 25 | 17//5 min | Nahri | Private | 0.0835 | Fajru S/o Sarupa 25/567 Share Hanif, Harun S/o Sarupa Every Two Equal Share 2/7 Share Abdul Rahim S/o Aas Mo. S/o Hasmal 1/119 Share Smt. Reshma W/o Sher Mohammad S/o Rasul Khan 1/7 Share Smt. Jayda W/o Samsuddin S/o Subhan Khan 16/119 Share Akhlim S/o Samsuddin S/o Sarupa 13/5670 Share Akhleem S/o Samsuddin S/o Sarupa 1/14 Share Rahseen W/o Ahmadkhan S/o Umar Mo. 223/8505 Share Sabana W/o Hameed S/o Rajjak 223/8505 Share Rashida D/o Faij Mo. S/o Nur Mo. 223/8505 Share Lukman |

| | | | | | |
|--------------|---------------|-------------------|---------|---------------|--|
| | | | | | Shaukin, Rijvan S/o Shamsuddin S/o Subhan Khan Every Three Equal Share 94/405 Share Wasideh |
| 26 | 17//6/1/1 min | Nirmote | Private | 0.0607 | Smt. Arsina W/o Lukman S/o Shamsudin |
| 27 | 17//6/1/2 min | Nirmote | Private | 0.0304 | Sarfaraj, Sarafat, Safat, Sakir S/o Akbar S/o Yusuf Every Five Equal Share Wasideh |
| 28 | 17//7/1 min | Nahri | Private | 0.0657 | Javed S/o Samsudin S/o Subhankhan Wasideh |
| 29 | 17//7/2 | Nahri | Private | 0.0911 | Hassan S/o Jumma 1/6 share Premraj Sharma S/o Srichand Sharma S/o Pandit RaiSingh 2/3 share Mohit malik S/o Nanak malik 4/67 share Smt. Rasida D/o Faiz Mohammad Hal W/o Zakaria S/o 19/804 share wasi Sohana, Smt. Najma W/o hajim S/o Aamin 49/804 share Smt. Farida W/o SammiKha S/o Usman 3/134 share Wasideh. |
| 30 | 17//10 min | Nahri | Private | 0.0632 | Ishlam, Yunus S/o Fajru S/o Ajam Every Two Equal Share 1/3 Share Yusuf S/o Fajru S/o Ajam 1/15 Share Sanjay Makkad S/o Ramkishan Makkad 1/10 Shar Premraj Sharma S/o Shreechand Sharma S/o Pandit Rajsingh 1/3 Share Wasi E 2235 Palam Bihar Wasi Gurgaon Smt. Aamini W/o Sher Mohammad S/o Khoobi 1/6 Share Wasideh |
| 31 | 17//14 min | Nahri | Private | 0.0582 | Hassan S/o Jumma 1/6 share Premraj Sharma S/o Srichand Sharma S/o Pandit RaiSingh 2/3 share Mohit malik S/o Nanak malik 4/67 share Smt. Rasida D/o Faiz Mohammad Hal W/o Zakaria S/o 19/804 share wasi Sohana, Smt. Najma W/o hajim S/o Aamin 49/804 share Smt. Farida W/o SammiKha S/o Usman 3/134 share Wasideh. |
| 32 | 18//1 min | Nahri | Private | 0.0734 | Fajru, Hanif, Harun S/o Sarupa Every Three Equal Share 3/7 Share Abdul rahim S/o Aas Mo. S/o Hasmal 1/7 Share Sohrab S/o Sarupa 79/3885 Share Smt. Samina W/o Akbar S/o Sarupa 86/555 Share Akhalak S/o Samsuddin S/o Sarupa 149/7770 Share Akhalim S/o Samsuddin S/o Sarupa 1/14 Share Smt. Rahisan W/o Ahmad Khan S/o Umar Khan 758/11655 Share Sabana W/o Hamid S/o Rajjak 758/11655 Share Rashida D/o Faij Mo. S/o Nur Mo. 758/11655 Share Wasideh |
| 33 | 299/1 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0126 | Panhayat Deh |
| TOTAL | | | | 1.5579 | |

Name of District :

NUH

Name of Tehsil/Sub Tehsil/ Taluka :

INDRI

Name of the Village :

KHEDI KHANKAR

| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares | Name of the Land Owner/ Interested persons |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 34//16 min | Bhood | HSIIDC | 0.0025 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 2 | 34//17/1 min | Bhood | HSIIDC | 0.0025 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 3 | 34//24/1/1 min | Nahri | HSIIDC | 0.0051 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 4 | 34//24/2/1 min | Bhood | HSIIDC | 0.0051 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 5 | 34//25/1/1 min | Bhood | HSIIDC | 0.0076 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 6 | 39//1 min | Bhood | HSIIDC | 0.0025 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 7 | 39//13 min | Nahri | HSIIDC | 0.0051 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 8 | 39//16/2 min | Bhood | HSIIDC | 0.0101 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 9 | 44//12 min | Nahri | HSIIDC | 0.0177 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 10 | 45//9/2 min | Bhood | HSIIDC | 0.0051 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 11 | 45//10/2 min | Bhood | HSIIDC | 0.3870 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 12 | 45//14/2/1 | Bhood | HSIIDC | 0.0025 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 13 | 45//14/2/2 | Bhood | HSIIDC | 0.0025 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 14 | 46//2/1/2 min | Nirmote | HSIIDC | 0.0253 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 15 | 46//2/2/2 min | Magda | HSIIDC | 0.0076 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 16 | 46//3 min | Magda | HSIIDC | 0.0455 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 17 | 46//6/1 min | Magda | HSIIDC | 0.0455 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 18 | 46//8/1/2 | Magda | HSIIDC | 0.0177 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 19 | 73 min | Gair mumkin Nala | HSIIDC | 0.0025 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 20 | 83/2 min | Gair mumkin Sadak | HSIIDC | 0.0455 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 21 | 84/2 min | Gair mumkin Sadak | HSIIDC | 0.0076 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| TOTAL | | | | 0.6525 | |

Name of District :

NUH

Name of Tehsil/Sub Tehsil/ Taluka :

INDRI

Name of the Village :

DHIRDHOKA

| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares | Name of the Land Owner/ Interested persons |
|---------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 6//16 min | Gair mumkin | HSIIDC | 0.0885 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 2 | 6//25 min | Gair mumkin | HSIIDC | 0.0025 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 3 | 7//20 min | Gair mumkin | HSIIDC | 0.0025 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |

| | | | | | |
|--------------|---------------|-------------|---------------|--------|---|
| 4 | 7//21/1/2 min | Gair mumkin | HSIIDC | 0.0531 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 5 | 11//12 min | Gair mumkin | HSIIDC | 0.0025 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 6 | 30 min | Gair mumkin | HSIIDC | 0.0025 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| TOTAL | | | 0.1516 | | |

Name of District : NUH

Name of Tehsil/Sub Tehsil/ Taluka : INDRI

Name of the Village : RUPAHERI

| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares | Name of the Land Owner/ Interested persons |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 8//15 min | Gair mumkin | HSIIDC | 0.0051 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 2 | 8//16 min | Gair mumkin | HSIIDC | 0.0076 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 3 | 25 min | Gair mumkin Sadak | HSIIDC | 0.0051 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 4 | 27 min | Gair mumkin Sadak | HSIIDC | 0.0051 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| TOTAL | | | 0.0229 | | |

Name of District : NUH

Name of Tehsil/Sub Tehsil/ Taluka : INDRI

Name of the Village : MEHROLA

| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares | Name of the Land Owner/ Interested persons |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 4//5 min | Chahi | HSIIDC | 0.1341 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 2 | 4//25/2 min | Chahi | HSIIDC | 0.0025 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 3 | 4//25/3 min | Chahi | HSIIDC | 0.0025 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 4 | 14//6/2 min | Magda | HSIIDC | 0.0025 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 5 | 14//16 min | Chahi | HSIIDC | 0.0076 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 6 | 14//25/1 min | Chahi | HSIIDC | 0.0025 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 7 | 16//5/2 min | Chahi | HSIIDC | 0.0025 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 8 | 16//15/3 min | Magda | HSIIDC | 0.0076 | Aabadi Deh |
| 9 | 18 min | Gair mumkin | HSIIDC | 0.0051 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 10 | 29 min | Magda | Govt. | 0.0101 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 11 | 31 min | Gair mumkin Nahar | HSIIDC | 0.0556 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 12 | 35 min | Gair mumkin | HSIIDC | 0.0101 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| TOTAL | | | 0.2427 | | |

Name of District : NUH

Name of Tehsil/Sub Tehsil/ Taluka : INDRI

Name of the Village : ROJKA MEO

| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares | Name of the Land Owner/ Interested persons |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 28//7 min | Gair mumkin | HSIIDC | 0.0505 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 2 | 28//14 min | Gair mumkin | HSIIDC | 0.0986 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 3 | 28//17 min | Gair mumkin | HSIIDC | 0.0253 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 4 | 37//15/1 min | Gair mumkin | HSIIDC | 0.0025 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 5 | 37//15/2/2 min | Gair mumkin | HSIIDC | 0.0025 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 6 | 37//16/2 min | Gair mumkin | HSIIDC | 0.0252 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 7 | 84 min | Gair mumkin | HSIIDC | 0.0152 | Panchayat Deh |
| 8 | 105 min | Gair mumkin Pahad | Private | 0.0279 | Provincial Government |
| TOTAL | | | 0.2477 | | |

Name of District : NUH

Name of Tehsil/Sub Tehsil/ Taluka : TAURU

Name of the Village : DHULAWAT

| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares | Name of the Land Owner/ Interested persons |
|---------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 6//21 min | Chahi | Private | 0.1090 | Ayyub, Fateh Mohammad , Ali Mohammad , Mehboob, S/o Ishab S/o Mehtab Four equal shares 4/5 share Jamsed, Mustufa S/o Ilyas S/o Ishab Two equal shares 1/5 share Wasideh |
| 2 | 7//21 min | Chahi | Private | 0.1433 | Subedin, Aajad Hussain S/o Fajruddin S/o Bagdu Two equal shares Wasideh |

| | | | | | |
|--------------|-------------|-------------------|---------|---------------|---|
| 3 | 7//22/1 min | Chahi | Private | 0.0256 | |
| 4 | 7//22/2 min | Chahi | Private | 0.1206 | |
| 5 | 7//23 min | Chahi | Private | 0.0482 | |
| 6 | 7//24 min | Chahi | Private | 0.0584 | |
| 7 | 7//25 min | Chahi | Private | 0.0735 | Ayyub, Fateh Mohammad , Ali Mohammad , Mehboob, S/o Ishab S/o Mehtab Four equal shares 4/5 share Jamsed, Mustafa S/o Ilyas S/o Ishab Two equal shares 1/5 share Wasideh |
| 8 | 8//17 min | Chahi | Private | 0.0076 | Chhajju, Lahu S/o kabeer S/o Every Two Equal Share Wasideh Hissedar |
| 9 | 8//18 min | Magda | Private | 0.0025 | Ajmat, Ishlam S/o bhagmal S/o Every Two Equal Share 1/2 Share Asru, Jamshed S/o isab S/o Bhagmal Every Two Equal Share 1/4 Share Vali Mohammad, Mubin, Unnas, Jbar S/o Bashir S/o Bhagmal Every Four Equal Share 1/4 Share Wasideh |
| 10 | 8//19 min | Chahi | Private | 0.0436 | Idrish, Rahmat, Razak S/o Naurang Three equal shares 1/3 Share Daud, Ashgar S/o Ujagar S/o Noor Kha Two equal shares 2/9 Share Usman, Jaan Mohammad , Zahir, Sirajuddin S/o Surjan S/o Noor Kha Four equal shares 1/3 Share Mushtak S/o Rashid S/o Ujagar 1/9 share Wasideh |
| 11 | 8//20 min | Chahi | Private | 0.0425 | Sahabuddin S/o Deen Muhammad S/o Rajmal 1/3 share mamman, Ati Mohammad S/o Rajmal S/o Wazir Kha Two equal shares 2/3 Share Wasideh |
| 12 | 8//23 min | Chahi | Private | 0.0126 | Panchayat Deh |
| 13 | 8//24/1 min | Chahi | Private | 0.0076 | Panchayat Deh |
| 14 | 8//24/2min | Chahi | Private | 0.0229 | Panchayat Deh |
| 15 | 8//24/3 min | Chahi | Private | 0.0430 | Panchayat Deh |
| 16 | 8//24/4 min | Chahi | Private | 0.0152 | Panchayat Deh |
| 17 | 8//24/5 min | Chahi | Private | 0.0202 | Panchayat Deh |
| 18 | 8//25/1min | Chahi | Private | 0.0463 | Panchayat Deh |
| 19 | 8//25/2min | Chahi | Private | 0.0528 | Subedin, Aajad Hussain S/o fajruddin S/o Bagdu Two equal Wasideh |
| 20 | 9//12 min | Chahi | Private | 0.0025 | Panchayat Deh |
| 21 | 10//2 min | Chahi | Private | 0.0076 | Smt. Usha W/o Ravindra S/o Rajendra Wasi Delhi |
| 22 | 58 min | Gair mumkin Nala | Private | 0.0101 | Panchayat Deh |
| 23 | 479 min | Gair mumkin Rasta | Private | 0.0126 | Makbooj Shaare Aam |
| TOTAL | | | | 0.9282 | |

Name of District :

NUH

Name of Tehsil/Sub Tehsil/ Taluka :

TAURU

Name of the Village :

MENDLA

| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares | Name of the Land Owner/ Interested persons |
|---------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 23//22/1 min | Chahi | Private | 0.0505 | Ibrahim S/o Rasoola S/o Rooda Wasideh |
| 2 | 23//22/2 min | Chahi | Private | 0.0101 | Ibrahim S/o Rasoola S/o Rooda Wasideh |
| 3 | 23//22/3 min | Chahi | Private | 0.1290 | Ibrahim S/o Rasoola S/o Rooda Wasideh |
| 4 | 23//23 min | Chahi | Private | 0.1846 | Sahabudin, Nababin, Jekam S/o Kamro S/o Khan Jabarkhan Every Three Equal Share 1/2 Share Ibrahim S/o Rasoola S/o Rooda 1/2 Share Wasideh |
| 5 | 23//24 min | Chahi | Private | 0.1568 | |
| TOTAL | | | | 0.5310 | |

Name of District :

NUH

Name of Tehsil/Sub Tehsil/ Taluka :

TAURU

Name of the Village :

BIDHUWAS

| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares | Name of the Land Owner/ Interested persons |
|---------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 24//11 min | Chahi | Private | 0.0025 | Smt.Saroj Gupta W/o Rakesh Kumar gupta S/o Hari shankar gupta 1/5 share wasi B-434 meera bagh New Delhi upender Singh S/o vijaya tarwa S/o Parmeshwar 6/25 share wasi St.Stefins college wasi New Delhi sanjay jain S/o amarnath jain S/o 1/25 share wasi civil line jaipur rajasthan Smt.arita W/o rakesh gupta S/o vidyasagar gupta 3/25 share rakesh gupta S/o vidya sagar gupta S/o pyarelal 3/25 share Wasideh sanjay jain S/o amarnath S/o 7/25 share wasi 46-B keshavpath suraj nagar wasi civil line jaipur |
| 2 | 24//18 min | Chahi | Private | 0.0025 | Harishankar S/o Yogdyan 1/4 share Smt.Sudha W/o Nalin Harishankar W/o yogdyan Two equal shares 1/2 share Smt.geeta W/o nalin S/o harishankar 1/4 share prithvi road New Delhi |
| 3 | 24//19 min | Gair mumkin Farm House | Private | 0.0025 | Smt.indra aanand W/o karan aanand 1/2 share wasi E-282 greater kailash New Delhi Smt.upender Singh W/o vijay yat Khan S/o parmeshwar nath 1/2 share wasi New Delhi |
| 4 | 24//20 min | Chahi | Private | 0.0101 | Smt.Saroj gupta W/o rakesh Kumar gupta S/o hari shankar gupta 1/5 share wasi B-434 meera bagh New Delhi upender Singh S/o vijaya tarwa S/o parmeshwar 6/25 share wasi St.Stefins college wasi New Delhi sanjay jain S/o amarnath jain S/o 1/25 share wasi civil line jaipur rajasthan Smt.arita W/o rakesh gupta S/o vidyasagar gupta 3/25 share rakesh gupta S/o vidya sagar gupta S/o pyarelal 3/25 share Wasideh sanjay jain S/o amarnath S/o 7/25 |

| | | | | | |
|--------------|-------------|------------------|---------|---------------|--|
| | | | | | share wasi 46-B keshavpath suraj nagar wasi civil line jaipur |
| 5 | 25//1 min | Chahi | Private | 0.0051 | Chatar Singh, Manfool Harichand S/o Ramjivan S/o Chaju Three equal shares 3/4 share Tej Singh S/o jagmal S/o Ramjivan 1/4 share waisyan Padheni |
| 6 | 25//8/2 min | Chahi | Private | 0.0051 | Aditya Aryan S/o Bedaj Arya 1/2 share Wasi T-23 /5 DLF Gurgoan Smt.Reeta Chaudhary W/o Aditya Rya S/o Bedaj Arya 1/2 share Gurgoan T-23/5 DLF Gurgoan |
| 7 | 25//9/2 min | Chahi | Private | 0.0025 | Chatar Singh, Manfool Harichand S/o Ramjivan S/o Chaju Three equal shares 3/4 share Tej Singh S/o jagmal S/o Ramjivan 1/4 share waisyan Padheni |
| 8 | 25//10 min | Magda | Private | 0.0076 | Aditya Aryan S/o Bedaj Arya 1/2 share Wasi 23 /5 DLF Phase 111 Gurgoan Smt.Reeta Chaudhary W/o Aditya Rya S/o Bedaj Arya 1/2 share Wasi 23/5 DLF Phase 111 Gurgoan |
| 9 | 25//13 min | Chahi | Private | 0.0051 | Jal Singh S/o Ramjilal S/o Chetram 1/3 share Satveer S/o Ganpat S/o Ramjilal 1/15 share Budhram Karam Singh S/o Shreechand S/o Ramjilal Two equal shares 1/3 share Rajpal Rambeer Dayanand Sanjay S/o Ganpat S/o Ramjilal Four equal shares 4/15 share Waisyan Padheni |
| 10 | 26//5/1 min | Chahi | Private | 0.0051 | Panchayat Deh |
| 11 | 26//6/2 min | Magda | Private | 0.0025 | Panchayat Deh |
| 12 | 34 min | Gair mumkin Nala | Private | 0.0051 | |
| 13 | 37/1 min | Gair mumkin Nala | Private | 0.0505 | |
| TOTAL | | | | 0.1062 | |

Name of District :

NUH

Name of Tehsil/Sub Tehsil/ Taluka :

TAURU

Name of the Village :

PADHENI

| Serial Number | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares | Name of the Land Owner/ Interested persons | |
|---------------|----------------|--------------|-----------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 24//17/1 | Chahi | Private | 0.0025 | Rasul kha,Gafur yakub S/o Nasib Kha S/o budhu Three equal shares 3/4 share jamsed Sahabudin Daud Imran S/o Ayyub S/o Nasib Kha Four equal shares 1/4 share Wasideh |
| 2 | 33//2/1 min | Chahi | Private | 0.1695 | Kailash,RajKumar ,Tej Singh S/o Meenu Yadav D/o Omvati Widwa Lal Singh S/o Gopichand Fiveequal shares 1/16 share ,Rammnath ,Ran Singh ,Ram Avtar s/o Gopichand S/o Shadi Ram Three equal shares 3/16 share ,Munshi Ram,Virender Singh S/o Raghbir Singh S/o Shadi Ram Two equal shares 1/6 share ,Sandeep yadav s/o Jagdish s/o Raghbir 1/12 Share ,Uttam Chand s/o RajKumar s/o Mohar Singh 1/12 share Sunil Kumar ,Ombeer s/o Tarachand s/o Mohar Singh Two equal shares 1/12 share ,Pradeep Kumar ,Ravinder Kumar S/o Satbir Singh s/o Mohar Singh Two equal shares 1/12 share,Nihal Singh,Mahender Singh,Ramjas ,Rajender Singh s/o Meer Singh s/o Shadi Ram Four equal shares 1/5 share ,Vikram Singh,Naresh s/o Sher Singh s/o Meer Singh Two equal shares 1/20 share Wasideh |
| 3 | 33//2/2 min | Chahi | Private | 0.0051 | Munshi Khan,Abdul Rajjak,Tayyab S/o Yasin S/o Munir Khan Three equal shares 1/4 Share ,Parmeena Widow Tahir s/o Yasin 1/12 share ,Israil s/o Hayat Khan s/o Chander Khan 1/3 share ,Umar Mohd, s/o chander Khan s/o Munir Khan 1/3 share Wasideh |
| 4 | 33//3/2 min | Chahi | Private | 0.1240 | Kailash,RajKumar ,Tej Singh S/o Meenu Yadav D/o Omvati Widwa Lal Singh S/o Gopichand Fiveequal shares 1/16 share ,Rammnath ,Ran Singh ,Ram Avtar s/o Gopichand S/o Shadi Ram Three equal shares 3/16 share ,Munshi Ram,Virender Singh S/o Raghbir Singh S/o Shadi Ram Two equal shares 1/6 share ,Sandeep yadav s/o Jagdish s/o Raghbir 1/12 Share ,Uttam Chand s/o RajKumar s/o Mohar Singh 1/12 share Sunil Kumar ,Ombeer s/o Tarachand s/o Mohar Singh Two equal shares 1/12 share ,Pradeep Kumar ,Ravinder Kumar S/o Satbir Singh s/o Mohar Singh Two equal shares 1/12 share,Nihal Singh,Mahender Singh,Ramjas ,Rajender Singh s/o Meer Singh s/o Shadi Ram Four equal shares 1/5 share ,Vikram Singh,Naresh s/o Sher Singh s/o Meer Singh Two equal shares 1/20 share Wasideh |
| 5 | 33//8 min | Chahi | Private | 0.3744 | |
| 6 | 33//9/1 min | Chahi | Private | 0.0556 | |
| 7 | 33//14 min | Chahi | Private | 0.0025 | Gajraj,Dharambeer s/o Shiv lal urf Shibu S/o Umrao Two equal shares 1/2 share ,Mahabeer ,Karambeer,Rajbeer S/o Inderraj S/o Gordhan Three equal shares 1/2 share Wasideh |
| 8 | 33//17/2/2 min | Chahi | Private | 0.0051 | Gajraj,Dharambeer s/o Shiv lal urf Shibu S/o Umrao Two equal shares 1/2 share ,Mahabeer ,Karambeer,Rajbeer S/o Inderraj S/o Gordhan Three equal shares 1/2 share Wasideh |
| 9 | 33//24/1/2 | Chahi | Private | 0.0228 | Mohammad Idrees,Maksud S/o Suleman S/o Mamla Two equal shares 1/2 share ,Niyaz Mohammad s/o Suleman s/o Mamla 1/2 share Wasideh |
| 10 | 33//24/2/2 | Chahi | Private | 0.0076 | Heeralal S/o Laxman S/o Bhiwa 1/5 share Sultan, Nandram S/o Puran S/o Laxman Two equal shares 1/5 share Jeetram S/o Shri Chand S/o Laxman 1/5 share Balram , Parmal S/o Amar Singh S/o Laxman Two equal shares 6/35 share Smt. Gidodi Wido Amar Singh S/o Laxman 1/35 share Satpal , Narendra Singh S/o Ratan Lal S/o Pream chand Two equal shares 1/5 share Wasideh |
| 11 | 38//5/2 min | Chahi | Private | 0.0025 | Iswar Singh, Sube Singh,Ram Singh S/o Prabhudayal S/o Dilksukh Three equal shares Wasideh |
| 12 | 38//6/1/2 min | Chahi | Private | 0.0025 | Smt. Kamla Devi D/o Mangalram S/o Jiyaram Wasideh |
| 13 | 39//1 min | Chahi | Private | 0.0051 | Iswar Singh, Sube Singh,Ram Singh S/o Prabhudayal S/o Dilksukh Three equal shares Wasideh |
| 14 | 39//9/2 min | Chahi | Private | 0.0051 | Harikisan, Rambilash , Ramparshad S/o Ramchand S/o Kanhyya Three equal shares 1/2 share Sr. Kirshan S/o and Suman D/o Vidiya Devi, Ramjiwan S/o Kanhyya Three equal shares 3/8 share Smt. Champaa Devi Wido Sanjay S/o Mamta D/o Ramniwas S/o Ramjiwan Three equal shares 1/8 share |
| 15 | 39//10/2/2 min | Chahi | Private | 0.0177 | Harikishan,Rambilash ,Ramprasad S/o Ram chandr S/o Kanheya Three equal shares 1/2 Share Shri krishan S/o and Suman D/o Smt.widdhodavi Widow Ramjivan S/o Kanheya Three equal shares 3/8 share Smt.Champaa |
| 16 | 39//12/1/2 min | Chahi | Private | 0.0304 | |

| | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|---------|---------------|---|
| | | | | | Devi Widow And Sanjay S/o Mamta D/o Ramniwas S/o Ramivan Three equal shares 1/8 share Wasideh |
| 17 | 39//12/2 min | Chahi | Private | 0.0304 | Satbir, Lalchand ,Pardeep Kumar S/o Pyarelal S/o Ramjilal Three equal shares Wasideh |
| 18 | 39//13 min | Chahi | Private | 0.0076 | Satyaranayan,Rajbir S/o Sultan S/o Kanheya Two equal shares 1/2 Share |
| 19 | 39//14/1 min | Chahi | Private | 0.0025 | Vishambar S/o kanheya S/o Udayram 1/2 share Wasideh |
| 20 | 39//16/1/2/2 min | Chahi | Private | 0.0025 | Jeetram S/o Fakera wasi House No.206 , Manglapuri Mehroli New Delhi |
| 21 | 39//25/2 min | Chahi | Private | 0.0152 | Satyaranayan,Rajbir S/o Sultan S/o Kanheya Two equal shares 1/2 Share Vishambar S/o kanheya S/o Udayram 1/2 share Wasideh |
| 22 | 39//27 min | Gair mumkin Aavas | Private | 0.0025 | Tara Chand S/o Mohar Singh S/o Sadiram 1/2 share Gajraj, Dharamveer S/o Shiblal Urf Sibbu S/o Umrv Two equal shares 1/2 share Wasideh |
| 23 | 40//20/2/1 min | Chahi | Private | 0.0025 | Omprakash, Rajendar S/o Ramfal S/o Udyamiram Two equal shares Wasideh |
| 24 | 40//22 min | Chahi | Private | 0.0051 | Smt.Foolwati W/o Babulal S/o RamSingh 1/14 share Wasi, Kakdu Colony ,Omparkash,Niranjan,Ram Mehar Rohtash S/o Shrichand S/o Choota Four equal shares 4/5 share, Mohit S/o Satbir S/o Shrichand 9/70 share Wasideh |
| 25 | 42//2 min | Chahi | Private | 0.0025 | Kamruddin S/o Meo Khan,Raymal 1/4 share Nasruddin ,Akhtar Hussain,Sahabuddin ,Mohammad Yunush, Mohammad Yusuf S/o Suleman S/o Raimal Fiveequal shares 1/4 share Hanif Mohammad, Noor Mohammad S/o Samand Khan S/o Rahim Khan Two equal shares 1/2 share |
| 26 | 42//3 min | Chahi | Private | 0.0051 | |
| 27 | 42//4 min | Chahi | Private | 0.0025 | |
| 28 | 53/2 min | Gair mumkin | Private | 0.0101 | Panchayat Deh |
| 29 | 60/2 min | Gair mumkin rasta | Private | 0.0051 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 30 | 325/2 min | Gair mumkin rasta | Private | 0.0025 | Panchayat Deh |
| TOTAL | | | | 0.9285 | |

Name of District :**NUH****Name of Tehsil/Sub Tehsil/ Taluka :****TAURU****Name of the Village :****GOGJAKA**

| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares | Name of the Land Owner/ Interested persons |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 3//8/1 | Chahi | Private | 0.0961 | Sajjan Singh, Dharam Singh S/o Ram Richpal S/o Tejbhan Two equal shares wasi Kalarpuri wasi Tauru |
| 2 | 3//9/1 | Chahi | Private | 0.0126 | |
| 3 | 3//13/1/2 | Chahi | Private | 0.0051 | Haryana State Industrial Infrastructure Development Corporation Limited |
| 4 | 3//17/1 | Chahi | Private | 0.0025 | Sukhbir Singh S/o Sher Singh S/o Ramjilal 1/4 share Mahendar, Atar Singh, Sumendar, Jaikishan S/o Meer Singh S/o Natthu Four equal shares 1/3 share Ram Kumar, Kamal , Hari Singh S/o Prakash S/o Meer Singh Three equal shares 1/12 share smt.Rajbala Widow Hansraj S/o Meer Singh 1/12 share Rohit Panwar S/o Baljeet Panwar 1/8 share Rishi Panwar S/o Ajeet Singh 1/8 share Wasideh |
| 5 | 4//20/1 min | Chahi | Private | 0.0051 | Chatar Singh ,Atar Singh ,Pratik urf Dharmendar S/o Bhagwan Singh S/o Chhaju Ram Three equal shares Wasideh |
| 6 | 5//8/1 min | Chahi | Private | 0.0025 | Prem Prakash S/o Shiv Dayal S/o Bhawani Das 1/6 share Surendar Kumar S/o Ompraksash S/o Shivdayal 1/2 share Gaurav Bajaj S/o Prem Prakash S/o Shiv Dayal 1/6 share Smt.Shakuntala Rani W/o Prem Prakash S/o Shivdayal 1/6 share Wasideh |
| 7 | 5//9/1 min | Chahi | Private | 0.0051 | Government of Haryana |
| 8 | 5//16 | Chahi | Private | 0.0025 | Prem Prakash S/o Shiv Dayal S/o Bhawani Das 1/6 share Surendar Kumar S/o Ompraksash S/o Shivdayal 1/2 share Gaurav Bajaj S/o Prem Prakash S/o Shiv Dayal 1/6 share Smt.Shakuntala Rani W/o Prem Prakash S/o Shivdayal 1/6 share Wasideh |
| 9 | 60 min | Gair mumkin Rasta | futh | 0.0076 | Panchayat Deh |
| TOTAL | | | | 0.1391 | |

Name of District :**NUH****Name of Tehsil/Sub Tehsil/ Taluka :****TAURU****Name of the Village :****KALIYAKA**

| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares | Name of the Land Owner/ Interested persons |
|---------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 26//3 min | Chahi | Private | 0.0632 | Ramkishan,Harichand, kartara S/o Shreeram S/o Natthu Three equal shares 41/252 share Chiranjee, Pawan, Mahesh S/o and seema, Kunti ,Sapna. Chiki D/o and Smt. Lakhmeeri Widow Premchand S/o Natthu Eight equal shares 41/252 share shamlal, Rupchand, Deepchand S/o Nathu S/o Buddha Three equal shares 123/252 share Heeralal ,Pannelal, Ranjeet Vijay S/o kashiram S/o Natthu Four equal shares 41/252 share Wasideh |
| 2 | 26//6 min | Chahi | Private | 0.0708 | Salmuddin, Sahabuddin, Rasheed S/o Sadra S/o Alibaksh Three equal shares 3/4 share Rajjak Mohammad, Irfan Khan, Shakeel Khan,Ismail, Islauddn,Mohammad Ilyas S/o sharif Khan S/o sadra Five equal shares 1/4 share Wasideh |
| TOTAL | | | | 0.1340 | |

| Name of District : | | | | | NUH |
|--|--------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|---|
| Name of Tehsil/Sub Tehsil/ Taluka : | | | | | TAURU |
| Name of the Village : | | | | | GOELA |
| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares | Name of the Land Owner/ Interested persons |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 8//16/1 min | Chahi | Private | 0.0076 | Ram Singh S/o Shadi ram 2/23 share, Ashok Kumar, Jagmal S/o kanheya 21/23 share Wasideh |
| 2 | 9//12/1 min | Chahi | Private | 0.0051 | Ashok Kumar S/o Jagmal S/o kanheya wasi New Delhi |
| 3 | 9//19/1 min | Chahi | Private | 0.0025 | Aditay goyal S/o ramesh goyal S/o wasi Delhi Greater kailash |
| 4 | 9//23/1 min | Chahi | Private | 0.0025 | Rajpal vinay pal jaipal mohar pal S/o ramjilal S/o bhagwan Singh Four equal shares wasi nanduki |
| 5 | 17//12 min | Chahi | Private | 0.0025 | Hakam hajar Khan jaikam S/o rojdar S/o hoshiyar Three equal shares 3/8 share ayyub mehbobb Jamshed, Kayyum S/o Rudri S/o Hoshiyar Four equal shares 1/2 share Khurshid, Safi, Iqbal, Sarfuddin, Imran, Ajruddin Ikramudin S/o kasim S/o Rojdar Seven equal shares 1/8 share Wasideh |
| 6 | 17//19/2 min | Chahi | Private | 0.0556 | |
| 7 | 17//22/2/2 min | Chahi | Private | 0.0202 | |
| 8 | 17//24/1 min | Chahi | Private | 0.0025 | |
| 9 | 18//4/1 min | Chahi | Private | 0.0025 | Shamlat deh rahin aluddin S/o nawab S/o budh Singh 1/6 share sardar jaan Mohammad nasruddin samsuddin S/o budh Singh Four equal shares 2/3 share alam irfan jamshed S/o mijju S/o budh Singh Three equal shares 1/6 share Wasideh murtahan |
| 10 | 18//15/2 min | Chahi | Private | 0.0051 | Ajay Kumar S/o Dharambeer S/o Chandermal wasi Shikohpur Manesar |
| 11 | 23//4 min | Chahi | Private | 0.0025 | |
| 12 | 23//7/2 min | Chahi | Private | 0.0152 | |
| 13 | 24//10/2 min | Chahi | Private | 0.0025 | Smt. Kavita W/o Mahesh S/o Mavasiram Wasi Dhunela The - Sohna |
| 14 | 24//19 min | Chahi | Private | 0.0101 | |
| 15 | 24//22/2 min | Chahi | Private | 0.0025 | |
| 16 | 24//23 min | Chahi | Private | 0.0076 | |
| 17 | 28//4/1 min | Chahi | Private | 0.0025 | Ashok Kumar S/o Kartar Singh S/o Shishpal Wasideh |
| 18 | 28//3/2/2 min | Chahi | Private | 0.0051 | Jagmal Singh ,Mahender Singh, Tara chand S/o Duli chand S/o khubiram Three equal shares 3/5 share Ajay, Sachin S/o and Rajrani Widow Hukam Singh S/o Dullichand Three shares 1/4 share Wasideh |
| 19 | 28//4/2/2 min | Chahi | Private | 0.0585 | Aasu,RatiKhan S/o Karim Khan S/o Kade Khan Two equal shares Wasideh |
| 20 | 28//7/1/1/2 min | Chahi | Private | 0.0505 | Jagmal Singh ,Mahender Singh, Tara chand S/o Duli chand S/o khubiram Three equal shares 3/5 share Ajay, Sachin S/o and Rajrani Widow Hukam Singh S/o Dullichand Three shares 1/4 share Wasideh |
| 21 | 28//7/2/2 min | Chahi | Private | 0.0025 | Aasu,RatiKhan S/o Karim Khan S/o Kade Khan Two equal shares Wasideh |
| 22 | 28//14/2/2/2 min | Chahi | Private | 0.0556 | Aasu,RatiKhan S/o Karim Khan S/o Kade Khan Two equal shares Wasideh |
| 23 | 28//16/2/2 min | Gair mumkin | Private | 0.0430 | Mahender Singh ,Tara chand Jagmal S/o Dullichand S/o Khubiram Three equal shares 3/4 share Ajay ,Sachin S/o and Rajrani Widow Hukam Singh S/o Duli chand Three equal shares 1/4 share Wasideh |
| 24 | 38//1/2 min | Chahi | Private | 0.0025 | |
| 25 | 38//2/1 min | Chahi | Private | 0.0101 | |
| 26 | 63 min | Gair mumkin Nala | Private | 0.0809 | Gram Panchayat |
| 27 | 64/2 min | Gair mumkin Nala | Private | 0.0076 | Gram Panchayat / Government of Haryana |
| 28 | 69 min | Gair mumkin Rasta | Private | 0.0025 | Gram Panchayat |
| 29 | 226 min | Gair mumkin Rasta | Private | 0.0126 | Gram Panchayat |
| 30 | 233 min | Gair mumkin Rasta | Private | 0.0177 | Gram Panchayat |
| TOTAL | | | | 0.4981 | |
| Name of District : | | | | | NUH |
| Name of Tehsil/Sub Tehsil/ Taluka : | | | | | TAURU |
| Name of the Village : | | | | | DINGARHERI |
| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares | Name of the Land Owner/ Interested persons |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 15//18/1 | Chahi | Private | 0.0051 | Hari Singh,Satpal S/o Pratap Singh S/o Nonda Two equal shares 2/5 share Smt. Mithlesh W/o Virender Singh S/o Pratap Singh 1/5 share, Praveen Malik S/o Smt. Sonam D/o Apradevi Widow Brahn Prakash Four equal shares 1/5 share Rahul Malik, Avesh Malik S/o Smt. Urmila WidowMahendar Singh Malik S/o Pratap Singh Three equal shares 1/5 share Wasideh |
| 2 | 16//4/1/2 min | Chahi | Private | 0.0025 | Sushil Kumar ishwar singh S/o Mehar Singh S/o Shyochand share wasideh |
| 3 | 16//6/1/2 | Chahi | Private | 0.0025 | Laxman Singh,Krishan Kumar ,Prem Singh S/o Ramavatar urf Liliya S/o Mamchand Three equal shares Wasideh Tathima |

| 4 | 16//6/2/2 | Chahi | Private | 0.0556 | Chetram, Dulichand Alis Hukamchand, Mahendra, Trilokchand S/o Motiram S/o Mangalram S/o Every Foue Equal Share 4/5 Share Ankit Addopt S/o Chandraprakash S/o Motiram 1/5 Share Wasideh |
|--|--------------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|---|
| 5 | 23//14/1 min | Chahi | Private | 0.0025 | Ravinder Kumar S/o Pahlad Singh S/o Chaju Ram 1/2 share Wasi Rampura Gуроan,Naveen Prakash,Praveen Prakash S/o Janakraj S/o Pahlad Singh Two equal shares 1/2 share Wasideh |
| TOTAL | | | 0.0682 | | |
| Name of District : | | | | | NUH |
| Name of Tehsil/Sub Tehsil/ Taluka : | | | | | TAURU |
| Name of the Village : | | | | | SABRAS |
| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares | Name of the Land Owner/ Interested persons |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 9//21/2 min | Chahi | Private | 0.0025 | Rajbeer Singh S/o Nafe Singh S/o Ram nath 1/3 share Wasideh, Jagbir Singh, Amit Sehwat S/o Rajbeer Singh S/o Nafe Singh Two equal shares 2/3 share Wasi Vasant kunj New Delhi |
| 2 | 10//9/1 min | Chahi | Private | 0.0025 | Dharmender,Pradeep S/o Raj Singh S/o Sehdev Two equal shares 1/3 share, Rajender Singh ,Subhash Chand S/o Mahabeer S/o Ram Singh Two equal shares 1/3 share ,Mahedner ,Surender,Narender S/o Randhir Singh S/o Ram Singh Three equal shares 1/3 share Wasideh |
| 3 | 10//12/1 min | Chahi | Private | 0.0051 | Mahender Singh,Surender Singh,Narender Singh S/o Raghubir Singh S/o Ram Singh Three equal shares 1/2 share Wasideh,Subhash Chand,Rajender S/o Mahabeer Singh S/o Ram Singh Two equal shares 1/2 share Wasi Kalwari |
| 4 | 10//13/1/1 min | Aabi | Private | 0.1568 | Dharmender,Pradeep S/o Raj Singh S/o Sehdev Two equal shares 1/3 share, Rajender Singh ,Subhash Chand S/o Mahabeer S/o Ram Singh Two equal shares 1/3 share ,Mahedner ,Surender,Narender S/o Randhir Singh S/o Ram Singh Three equal shares 1/3 share Wasideh Tathima |
| 5 | 10//16 min | Aabi | Private | 0.0025 | Manohar S/o Girdhari S/o Kashiram Wasi Sathrana Gurugram |
| 6 | 10//25/2/1 min | Aabi | Private | 0.0025 | Manohar S/o Girdhari S/o Kashiram 1/2 share Wasi Sulekha S/o MaleKhan S/o Phool Khan 1/4 share, Aamin,Tayyab,Ibrahim S/o Juhru S/o MaleKhan Three equal shares 1/4 share Wasideh |
| 7 | 13//5/2 min | Chahi | Private | 0.0025 | Harish,Surender S/o Sanjay and Suman D/o Smt. Krishna Devi Widow Bhim Singh S/o Bhagwana Fiveequal shares Wasideh |
| 8 | 14//2/1/1 min | Chahi | Private | 0.0025 | Devi Dayal S/o and Smt. Sumitra,Sarla,Sharda,Saroj D/o Smt.Indravati Widow Khajan Singh S/o Bhagwan Six equal shares Wasideh |
| 9 | 14//14/2/1 min | Chahi | Private | 0.0025 | Smt.Saveeta W/o Karambeer S/o Badluram 1/2 share Wasi Rajokri Delhi, Kamal,Kartik,Rahul S/o and Smt.Alka D/o and Smt.Saveeta Widow Karambeer S/o Badlu Five equal shares 1/2 share Wasideh |
| 10 | 14//14/3 min | Chahi | Private | 0.0076 | Balwan,Partap Singh S/o Ratiram,Mukhram Two equal shares 1/2 share ,Ved Prakash,Satish Kumar ,Parveen Kumar S/o Krishan Kumar S/o Shivdan Singh Three equal shares 1/4 share Wasi Hasanpur |
| 11 | 14//16/1 min | Chahi | Private | 0.0025 | Tauru,Dharmender,Ravinder Kumar ,Deepak S/o Mangeram S/o Banwarilal Three equal shares 1/4 shares Wasideh |
| 12 | 15//20 min | Chahi | Private | 0.0025 | KaleKhan S/o Mamla S/o Rasool Khan Wasideh |
| 13 | 15//22 min | Chahi | Private | 0.0025 | Jitender,Diwansh S/o Pratap Chand S/o Bholaram Two equal shares 1/2 share Wasi 448 Shakti Nagar Gurgaon Tarun Shethi S/o RajKumar Shethi S/o Bholaram 1/4 share Wasi 30/8 Modal Town Gurgaon Sahil Sethi S/o Satish S/o Bholaram 1/4 share Wasideh |
| 14 | 21//22/1/1 min | Chahi | Private | 0.1568 | Smt. Ramrati Widdow Ramdas S/o Nahar Singh 32/125 Share Mukesh S/o Mahendra SinghS/o Ramkuvar 31/125 Share Rajendra Kumar S/o Ramkuvar S/o Kavar Singh 37/125 Share Bhagat Singh S/o Ramdas S/o Nahar Singh 19/125 Share Smt. Roshani Widdow Mahendra Singh S/o Ramkuvar 6/125 Share Wasideh |
| 15 | 21//23/1/1 min | Chahi | Private | 0.0025 | Lalchand ,Nandlal S/o Chanderbhan S/o Lekhuram Two equal shares Wasideh |
| 16 | 21//23/2 min | Chahi | Private | 0.0126 | |
| 17 | 21//24 min | Chahi | Private | 0.0025 | Smt .Madhumiya W/o Bimal Kumar S/o Chiranjalal 1/2 share Smt. Pallavi Mishra W/o Narender Mishra S/o Vimal Kumar 1/2 share Wasideh |
| 18 | 22//3/2 min | Chahi | Private | 0.0051 | Dharmender,Pradeep S/o Raj Singh S/o Sehdev Two equal shares 1/3 share Rajender Singh,Subhash Chand S/o Mahaveer S/o Ram Singh Two equal shares 1/3 share ,Mahender ,Surender, Narender S/o Randhir Singh S/o Ram Singh Three equal shares 1/3 share Wasideh |
| 19 | 22//3/3 min | Chahi | Private | 0.0025 | Aas Mohd S/o Chitar S/o Mangli Wasideh |
| 20 | 22//7 min | Chahi | Private | 0.0025 | Dharmender,Pradeep S/o Raj Singh S/o Sehdev Two equal shares 1/3 share Rajender Singh,Subhash Chand S/o Mahaveer S/o Ram Singh Two equal shares 1/3 share ,Mahender ,Surender, Narender S/o Randhir Singh S/o Ram Singh Three equal shares 1/3 share Wasideh |
| 21 | 22//15/2 min | Chahi | Private | 0.0051 | Hasan Mohd. S/o Kalwa 6/419 share Ramjan S/o Daud 1/838 share,Rustam S/o Jodharam 2/419 share,Ramkishan S/o Dalpat 1/838 share,Surjan,Hoshiyar Singh S/o Mirchu Two equal shares 4/1257 share Smt. Risalo Widow and Omvati Bharpai,Bala,Krishna,Sunita Lakshmi D/o and OmPrakash Rajpal S/o Pyarelal S/o Ram Narayan Nine equal shares 6/419 share, Fajru S/o Chander 10/419 share ,Ishak S/o Kalwa 3/838 share,Narayan S/o Kokaram 1/838 share ,Sevaram S/o Kokaram 1/838 share, Amru, Matru S/o Chander Two equal shares 1/838 share ,Safed Khan S/o Niwaj Khan 1/838 share ,Middu, Yusuf S/o Kamlu Two equal shares 6/419 share,Mahendar,Surender S/o Randhir S/o Ram Singh Two equal shares 88/419 share ,Narayan Singh S/o Richpal S/o Ramraj 36/419 share, Panchayat Deh 10/419 share,Govt Primary School 23/419 share, Majeed S/o Navla 7/419 share, Dharmender,Pradeep S/o Raj Singh S/o Sehdev Two equal shares 88/419 share,Jagdishlal,Kundanlal S/o Karamchand S/o Lekuhram Two equal shares 5/838 |
| 22 | 22//17/1 | Chahi | Private | 0.0025 | |

| | | | | | share,Dhaniram,Tekchand,Krishan lal ,Subhash Chand ,Harishchand S/o Smt. Ganesh Lata,Koshlya D/o and Smt. Nandibai Widow Kokaram S/o Lekhuram Eight equal shares 11/419 share,Smt. Devki bai Widow and Bhagrani,Vinod Kumar ,Kailash,Shakuntla,Rajni Kumari, Lalita D/o and Mahabeer Lal ,Inderjeet S/o Ramlal S/o Chanderbhan Nine equal shares 3/838 share Smt. Kokabai Sumitra Devi, Pushpa Devi D/o Harbhagwana , Prem Sagar, Manohar Lal, Kuldeep Kumar S/o Talaram S/o Lekhuram ,Seven equal shares 8/419 share, Rajesh S/o Rajni, Savita, Neetu D/o Smt. Sukhdei Widow Ram Kishan S/o Amar Singh Fiveequal shares 3/838 share,Pushkar S/o Smt. Sheela Devi S/o Beera bai D/o Chanderbhan Two equal shares 4/1257 share, Saroj Widow and Toni S/o Pooja D/o Nunit S/o Beera bai S/o Chanderbhan Four equal shares 2/1257 share Dipak Kumar ,Pawan Kumar, Yogesh Kumar S/o Smt. Neetu D/o Jashoda bai D/o Chanderbhan Four equal shares 3/838 share,Darshan Kumar, Omprakash S/o Smt. Bhagwani, Lakshmi Devi, Sunita Devi D/o Totabai D/o Chanderbhan Fiveequal 3/838 share, Dharampal, Chanderpal S/o Smt. Bimla Prakashi D/o Pyarelal D/o Bihari Four equal shares 2/419 share,Hardayal Basant S/o Bihari Two equal shares 4/419 share, Hardayal Basant S/o Bihari Two equal shares 4/419 share ,Shriram S/o Ramnaryana 1/419 share Smt. Ishwari Devi Widow Karamchand S/o Lekhuram 5/838 share, Sumer Singh S/o Smt. Shakuntala, Saraswati D/o Bhartu Three equal shares 3/3352 share, Sonu S/o Bhateri 1/3352 share, Lalachand,Nandlal S/o Chanderbhan Two equal shares 5/838 share,Shripal S/o Somnarayan S/o Mirchu 1/3352 share Vikash S/o Satpal S/o Shyonarayan 1/3352 share, Abhishek S/o Sukhbeer S/o Shyonarayan 1/3352 share Pankaj S/o Amarjeet S/o Shyonarayan 1/3352 share, Subhash ,Rajender S/o Mahabeer Two equal shares 88/419 share Smt.Roshni Widow and Hansraj S/o Anita ,Soniya, Ritika, Kavita D/o Mahabeer S/o Chunnial Six equal shares 1/6704 share,Mohit S/o Sunil S/o Mahabeer 1/40224 share, Smt. Surjo mata Mahabeer S/o Chunnial 3/13408 share Smt. Kamla, Roshni, Risalo D/o Shamsher, Satish krishan S/o chunnial S/o mirchyia six equal shares 1/838 share Wasideh |
|--|--------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|---|
| 23 | 25//4/3 min | Chahi | Private | 0.0025 | Bashir,Ayyub ,Mahboob S/o Kamlu S/o Daud Three equal shares 3/4 share Mohd.Aziz, Rahish Ahmad S/o Fateh Mohammad S/o Kamlu Two equal shares 1/4 share Wasideh |
| 24 | 25//4/2 min | Chahi | Private | 0.0404 | Pratap Singh S/o Chatar Singh S/o khajan Singh wasi Jharsa Gurgoan |
| 25 | 25//6/1/1 min | Chahi | Private | 0.0025 | Bashir,Ayyub ,Mehbbob S/o Kamlu S/o Daud Three equal shares 3/4 share Mohd.Aziz Rahish Ahmad S/o Fateh Mohammad S/o Kamlu Two equal shares 1/4 share Wasideh |
| 26 | 25//6/2/1 min | Chahi | Private | 0.0152 | |
| 27 | 26//9/1 min | Chahi | Private | 0.0025 | Aas Mohd. S/o Mohammad Khan S/o Jagira 1/3 share,Sarajuddin ,Yusf Khan ,Islam,Israil S/o Hoshiyar Khan S/o Fusa Four equal shares 8/15 share,Shahrukh Khan, Shoyab Malik S/o Mohd. Ilyas S/o Hoshiyar Khan Two equal shares 2/15 share Wasideh |
| 28 | 26//9/2 min | Chahi | Private | 0.0025 | Jaibhagwan S/o Pratap Singh S/o Chatar Singh Wasi Jharsa Gurgoan |
| 29 | 26//11/1 min | Chahi | Private | 0.0076 | Jagdish Lal ,Kundan Lal S/o Karam Chand S/o Lekhuram Two equal shares Wasideh |
| 30 | 26//12/1 min | Chahi | Private | 0.0051 | Fajru,Ali Mohd. S/o Samela S/o Daud Two equal shares 2/3 share Buddhu S/o Daud 1/3 share Wasideh |
| 31 | 26//13 min | Chahi | Private | 0.0177 | |
| 32 | 26//14 min | Chahi | Private | 0.0025 | Rukmuddin,Hakamdeen,Jakir Hussain S/o Hassan Mohd. S/o Mahmood Three equal shares 3/8 share,Mujjaffar Ali,Mustak Irfan, Asif S/o Hassan |
| 33 | 26//16 min | Chahi | Private | 0.0025 | Mohd.Four equal shares 1/8 share, Sarajuddin,Yusuf Khan,Islam,Israil S/o Hoshiyar S/o Fusa Four equal shares 1/5 share Shahrukh Khan, Shoyab Malik /so Mohd Ilyas S/o Hoshiyar Khan Two equal shares 1/20 share Wasideh, Mohd Gulaam,Azhar S/o Mohd. Yunush 1/4 share Wasi Gurgoan |
| 34 | 26//17/1 min | Chahi | Private | 0.0126 | |
| 35 | 26//17/2/1 min | Chahi | Private | 0.0253 | Mohd.Gulam,Azhar S/o Mohd. Yunush Wasi Gurgoan |
| 36 | 26//17/3/1 mn | Chahi | Private | 0.0202 | Abdul Rahman S/o Yakub 1/21 share Umar Mohd. S/o Majeed S/o Navla 1/6 share Smt.Rasidan W/o Alimohd. 11/14 share Wasideh |
| 37 | 26//18/1 min | Chahi | Private | 0.0101 | Pratap Singh S/o Chatar Singh S/o Rajan Singh wasi Jharsa Gurgoan |
| 38 | 26//24/1 min | Chahi | Private | 0.0126 | Mohd.Gulam,Azhar S/o Mohd. Yunush Wasi Gurgoan |
| 39 | 32/1 min | Gair mumkin Gadda Khad | Private | 0.0101 | Panchayat Deh |
| 40 | 40 min | Gair mumkin Rasta | Private | 0.0025 | Panchayat Deh |
| 41 | 79 min | Gair mumkin Rasta | Private | 0.0202 | Panchayat Deh |
| 42 | 81 min | Gair mumkin Rasta | Private | 0.0101 | Panchayat Deh |
| 43 | 94 min | Gair mumkin Rasta | Private | 0.0455 | Panchayat Deh |
| TOTAL | | | | 0.6568 | |
| Name of District : | | | | | NUH |
| Name of Tehsil/Sub Tehsil/ Taluka : | | | | | TAURU |
| Name of the Village : | | | | | KALWARI |
| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares | Name of the Land Owner/ Interested persons |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 9//22/2 | Chahi | Private | 0.0076 | Satbir Singh, Ramesh chand S/o Manoharlal Two equal shares 1/20 share ,Bishambar ,Suresh,Rajendra S/o Prabhu Three equal shares 1/12 share ,Jeet Ram S/o Shadi S/o Jawahara 1/12 share ,Rohatsh S/o Jaswant S/o Shadi 1/12 share , Ratan Singh , Rajendar Prasad , Surendar Singh S/o Ram Narayan Three equal shares 17/794 share Rameshwar S/o Bhuru S/o Jawahara 6/397 share Anil Singh S/o Ramnath 5/794 share Balwan Singh S/o Heera lal S/o Dani 1/32 share Jogindar Kumar S/o Same Singh S/o Chote lal 1/32 share Parveen Kumar S/o Ram Ratan S/o Heera lal 1/32 share Rajesh Kumar , |

| | | | | | |
|------------------|--------------|-------|---------|---------------|---|
| | | | | | Rakesh Kumar S/o Kawal Singh S/o Heera Lal Two equal shares 1/32 share Ravindar , Anil S/o Ramnath S/o Bhuru Two equal shares 329/2382 share Awesh 1645/28584 share S/o Smt. Suman Devi 329/28584 share Widow Lakpat S/o Ramnath S/o Ramesh chand S/o Satbeer S/o Manohar S/o Dani Two equal shares 1/8 share Rohtash S/o-Dillu S/o Tekram 1/10 share Sunil Kumar , Rajesh Kumar S/o Krishan Kumar S/o Dillu Two equal shares 1/10 share Wasideh |
| 2 | 13//19/1 min | Chahi | Private | 0.0076 | Rajpal,Tejpal,Satpal,Shripal S/o Shyamu urf Shyamal S/o Srichand Four equal shares 1/2 share Ramkawaar, Sher Singh S/o Harnarayan S/o Nathu Two equal shares 1/4 share Omprakash, Dharmpal S/o Jagram S/o Jaiksan Two equal shares 2/3 share Yogesh , Anil Kumar S/o Shiv Kumar S/o Dharm Singh Two equal shares 1/6 share Rohit S/o and Aneka D/o Ajeet Kumar S/o Dharam Singh Two equal shares 1/6 share |
| 3 | 14//6/2/1 | Chahi | Private | 0.0329 | Jai Bhagwan, Ramniwas S/o Ramkishan S/o Natthu Two equal shares 1/9 share, Rambeer , Mani Ram , Mahabeer S/o Sita Ram S/o Kanha Four equal shares 1/9 share Ramfal , Gajraj , Hansraj S/o Sher Singh S/o Lekhram Three equal shares 29/72 share Smt. Meva Devi D/o Sher Singh S/o Lekhram 1/24 share Dharampal ,Surendar Kumar S/o Ram chandr S/o Ram Sahay Two equal shares 1/9 share Chelkarn S/o Bhuru S/o Indar 1/18 share Rameshwar S/o Hari Singh S/o Rushi 1/18 share Omparkash , Dharmpal S/o Jagram S/o Sishram 1/27 share Yogesh , Anil Kumar S/o Shiv Kumar S/o Dharm Singh Two equal shares 1/54 share Jawahar Singh,Satveer Singh, Beerbal S/o Amar Singh S/o Bhuru Three equal shares 3/64 share Smt. Munni devi Wido Satpal S/o Amar Singh 5/576 share Wasideh |
| 4 | 14//27/1 min | Chahi | Private | 0.0025 | Sonu D/o Satpal S/o Amar Singh 1/72 Share Chhail karan S/o Bhuru S/o Indar 1/4 share Rameshwar S/o Hari Singh S/o Russy 3/20 share Umesh, Avtaar S/o Shri Ram S/o Hari Singh Two equal shares 1/10 share. Lal Singh,Krishna S/o Rameshwar S/o Hari Singh Two equal shares 1/10 share Smt. Santosh W/o Rajendar S/o Meer Singh 8/161 share, Shri Ram S/o Hari Singh S/o Russy 243/3220 share Smt. Annu W/o Krishan Kumar S/o Rameshwar 4/161 share Jawahar Singh, Satveer Singh ,Birbal S/o Amar Singh S/o Bhuru Three equal shares 3/16 share , Smt. Munni Widow Satpal S/o Amar Singh 7/144 share Wasideh |
| 5 | 23//1/2 min | Aabi | Private | 0.0076 | Panchayat Deh |
| 6 | 24//5/1 min | Aabi | Private | 0.0051 | Panchayat Deh |
| TOTAL | | | | 0.0633 | |
| Sub Total | | | | 9.4096 | |

[F. No. 8-W/HRIDC/W.Spl/2019]

BRAJ BHUSAN SINGH TOMAR, Chief Administrative Officer (C)